



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1943]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2009/अग्राहायणा 3, 1931

No. 1943]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2009/AGRAHAYANA 3, 1931

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2009

का.आ. 3000(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसकी परचात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई तत्कालीन भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 9(अ), तारीख 1 जनवरी, 2009, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 142.400 कि.मी. से 212.100 कि.मी. (गुडगांव-कोटपूतली-जयपुर सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (छः लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन दिनांक 5 फरवरी, 2009 के "दैनिक नवज्योति" एवं दिनांक 5 फरवरी, 2009 "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ६ के 142/400 कि.मी. से 212/100 (गुडगांव कोटपुतली जयपुर खण्ड) के लिये अर्ज की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुका / तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	सूचनाएं / शिर्षक व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. जयपुर	1. विराट नगर	1. बागबास अहिरान	88	निजी	बंजर	121	बनवारीलाल मित्तल पुत्र साहूकार मित्तल मंगल सैन मित्तल पुत्र बनवारीलाल मित्तल नि. बागबास अहिरान
				89	निजी	बंजर 2	121	बनवारीलाल मित्तल पुत्र साहूकार मित्तल मंगल सैन मित्तल पुत्र बनवारीलाल मित्तल नि. बागबास अहिरान
				118	सरकारी	आबादी	73	सिवाय चक (आबादी)
				119	सरकारी	आबादी	37	सिवाय चक (आबादी)
				122	सरकारी	गेर मुमकिन सड़क	25	महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग
				136	निजी	चाही	221	बन्धमान सैनी पुत्र नेतराम सैनी सा. गोंध साहीपुर टाईप 5/1 सलीमर बाग दिल्ली 88 हि. 207/208 रामकरण पुत्र छतरमल यादव हि. 1/208 सा. देह
				234	सरकारी	गेर मुमकिन सड़क	10	महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग
				245	सरकारी	चारगाह	65	चरागाह
				246	सरकारी	चारगाह	70	चरागाह
				254	सरकारी	चारगाह	66	चरागाह
				255	सरकारी	चारगाह	101	चरागाह
				426	निजी	गेर मुमकिन	110	सुगला छोटाराम बोटाराम ओमकार नि. रमला हि. 1/4 चन्द पुत्र छोटु हि. 1/18 गोविन्द पुत्र रामगंध हि. 1/9 सुगलाल पुत्र बोटार हि. 1/6 सु. नगवती बेवा सुबा जगदीश लक्ष्मण रामकुमार नि. सुबा हि. 1/6 सा. देह रामकुमार पुत्र सुगला दत्तक पुत्र साधु जति अहीर सा. देह हि. 1/4
				427	निजी	बाराही 1	386	सुगला छोटाराम बोटाराम, ओमकार पि. रामला हि. 1/2 लादा पुत्र जग्गू हि. 1/2 कोम अहीर सा. देह
				428	निजी	चाही 2	728	सुरेश कुमार नाबालिग पुत्र गोविन्दराम संखिका माता स्वयं श्रवणदेवी पति गोविन्दराम हि. 1/9, उपराव हरफूल मालीराम रामसिंह पि. नाथू ग्यासी देवा नाथू व इन्द्राज पुत्र मूलचन्द धमली बेवा मूलचन्द हि. 1/9 अहीर मदनलाल पुत्र ओमकारमल सैनी हि. 1/9 कोम माली सा. नारनील अशा अग्रवाल पति बालकृष्ण गर्ग जति महाजन निवास मानसरोवर जयपुर 4070 112/217 हि. 1/3 नारायण राम इन्मान पि. काल्याहि. 1/3 कोम अहीर सा. देह खातेदार।
				470	निजी	चाही 2	786	सुरेश कुमार नाबालिग पुत्र गोविन्दराम संखिका माता स्वयं श्रवणदेवी पति गोविन्दराम हि. 1/9 उपराव हरफूल मालीराम रामसिंह पि. नाथू ग्यासी देवा नाथू व इन्द्राज पुत्र मूलचन्द धमली बेवा मूलचन्द हि. 1/9 कोम अहीर मदनलाल पुत्र ओमकारमल सैनी हि. 1/9 कोम माली सा. नारनील उपराव पुत्र नाथू हि. 1/9 इन्द्राज पुत्र मूलचन्द हि. 1/9 हरफूल राम सिंह पि. नाथू राम हि. 1/9 ग्यासीदेवी पति नाथू राम हि. 1/3 कोम अहीर सा. देह
				471	निजी	चाही 2	400	सुगला छोटाराम बोटाराम, ओमकार पि. रामला हि. 1/2 राम कुवार पुत्र सुगाराम दत्तक पुत्र लादा हि. 1/2 कोम अहीर सा. देह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				472	निजी	बारानी ए	566	नारायण हरसहाय गोविन्दराम पि। रामनाथ हिस्सा 3/8 रामू नारायण पि। विशना हि। 1/8 उपराव हरफूल राम सिंह मालीराम पि। नाथू हि। 21/160 ग्यास्ती पति 3/40 नाथूराम हि। 3/128 इन्द्राज पुत्र मूलचन्द हि। 1/40 धमली पति मूलचन्द हि। 3/384 सुरेश कुमार नारायण पुत्र हरसाय संसक पि। हरसहाय पुत्र रामनाथ हि। 3/16 चन्दा पुत्र छोटे हि। 1/8 कौम अहीर सा. देह
				475	निजी	बारानी ए	172	छोटुराम बोदू ओमकार पि। रामनाथ हि। 3/8 कौम अहीर गुलझारीलाल पुत्र रामप्रसाद शर्मा हि। 3/8 नाथू लाल पुत्र राधेश्याम शर्मा हि। 1/4 कौम ब्राह्मण सा। छोटोली
				476	निजी	बारानी ए	884	छोटुराम बोदू ओमकार पि। रामकरण हि। 3/8 कौम अहीर गुलझारीलाल पुत्र रामप्रसाद शर्मा हि। 3/8 नाथू लाल पुत्र राधेश्याम शर्मा हि। 1/4 कौम ब्राह्मण सा। छोटोली
				477	निजी	बारानी ए	645	छोटू बोदू ओमकार पि। रामला हि। 3/8 हरसिंहचन्द पुत्र विरजीलाल शर्मा हिस्सा 150/1500 छोटेलाल पु। राधेश्याम शर्मा हिस्सा 150/1500 बोटनलाल पु। लक्ष्मीनारायण शर्मा हि। 150/1500 बाललाल पुत्र प्रमोदयाल शर्मा हि। 100/1500 ओमपकाश पुत्र नारायण सहाय शर्मा हि। 100/1500 मांगीलाल सन्तोष कुमार पि। प्रमोदयाल शर्मा हि। 125/1500 रविदत्त पुत्र भोरेलाल शर्मा हि। 62/1500 सकेज कुमार पुत्र हजारीलाल जाति ब्राह्मण हि। 100/1500 पि। छोटोली
				488	निजी	चाही 1	1300	बोटुराम पि. नारायण श्रीमती हिम्मा देवी बेवा नारायण हि. 1/2 देवीसहाय हरदेव हि. 1/2 कौम अहीर सा. देह
				489	निजी	गेर मुमकिन	100	बोटुराम पि. नारायण श्रीमती हिम्मा देवी बेवा नारायण हि. 1/4 देवीसहाय हरदेव हि. 1/4 ओमकार पुत्र रामनाथ मूला देवा पि. जगन्नाथ हि. 1/2 कौम अहीर सा. देह
				490	निजी	चाही 2	400	बोटुराम पि. नारायण श्रीमती हिम्मा देवी बेवा नारायण हि. 1/2 देवीसहाय पि. हरदेव हि. 1/2 अहीर सा. देह
				491	निजी	चाही 2	400	बोटुराम पि. नारायण श्रीमती हिम्मा देवी बेवा नारायण हि. 1/2 देवीसहाय पि. हरदेव हि. 1/2 अहीर सा. देह
				492	निजी	चाही	1016	ओमकार देवला पि. जगन्नाथ कौम अहीर सा. देह
				656	सरकारी	गेर मुमकिन	149	सरकारी
				657	निजी	बारानी 2	885	उमराव हरफूल रामसिंह मालीराम पि. नाथू ग्यास्ती बेवा नाथू इन्द्राज पुत्र मूलचन्द धमली बेवा मूलचन्द हि. 3/8 चोथुराम पुत्र भगवाना हि. 3/8 चन्द पुत्र छोटे हि. 1/4 कौम अहीर सा. देह
				665	निजी	चाही 2 बंजर	983	उमराव हरफूल मालीराम रामसिंह पि. नाथू ग्यास्ती बेवा नाथू व इन्द्राज पुत्र मूलचन्द धमली बेवा मूलचन्द हि। 3/8 सुरेश कुमार नारायण पुत्र गोविन्दराम संसक पि। स्वयं हि। 4/5 इल्बाल सिंह पु। गुरीमत सिंह सा. 5/9/8 बालिवकी मार्ग राजायाक जयपुर हि। 1/5 दर हि। 3/8 कौम अहीर सा. देह बालकृष्ण पुत्र गोपाललाल गर्ग हि। 1/4 पि। 112/217 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर खातेदार
				666	निजी	बंजर	136	उमराव हरफूल रामसिंह मालीराम पि. नाथू ग्यास्ती बेवा नाथू इन्द्राज पुत्र मूलचन्द धमली बेवा मूलचन्द हि। 3/8 नारायणी पति चोथुराम हि। 3/8 कौम अहीर सा. देह बालकृष्ण पुत्र गोपाललाल गर्ग हि। 1/4 पि। 112/217 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				667	निजी	चाही 2 बंजर	697	उमराव हरकुल रामसिंह मालीराम पि० नाथू ग्यारसी बेवा नाथू इन्द्राज पुत्र मूलचन्द धमती बेवा मूलचन्द हि० 3/8 सुरेश कुमार नौवा० पुत्र गोविन्दराम सखक पिता स्वयं गोविन्दराम हि० 3/8 जाति अहीर सा देह बावकुण पुत्र गोपाल लाल गर्ग हि० 1/4 नि० 112/217 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर खातेदार
				668	निजी	बारानी बंजर	926	उमराव हरकुल रामसिंह मालीराम पि० नाथू ग्यारसी बेवा नाथू इन्द्राज पुत्र मूलचन्द धमती बेवा मूलचन्द हि० 3/8 सुरेश कुमार नौवा० पुत्र गोविन्दराम सखक पिता स्वयं गोविन्दराम हि० 3/8 जाति अहीर सा देह बावकुण पुत्र गोपाल लाल गर्ग हि० 1/4 नि० 112/217 अग्रवाल फार्म मानसरोवर जयपुर खातेदार
				692	निजी	बारानी 1	853	बोदुराम पि० नारायण श्रीमती छिम्मा देवी बेवा नारायण 1/2 देवीसहाय पुत्र हरदेव हि० 1/2 कौम अहीर सा देह
				693	निजी	बारानी 1	57	बोदुराम पि० नारायण श्रीमती छिम्मा देवी बेवा नारायण 1/2 देवीसहाय पुत्र हरदेव हि० 1/2 कौम अहीर सा देह
				694	निजी	बारानी 1	770	बोदुराम पि० नारायण श्रीमती छिम्मा देवी बेवा नारायण 1/2 देवीसहाय पुत्र हरदेव हि० 1/2 कौम अहीर सा देह
				695	निजी	बारानी 1	62	बोदुराम पि० नारायण श्रीमती छिम्मा देवी बेवा नारायण 1/2 देवीसहाय पुत्र हरदेव हि० 1/2 कौम अहीर सा देह
				696	निजी	बारानी 1	560	बोदुराम पि० नारायण श्रीमती छिम्मा देवी बेवा नारायण 1/2 देवीसहाय पुत्र हरदेव हि० 1/2 कौम अहीर सा देह
				697	निजी	बारानी 1	1298	बोदुराम पि० नारायण श्रीमती छिम्मा देवी बेवा नारायण 1/2 देवीसहाय पुत्र हरदेव हि० 1/2 कौम अहीर सा देह
						कुल	16179	
			2. बनीपार्क	263	निजी	बारानी 1	120	मूलचन्द अर्जुन मोती पि० गोपाल अहीर सा देह
				264	निजी	बारानी 2 बंजर	10	मूलचन्द अर्जुन मोती पि० गोपाल अहीर सा देह
				295	निजी	बारानी 1	54	सतीदान सिंह पुत्र सुखदेव सिंह सा देह राजपूत राहिन जजि.सह. भूमि विकास बैंक लि. शाहपुरा मुर्तहीन
				299	निजी	बारानी 1	1366	सुल्तान शिम्पू अबरू नेहरू रामनारायण सतीदान पि० सीता तीजा पति सीता सती श्रवण मूली पुत्री सीता जाति अहीर सा देह
								सूबा पुत्र भूरा हि० 1/4 भागीरथ शिम्पू सोनाराम फूलचन्द पि० गंगु श्रवणदेवी पुत्री गंगुसाम हि० 1/4 सूबा राहिन जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाहपुरा जि० जयपुर मूर्तहीन जयसाम पुत्र कन्हैया सजयादेवी बेवा कन्हैया रोहतास पुत्र प्रभातीलाल गेन्दा बेवा प्रभातीलाल हि० 1/4 बशी कलाश पि० भगवाना हि० 1/6 विलास शंकर पुत्र भगवाना हि० 1/2 राहिन जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि० जयपुर मूर्तहीन कौम अहीर सा देह
				335	निजी	चाही 2	478	धुता पुत्र मान कौम अहीर सा देह राहिन यू.को. बैंक शाखा आतेला मूर्तहीन
				336	निजी	चाही 2	375	सुल्तान शिम्पू अबरू नेहरू रामनारायण सतीदान पि० सीता तीजा पति सीता सती श्रवण मूली पुत्री सीता जाति अहीर
				337	निजी	बंजर डोल	69	सुल्तान शिम्पू अबरू नेहरू रामनारायण सतीदान पि० सीता तीजा पति सीता सती श्रवण मूली पुत्री सीता हि० 1/2 चतरा पुत्र मान 1/2 कौम अहीर
				361	निजी	बारानी 1	1234	प्रभु पुत्र कुशा 1/2 सरदार रामप्रसाद जगदीश पि० लादू रमकी सोनी सुन्दर पुत्रियान लादू 1/2 कौम अहीर सा देह प्रभु पुत्र कुशा हिस्सा 1/2 राहिन यू.को. बैंक शाखा आतेला
				365	निजी	बारानी 2	760	प्रभु पुत्र कुशा अहीर 9/86 लखबिन्दकोर धर्मपति मन्दीपा सिंह जटसिख निवासी लुहार फार्म ग्राम गोकुलपुरा हिस्सा 7/86 दर हिस्सा 1/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				374	निजी	बारानी 1	971	रयामला पुत्र घासी 1/2 नाथु पुत्र लादु 1/2 कौम अहीर सा देह घासी - राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
				375	निजी	बारानी 2	717	रयामला पुत्र घासी 1/2 नाथु पुत्र लादु 1/2 कौम अहीर सा देह घासी - राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
				396	निजी	चाही 2	715	रयामला पुत्र घासी 1/2 नाथु पुत्र लादु 1/2 कौम अहीर सा देह घासी - राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
				397	निजी	चाही 2	848	रयामला पुत्र घासी 1/2 नाथु पुत्र लादु 1/2 कौम अहीर सा देह घासी - राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
				425	निजी	चाही 2	893	रयामला पुत्र घासी 1/2 नाथु पुत्र लादु 1/2 कौम अहीर सा देह घासी - राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
						कुल	9819	
			3. अतिला	2946	निजी	बारानी 2	125	गुल्लाराम शिवचन्द पूरणमल पि. रामनाथ सा देह राहिन यूको बैंक शाखा अतिला
				2947	निजी	बारानी 2	104	गुल्लाराम शिवचन्द पूरणमल पि. रामनाथ सा देह राहिन यूको बैंक शाखा अतिला
				2950	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	12	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				2951	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	10	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				2952	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	13	सार्वजनिक निर्माण विभाग
						कुल	284	
			4. हनुमाननगर	3544	निजी	बारानी 3	2097	प्रहलाद अर्जुन पि. महादेव व.मु. मोहरा बेवा महादेव कौम अहीर सा. देह राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
				3545	निजी	बारानी 3	677	प्रहलाद अर्जुन पि. महादेव व.मु. मोहरा बेवा महादेव कौम अहीर सा. देह राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
				3546	निजी	बारानी 3	864	प्रहलाद अर्जुन पि. महादेव व.मु. मोहरा बेवा महादेव कौम अहीर सा. देह राहिन सेन्द्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पावटा
				3732	निजी	बारानी 3 बंजर	3449	कमला कंवर पति स्व. कृपालसिंह विजेन्द्र सिंह श्यामलसिंह पि. कृपाल भू. कंवर पुत्री कृपाल सिंह हि. 17/19 धानाराम पुत्र भगवान सहाय हि. 2/19 दर हि. 1/2 कौम जाट शाहपुरा सा. देह
				3738	निजी	बंजर 1	1132	बाबूलाल पुत्र धीसाराम हि. 1/9 माली विमला पति जगदीश प्रसाद हि. 1/27 भूलचन्द पु. धना हि. 2/27 रामबाबू ओमप्रकाश अशोक पि. गोखन हि. 1/3 कल्याणी देवी विमला देवी बनारसी देवी मुन्नी देवी पुत्रीया गोखन हि. 4/9 कौम महाजन सा. देह खातेदार
				3740	निजी	गैर मुमकिन बंजर	1411	रामबाबू ओमप्रकाश रामावतार सुभाष अशोक पि. गोखन कल्याणी देवी विमला देवी मुन्नी देवी बनारसी देवी पुत्रीया गोखन कौम महाजन सा. देह
				3752	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	97	सिवायचक
				3753	निजी	बारानी 2	100	गुलाराम गैदालाल दुधाराम पि. गणेश दुगा देवी पति गणेश हि. 1/9 ग्यारसीलाल बाबु पि. काना हि. 2/9 रामेश्वर प्रसाद पुत्र धीसाराम हि. 1/3 ममता पु. नारायण हि. 1/3 दर हि. 2/3 बाबूलाल पुत्र धीसा हि. 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3754	निजी	बारानी 2	2752	भरतमल मोजीराम पि. गवर्धनलाल हि. 1/27 अहीर रामकिशोर ताराचन्द पि. रामेश्वर प्रसाद हि. 1/27 कौम माली, ग्यारसीलाल बाबू पि. काना हि. 4/27 छोटी पति, घीसा सुगनचन्द प्रहलाद शिम्भूदयाल रामेश्वर पि. घीसा केशर देवी पुत्री घीसा हि. 2/9 मागीरय कलाश चन्द पि. गवर्धनलाल अहीर हि. 500/778 दर हि. 2/9 बाबूलाल पुत्र घीसा हि. 1/3 कौम माली सा. देह तेजोन्द ककड पुत्र श्री गोपाल दास ककड जाति खत्री हि. 128/3500 पंजाबी नि. डीम 7/7176 बसन्त कुंज नई दिल्ली सरदारमल रां:स्वरूप पि. गवर्धनलाल हि. 133/276 दर हि. 278/3500 कौम माली सा. देह मामला पुत्र नारायण हि. 10/3500 कौम अहीर
				3755	निजी	बारानी 2	20	सुनिता देवी पतिन राजेश कुमार शर्मा पुत्र चौधमल सुन्दरलाल पुत्र चौधमल शर्मा सुगाराम पुत्र राजेश माली आरती देवी पतिन गोरीशंकर तलीला देवी पतिन हनुमान सहाय गेन्द्याल पुत्र गणेश माली ग्यारसीलाल बाबू पि. काना बाबूलाल पुत्र घीसा मामला पु. नारायण छोटी पतिन स्व. घीसा सुगनचन्द शिम्भूदयाल रामेश्वर पि. घीसा केशरी पुत्री घीसा दुर्गा पतिन राजेश माली सा. देह
				3765	निजी	बारानी 2	82	सुगाराम गेन्द्यालल बुद्धाराम पि. गणेश दुर्गा देवी पतिन स्व. गणेश हि. 2/27 ग्यारसी लाल बाबूलाल पि. कानाराम हि. 4/27 छोटी पत्नी स्व. घीसा सुगनचन्द प्रहलाद सहाय शिम्भूदयाल रामेश्वर पि. घीसा केशरी पुत्री घीसा हि. 2/9 मामला पुत्र नारायण हि. 2/9 बाबूलाल पुत्र घीसा हि. 1/3 माली सा. देह
				3765	निजी	बारानी 2	740	राजेश ग्यारसीलाल बाबू पि. काना हि. 1/3 मामला पुत्र नारायण हि. 1/3 छोटी पतिन स्व. घीसा सुगनचन्द प्रहलाद सहाय शिम्भूदयाल रामेश्वर पि. घीसा केशरी पुत्री घीसा हि. 1/3 मामला पुत्र नारायण हि. 2/9 बाबूलाल पुत्र घीसा हि. 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार
				3768	निजी	बारानी 2	670	सुगाराम गेन्द्यालल बुद्धाराम पि. गणेश दुर्गा देवी पतिन स्व. गणेश हि. 2/27 ग्यारसी लाल बाबूलाल पि. कानाराम हि. 4/27 छोटी पत्नी स्व. घीसा सुगनचन्द प्रहलाद सहाय शिम्भूदयाल रामेश्वर पि. घीसा केशरी पुत्री घीसा हि. 2/9 मामला पुत्र नारायण हि. 2/9 बाबूलाल पुत्र घीसा हि. 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार
				3769	निजी	बारानी 2	700	सुगाराम गेन्द्यालल बुद्धाराम पि. गणेश दुर्गा देवी पतिन स्व. गणेश हि. 2/27 ग्यारसी लाल बाबूलाल पि. कानाराम हि. 4/27 छोटी पत्नी स्व. घीसा सुगनचन्द प्रहलाद सहाय शिम्भूदयाल रामेश्वर पि. घीसा केशरी पुत्री घीसा हि. 2/9 मामला पुत्र नारायण हि. 2/9 बाबूलाल पुत्र घीसा हि. 1/3 कौम माली सा. देह खातेदार
						कुल	14791	मूली देवी पत्नी अर्जुन हि. 1/8 कमली पत्नी दुर्गा हि. 1/16 मवरी पत्नी फूला हि. 1/16 दर हि. 1347/4848 कौम गुर्जर परता बाबूलाल पि. मूरा हि. 416/4848 कान्ता गुलाटी पत्नी आर एस गुलाटी हि. 41/114 नितिन गुलाटी पुत्र आर एस. गुलाटी हि. 41/144 सविता आहुजा पत्नी विरेन्द्रपाल आहुजा हि. 16/57 दर हि. 76729/572064 कौम खत्री नि. ए. 58 बी. 312 राजरी गार्डन नई दिल्ली सन्ती पत्नी ख्यालीराम हि. 1/4 दर हि. 1347/4848 कौम गुर्जर फूला दुर्गा पि. छोटी हि. 104/4848 कौम गुर्जर सा बजरंगपुरा गिस्वारी पुत्र छोटी हि. 1/2 दर हि. 1347/4848 धूणा पुत्र लाटू हि. 27/34 दर हि. 1347/9686 सन्ती पत्नी ख्यालीराम गुर्जर हि. 7/34 बजरंगपुरा सरदार पुत्र चन्दा हि. 40/4848 कौम जाट जमना देवी पत्नी पुसाराम हि. 104/4848 हि. 5/7 दर हि. 104/4848 धूणीलाल पुत्र सुगलाल ममता पुत्री जगदीश हि. 2/7 दर हि. 104/4848

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1541	मित्री	बंजर 1	48	मूली देवी फली अर्जुन हि 1/8 कमली फली दुर्गा हि 1/16 मवरी फली फूल हि 1/16 दर हि 1347/4048 कोम गुजर परता बाहुलाल हि मूर हि 416/4048 कन्ता गुलटी फली आरएस गुलटी हि 41/114 मिनिन गुलटी पुत्र आरएस गुलटी हि 41/144 सविता आहुजा फली मिरेनपाल अहुजा हि 16/57 दर हि 76729/572064 कोम खत्री नि ए 58 बी 312 सजोरी मारहन चंद दिल्ली सन्ती फली खालीराम हि 1/4 दर हि 1347/4048 कोम गुजर फूल दुर्गा हि छोट हि 104/4048 कोम गुजर सा बजरंगपुर मिश्रा हि पुत्र छोट हि 1/2 दर हि 1347/4048 गुमा पुत्र लट्ट हि 27/34 दर हि 1347/9886 सन्ती फली खालीराम गुजर हि 7/34 बजरंगपुर सरदार पुत्र चन्दा हि 40/4048 कोम जाट जमना देवी फली पुस्तारम हि 104/4048 व हि 5/7 दर हि 104/4048 धुनीलाल पुत्र सुवालाल मन्ना पुत्री जगदीश हि 2/7 दर हि 104/4048
				1544	मित्री	बंजर 1	40	मूली देवी फली अर्जुन हि 1/8 कमली फली दुर्गा हि 1/16 मवरी फली फूल हि 1/16 दर हि 1347/4048 कोम गुजर परता बाहुलाल हि मूर हि 416/4048 कन्ता गुलटी फली आरएस गुलटी हि 41/114 मिनिन गुलटी पुत्र आरएस गुलटी हि 41/144 सविता आहुजा फली मिरेनपाल अहुजा हि 16/57 दर हि 76729/572064 कोम खत्री नि ए 58 बी 312 सजोरी मारहन चंद दिल्ली सन्ती फली खालीराम हि 1/4 दर हि 1347/4048 कोम गुजर फूल दुर्गा हि छोट हि 104/4048 कोम गुजर सा बजरंगपुर मिश्रा हि पुत्र छोट हि 1/2 दर हि 1347/4048 गुमा पुत्र लट्ट हि 27/34 दर हि 1347/9886 सन्ती फली खालीराम गुजर हि 7/34 बजरंगपुर सरदार पुत्र चन्दा हि 40/4048 कोम जाट जमना देवी फली पुस्तारम हि 104/4048 व हि 5/7 दर हि 104/4048 धुनीलाल पुत्र सुवालाल मन्ना पुत्री जगदीश हि 2/7 दर हि 104/4048
				1545	मित्री	बंजर 1	57	मूली देवी फली अर्जुन हि 1/8 कमली फली दुर्गा हि 1/16 मवरी फली फूल हि 1/16 दर हि 1347/4048 कोम गुजर परता बाहुलाल हि मूर हि 416/4048 कन्ता गुलटी फली आरएस गुलटी हि 41/114 मिनिन गुलटी पुत्र आरएस गुलटी हि 41/144 सविता आहुजा फली मिरेनपाल अहुजा हि 16/57 दर हि 76729/572064 कोम खत्री नि ए 58 बी 312 सजोरी मारहन चंद दिल्ली सन्ती फली खालीराम हि 1/4 दर हि 1347/4048 कोम गुजर फूल दुर्गा हि छोट हि 104/4048 कोम गुजर सा बजरंगपुर मिश्रा हि पुत्र छोट हि 1/2 दर हि 1347/4048 गुमा पुत्र लट्ट हि 27/34 दर हि 1347/9886 सन्ती फली खालीराम गुजर हि 7/34 बजरंगपुर सरदार पुत्र चन्दा हि 40/4048 कोम जाट जमना देवी फली पुस्तारम हि 104/4048 व हि 5/7 दर हि 104/4048 धुनीलाल पुत्र सुवालाल मन्ना पुत्री जगदीश हि 2/7 दर हि 104/4048
				3077	मित्री	बासनी 1	92	सारेखरी फली मोलाराम सुनिता फली रामेश्वर ममू फली सन्तीलाल हि 1/2 गहर सिंह पुत्र मंगलाराम यादव जबला रोड कोटपूरवी महेन्द्र कुमार पु छोटपुत्र यादव 10/36 विमकुट कालेगी जसोक्त पुत्र बलराम सिंह यादव नि 10/4 विमकुट जसपुर हि 4/5
				3078	मित्री	बासनी 1	88	पुंदा राम पु बात्या गहरसिंह पुत्र मंगलाराम यादव नि जबरला रोड महेन्द्र कुमार पु छोटपुत्र जसोक्त पुत्र बलराम सिंह हि 4/5 धूमा पुत्र बालू हि 1/2 कोम अहीर सा देह खतोदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3079	निजी	बारानी 1	10	धूडा राम पु. बाल्या नाहरसिंह पुत्र मंगलाराम यादव पि. डावला रोड महेन्द्र कुमार पुत्र छोदू राम अशोक पुत्र बलवन्त सिंह हि. 4/5 धूगा पुत्र बाबू हि. 1/2 कोम अहीर सा देह खातेदार
				3080	निजी	बारानी 1	38	सुरजा पुत्र जुथा हि. 1/4 कानाराम बाबुलाल कैलाश पि. धूडा
				3082	निजी	बारानी ए	109	जमनलाल पुत्र खाना कोम जाट महेन्द्र कुमार पुत्र छोदू राम अहीर
				3225	निजी	बंजर 1	10	भरलाल फूलाराम माधोलाल दानाराम पि. बल्लाराम हि. 2/3 धूडाराम जमनाराम रुगाराम जाट हि. 1/36 साधूराम पुत्र लक्ष्मीनारायण 1/36 सोनाराम जल्लाराम पि. नारायण सहजा बेवा नारायण हि. 5/18
				3226	निजी	चाही 2 जाव 2 बंजर 2 बारानी 2	226	भरलाल फूलाराम माधोराम दानाराम पि. बल्लाराम कोम जाट.
				3227	निजी	बारानी 2	62	लक्ष्मी देवी पत्नि हरिचन्द पुत्री प्रमूदयाल जाति रैगर
				3228	निजी	बारानी 2	57	लक्ष्मी देवी पत्नि हरिचन्द पुत्री प्रमूदयाल जाति रैगर
				3235	निजी	बारानी 2	66	गिरखारी धूणा पि. गगल्या हि. 2/3 दर हि. 1010/4848 धूणीलाल पुत्र सुबालाल ममता पुत्री जगदीश हि. 228/33936 ज्याना देवी पत्नी सुण्डाराम हि. 1368/33936 परता बाबूलाल पि. भूरा हि. 456/4848 जाति जाट फूला पुत्र छोदू दुर्गा पुत्र छोदू सन्ती पत्नी ख्यालीराम हि. 1/2 धूणा पुत्र लादू हि. 1/2 दर हि. 3040/4848 फूला दुर्गा पि. छोदू हि. 114/4848 मूर्ती देवी पत्नी अर्जुन हि. 1/6 कमली पत्नी दुर्गा हि. 1/12 मवरी पत्नी फूला हि. 1/12 दर हि. 1010/4848 कोम गुर्जर सा बजरगपुरा
				3236	निजी	बारानी 2	49	गिरखारी सुण्डा धूणा गाडा पि. गगल्या हि. 1347/4848 जाट गिरखारी पुत्र छोदू हि. 104/4848 गिरखारी पुत्र छोदू सुण्डा पुत्र लादू हि. 2693/4848 कोम गुर्जर सुबालाल हनुमान सहाय पि. नाच्छा 208/4848 परता बाबूलाल पि. भूरा हि. 416/4848 साधा सरदार पि. चन्दा हि. 80/4848 कोम जाट
				3238	सरकारी	बंजर डोल	54	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				3241	निजी	बारानी 1	1752	भरलाल फूलाराम माधोलाल धानाराम पि. बल्लाराम जमनाराम पि. नारायण सहजा बेवा नारायण रामप्रसाद जगदीश प्रसाद पि. लादूराम अहीर धूडाराम सोणाराम जल्लाराम पि. नारायण अहीर दाताराम पुत्र मखनलाल गुर्जर
				3242	निजी	बंजर 1	428	भरलाल फूलाराम माधोलाल धानाराम पि. बल्लाराम जमनाराम पि. नारायण सहजा बेवा नारायण रामप्रसाद जगदीश प्रसाद पि. लादूराम अहीर धूडाराम सुणाराम जल्लाराम पि. नारायण अहीर दाताराम पुत्र मखनलाल गुर्जर
				3243	निजी	बंजर 1	13	भरलाल फूलाराम माधोलाल धानाराम पि. बल्लाराम जमनाराम पि. नारायण सहजा बेवा नारायण रामप्रसाद जगदीश प्रसाद पि. लादूराम अहीर धूडाराम सुणाराम जल्लाराम पि. नारायण अहीर दाताराम पुत्र मखनलाल गुर्जर
				3247	सरकारी	गैर मुम्किन सड़क	646	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				3248	निजी	बारानी 2	2515	भरलाल फूलाराम माधोलाल धानाराम पि. बल्लाराम जमनाराम पि. नारायण सहजा बेवा नारायण रामप्रसाद जगदीश प्रसाद पि. लादूराम अहीर धूडाराम सुणाराम जल्लाराम पि. नारायण अहीर दाताराम पुत्र मखनलाल गुर्जर
				3249	निजी	चाही 2 जाव 2 बारानी 2	3175	भरलाल फूलाराम माधोराम दानाराम पि. बल्लाराम कोम जाट
				3250	निजी	बारानी ए	764	खेताराम पुत्र गोपिराम रैगर
				3251	निजी	बारानी ए	1621	ख्यालीराम जयराम लक्ष्मण पि. नारायण अहीर सा देह खातेदार
				3252	निजी	बारानी ए	521	बाबूलाल कानाराम पुत्र धूडाराम

9

6

7

6

5

3

2

1

									जोनेन्द्र पत्नी अमरसिंह निवासी तिलक नगर जयपुर हि. 21/30 हनुमान पुत्र शिवदा नारायण पुत्र बाबुराम हि. 9/30 दर हि. 1/2 नाथूराम धनाराम हि. बालक हि. 1/3 नाथू पूणा पि. बाला सगरी जडी सगरी देवी पुत्रीया बाल्या हि. 1/6 कोम अहीर
					निजी	बाराणी १	1892		
					सरकारी	मे.मु. सबक	254		सार्वजनिक निर्माण विभाग
					निजी	बाराणी 2	38		गोपीराम पुत्र जूथाराम सेठाराम पुत्र घोसाराम जाति रंगर सा देह खातेदार
					निजी	चाही 2 जाव 2 बाराणी 2	738		गोपीराम पुत्र जूथाराम सेठाराम पुत्र घोसाराम जाति रंगर सा देह खातेदार
							18453		रामप्रसाद जगदीश प्रसाद पि. लादुराम यादव हि. ब.हि. कोम अहीर पि. बागालास अहीराम
						बुल	30		
					निजी	बाराणी 3	2905		बरीर अली खाँ पुत्र बजीर हि. 1/3 मकीया अमरी पुत्री बजीरा हि. 1/6 सिकका अजुन लाल पुत्र रामलाल माली 1/2 सा. देह खातेदार
					निजी	बाराणी 3	2953		मतादीन पुत्र सुबालाल हि. 380/450 कोम सब अमरीर यादव पुत्र काबूराम यादव हि. 80/480 बहबोदा दर हि. 3/4 सरस्वती बेवा सुबालाल हि. 1/4 जाति राय सा. देह खातेदार
					निजी		47		मतादीन पुत्र सुबालाल हि. 3848/3780 सब मकीया अमरी बहबोदा दर हि. 61/3780 रोहितारा पुत्र रामदेव हि. 53/3750 माली सरस्वती बेवा सुबालाल हि. 1/4 राय सा. देह खातेदार
					सरकारी	मे.मु.सिंहि नरक	50		सार्वजनिक निर्माण विभाग
					निजी	बाराणी 3	31		बाबूलाल पुत्र कानाराम हि. 1/3 तोपसिंह पुत्र कानाराम ब. रामराम पुत्र कडाराम कोम खाट हि. 2/3 हनुमान नगर सा देह खातेदार
					निजी	बाराणी 3	35		जैसासम पुत्र छोटाराम हि. 1/2 सिन्धू पुत्र छोटार हि. 1/2 कोम माली सा देह खातेदार
					निजी	बाराणी 3	83		सिन्धू पुत्र छोटार माली सा देह खातेदार
					निजी	बाराणी 3	107		जैसासम पुत्र छोटाराम हि. 4248/4320 देवराहा पुत्र बाबूराह जाति मुसलमान फकीर हि. 72/4320 सा देह खातेदार
					निजी	बाराणी 3	10		जगदीश बैरु रामकरण गिरधारी पि. बरीबर मु. मिश्री बेवा बरीबर अहीर सा देह खातेदार राहिन ओरियटल बैरु आफ कोमर्स शाखा शाहपुरा मुतहीन
					निजी	बाराणी 3	154		पूला पु. धन्ना अहीर राहिन यू.को. बैरु आतेला सा देह खातेदार
					निजी	बाराणी 3	114		जगदीश बैरु रामकरण गिरधारी पि. बरीबर मु. मिश्री बेवा बरीबर अहीर सा देह खातेदार
					निजी	बाराणी 2	137		अजना शर्मा पति सूर्यप्रकाश शर्मा सा. लौट न. 7 महुन कोलोनी टोक फाटक खातेदार
					निजी	बाराणी 3	90		अजना शर्मा पति सूर्यप्रकाश शर्मा सा. लौट न. 7 महुन कोलोनी टोक फाटक खातेदार
					निजी	बाराणी 2	72		सन्तारा देवी पति जगदीश कोम अहीर हि. कुनिका सह छोटाराली
					निजी	बाराणी 3	60		मूलकन्द जगदीश रामकरण राजू पि. सरदार हि. 3/8 बाराणी देवी पति मरालाल हि. 1/8 सुनजी देवी पत्नी धनाराम चारसी देवी पत्नी पुलाराम सक्ती देवी पत्नी शिम्पटयाल मंडू देवी पत्नी धनाराम हि. 1/4 विजय कपूर मंडू सरदेव रामपुर हि. 114/383 सा. देह
					निजी	बाराणी 3	3005		मूलकन्द जगदीश रामकरण राजू पि. सरदार हि. 3/8 बाराणी देवी पति मरालाल हि. 1/8 सुनजी देवी पत्नी धनाराम चारसी देवी पत्नी पुलाराम सक्ती देवी पत्नी शिम्पटयाल मंडू देवी पत्नी धनाराम हि. 1/4 विजय कपूर मंडू सरदेव रामपुर हि. 114/383 सा. देह
					निजी	बाराणी 3	3008		मूलकन्द जगदीश रामकरण राजू पि. सरदार हि. 3/8 बाराणी देवी पति मरालाल हि. 1/8 सुनजी देवी पत्नी धनाराम चारसी देवी पत्नी पुलाराम सक्ती देवी पत्नी शिम्पटयाल मंडू देवी पत्नी धनाराम हि. 1/4 विजय कपूर मंडू सरदेव रामपुर हि. 114/383 सा. देह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3007	निजी	बारानी 3	77	मूलचन्द जगदीश रामकरण राजू पि. सरदार हि. 3/8 बनारसी देवी पत्नि भरलाल हि. 1/8 सुरजी देवी पत्नी धूणाराम ग्यारसी देवी पत्नी फुलाराम सरती देवी पत्नी शिमूदयाल मंजू देवी पत्नी धनश्याम हि. 1/4 विजय कपुर पुत्र बलदेव राजकपुर हि. 114/363 सा. देह
				3008	निजी	बारानी 3	50	मूलचन्द जगदीश रामकरण राजू पि. सरदार हि. 3/8 बनारसी देवी पत्नि भरलाल हि. 1/8 सुरजी देवी पत्नी धूणाराम ग्यारसी देवी पत्नी फुलाराम सरती देवी पत्नी शिमूदयाल मंजू देवी पत्नी धनश्याम हि. 1/4 विजय कपुर पुत्र बलदेव राजकपुर हि. 114/363 सा. देह
				3009	निजी	बंजर डोल	17	जयचिन्द कोर पत्नि जयचिन्दसिंह हि. 1/2 जाति जाट सिक्ख पूरणमल पुत्र भावानासहाय हि. 1/2 कोम मीणा सा. देह खातेदार
				3010	निजी	बारानी 1	123	पूरणमल पुत्र भगवान सहाय हि. 74/173 मीणा सुखपाल कोर पत्नि सुखदेव हि. 25/173 दर हि. 173/198 जयचिन्दकोर पत्नी जयचिन्दसिंह 74/173 जाति जाट सिक्ख पूरणमल पुत्र भगवान सहाय हि. 25/198 सा. देह खातेदार कोम मीणा
				3075	निजी	बारानी 2	340	कालाराम धूडाराम पणूराम नानगराम कैलाश सरबू भगवान सहाय पि. सेडू मु. सुन्दरी बेवा सेडूराम हि. 7/141 कोम माली सुभाष चन्द पुत्र हरिपाल हि. 67/141 कोम माली सुरेश पुत्र रेशनलाल हि. 67/141 दर हि. 141/165 मखनलाल पुत्र रामदेव हि. 24/165
				3076	निजी	बारानी 2	10	मातादीन लालाराम धूडाराम पणूराम नानगराम कैलाश सरबू भगवान सहाय पि. सेडूराम मु. सुन्दरी बेवा सेडूराम माली सा. देह खातेदार
						कुल	1798	
		7. रामनगर		3261	निजी	बारानी 2	155	नाथूराम पुत्र बालूराम हि. 17/60 धूणाराम बालूराम हि. 11/30 समरी जडी सारा पुत्री बालूराम हि. 1/10 मूला पुत्र बिरदूराम हि. 1/3 हनुमान पुत्र बिरदूराम हि. 1/6 कोम अहीर सा. देह
				3468	निजी	बारानी 2	493	नारायण गीदा हनुमान पि. किशनाराम जाति जाट सा. देह राहिन यूको बैंक शाखा ओतेला खातेदार
				3469	निजी	बारानी 2	870	नारायण गीदा हनुमान पि. किशनाराम जाति जाट सा. देह राहिन यूको बैंक शाखा ओतेला खातेदार
				3500	निजी	बारानी 2	2430	महेन्द्र सिंह यादव पुत्र हरदेवसिंह यादव कोम अहीर सा. नागलौई गजकाण्ड रोड नई दिल्ली -41 मालीराम पुत्र सूर्याराम शर्मा सा. सकरामचीपलाटा तह. नीमकाथाना शंकरलाल पुत्र कन्हैयालाल शर्मा सा. ढाणी रागली कोम शर्मा खातेदार
				3501	निजी	बारानी 2	1290	बदी प्रसाद पुत्र बोदूराम हनुमान पुत्र बदी प्रसाद कोम माली सा. देह खातेदार
				3503	निजी	बारानी 3	1822	ए.के. अग्रवाल पत्नि एल.एस. अग्रवाल कोम महाजन नि. 15/1 आसफ अली रोड नई दिल्ली खातेदार
				3504	निजी	बारानी 3	2012	ए.के. अग्रवाल पत्नि एल.एस. अग्रवाल कोम महाजन नि. 15/1 आसफ अली रोड नई दिल्ली खातेदार
				3505	निजी	बारानी 3	1278	ए.के. अग्रवाल पत्नि एल.एस. अग्रवाल कोम महाजन नि. 15/1 आसफ अली रोड नई दिल्ली खातेदार
				3506	निजी	बारानी 3	1442	फूला पुत्र घना कोम अहीर राहिन यूको बैंक शाखा ओतेला सा. देह खातेदार
						कुल	11792	
		8. बहरीदा		344	निजी	शेर मुमकिन चाह	100	सुमन काता पत्नि रतन कुमार जाति अहीर नि. 129 सूरजनगर पूर्व सिविल लाईन्स जयपुर खातेदार वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				345	निजी	वाणिज्यिक	4128	उमराव पुत्र भानाराम अहीर नि. धूरजनगर पूर्व सिविललाइन जयपुर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
				346	निजी	गैर मुमकिन चाह	700	ओमकार पुत्र रामचन्द्र हि. 1/5 मंदरलाल कावू पि. केशा सेहू पुत्र जमन हि. 7/10 छीतर पुत्र बोदू हि. 1/20 मन्वी गोठी आशा सुरजी पुत्री भूपाराम हि. 1/20 कौम अहीर सा. देह खातेदार
				350	सरकारी	नाला	1093	सिवायचक
				352	निजी	बजर 1	997	ओमकार पुत्र रामचन्द्र अहीर सा. देह
				370	निजी	बारानी 3	1270	निखारी लाल सुरजा पि. प्रभात भारती बेवा प्रभात कौम माली सा. देह खातेदार
				372	निजी	बारानी 3	631	ईश्वर पुत्र लारू कौम माली सा. देह खातेदार
				373	निजी	बारानी 3	1105	ईश्वर पुत्र लारू कौम माली सा. देह खातेदार
				376	सरकारी	चारगाह	71	चारगाह
				378	निजी	बारानी 3	1184	महेश कुमार अणिल कुमार पुत्र कुहराम हि. 2/3 पिस्ता देवी पति खनलाल हि. 1/3 कौम महाजन सा. देह
				380	निजी	बारानी 2 चाही 1	299	सेहू पुत्र जमना अहीर सा. देह
				381	निजी	जाव 1	216	मंदरा कावू पि. केशा हि. ब. कौम अहीर सा. देह
				382	निजी	बारानी 2	640	रामेश्वर पुत्र मंगला हि. 1/4 निखारी बनवारी पि. मंगला पु. गंगा पति मंगला हि. 3/4 कौम अहीर सा. देह
				385	निजी	बारानी 2	288	सुरजा पि. मोती निखारी पुत्र सुरजा हि. 1/2 कौम अहीर सा. देह
				386	निजी	बारानी 2	233	देवाराम मोतीराम रामकिशन छाजूलाल पि. प्रभू ग्यारसी पत्नी स्व. प्रभु कौम माली सा. देह खातेदार
				387	निजी	बारानी 3 जाव 2	720	देवाराम मोतीराम रामकिशन छाजूलाल पि. प्रभू ग्यारसी पति स्व. प्रभू कौम माली सा. देह
				389	सरकारी	आबादी	603	सिवायचक
				390	निजी	बारानी 3	642	मंदरा कावू पि. केशा हि. 1/2 कौम अहीर देवाराम मोतीराम रामकिशन छाजूलाल पि. प्रभू ग्यारसी पति स्व. प्रभू हि. 1/2 कौम माली सा. देह खातेदार
				388/580	निजी	बारानी 2	303	देवाराम मोतीराम रामकिशन छाजूलाल पि. प्रभू ग्यारसी पति स्व. प्रभू कौम माली सा. देह
						कुल	15223	
			9 ठाणी गैसकान	20	निजी	बजर	234	बाबूलाल पुत्र बुध्दा राम कौम कश्यप हि. 1/3 . 45/1 कीर्तिनगर दिल्ली प्रतापसिंह पुत्र यादराम हि. 2/3 कौम जाट सा. देह
				21	निजी	चाही जाव बजर	157	मंदिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				23	निजी	बारानी	63	मंदिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				24	निजी	चाही	62	मंदिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				35	निजी	चाही	10	मंदिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				36	निजी	चाही जाव	31	मंदिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				37	सरकारी	नाला	10	सिवायचक बिला लगानी
				38	सरकारी	नाला	10	सिवायचक बिला लगानी
				39	निजी	चाही ए	93	बाबूलाल पु. मोखाराम ममता देवी जति निखारीलाल जति मीणा हि. ब. सा. छानडा देवता तह. कोटपूतली खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				43	निजी	चाही ए	105	रुडी पुत्र बन्नी हि. 1/4 नन्दी बेवा भगवाना बंदी पुत्र भगवाना मेवा पुत्री भगवाना का हि. 1/4 मांसाज राजकुमार हि. प्रमू कानी बेवा प्रमू हि. 1/- कौम माली शम्भू मुकेश पि. भागीरथ हनुमान पुत्र रामचन्द्र कैलाश महेश पि. जानकीलाल मदनलाल पुत्र मूलचन्द हि. 1/4 कौम शर्मा सा. देह
				44	निजी	चाही ए	51	गणपत पुत्र नानगा कौम माली सा देह खेतदार
				47	निजी	चाही ए	46	फूला पुत्र नानगा कौम माली
				48	निजी	चाही ए	43	सुरजा पुत्र नानगा कौम माली सा. देह
				49	निजी	चाही ए	53	माणु पुत्र नानगा कौम माली
				65	सरकारी	आबादी	10	सिवायचक बिला लगानी
				66	निजी	चाही ए	71	मोहरली देवी बेवा गोपीराम हि. 1/3 मेवा देवी पत्नी मेरुराम शर्मा हि. 2/3 कौम शर्मा
				67	निजी	चाही ए	92	नन्दी बेवा भगवाना मेवा पुत्री भगवाना हि. 1/6 बंदी पुत्र भगवाना हि. 282/340 कौम माली जगदीश पुत्र श्रीराम कौम अहीर हि. 58/340 दर हि. 1/12 रुडा पुत्र चन्दा हि. 1/4 मांसाज रामकवार पि. प्रमू कानी बेवा प्रमू हि. 1/4 कौम माली शम्भू मुकेश पि. भागीरथ हनुमान पुत्र रामचन्द्र कैलाश महेश पि. जानकीलाल मदनलाल पुत्र मूलचन्द हि. 1/4 कौम शर्मा
				72	सरकारी	रो.मु. रास्ता	11	सिवायचक
				76	निजी	नैर मुमकिन चाह	199	कैलाश महेश चन्द पि. जानकी लाल मनोज पि. मु. राधेश्याम बाबुराम पि. भूरायाम शम्भू मुकेश पि. भागीरथ घीसाताल पि. हनुमान मदन पुत्र मूलचन्द हि. 4 आना बिहारी लाल राजेन्द्र कुमार अनिल कुमार पि. प्रमूदयाल मैदी बेवा प्रमूदयाल हि. 2 आना रामेश्वर पुत्र रमेशदाय हि. 2 आना मोहरी बेवा गोपीराम बन्दी देवी बेवा गुलाबचन्द कमलेश कुमार पुत्र गुलाबचन्द बिलाला बेवा प्रहलाद सुरेश चन्द पुत्र प्रहलाद चमेली बेवा जगदीश मैरु प्रसाद सत्यनारायण रामकान्त पि. जगदीश प्रसाद हि. ब.हि. 2 आना कौम शर्मा
				77	निजी	चाही अलीफ	862	रामकवार पुत्र महारिद हि. 1/2 छोटे पुत्र सेवला हि. 1/2 कौम बलाई
				83	निजी	चाही अलीफ	889	प्रहलाद सहाय पुत्र रामेश्वर कौम बाहमण
				84	निजी	चाही अलीफ	948	कैलाश महेश चन्द पि. जानकी लाल कौम बाहमण
				94	निजी	चाही अलीफ	1126	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र डालूराम कौम जाट हि. 29/40 राजेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र शिवमन्दन शर्मा हि. 11/40 कौम शर्मा
				95	निजी	चाही अलीफ	1055	लोकेश कुमार पुत्र मुकेश कुमार शर्मा कौम बाहमण
				96	निजी	चाही अलीफ	808	हनुमान कजोड पि. प्रमू मु. बादामी बेवा भूरा कौम जाट 217/273.104 बिदामी बेवा भूरा के बजाय हनुमान कजोड पि. भूरा का अकेल स्वीकार हुआ
				97	निजी	नैर मुमकिन चाह	120	श्यामा पुत्र बाबुराम कौम बाहमण
				98	निजी	चाही अलीफ	420	मानराज बिहारी लाल सेदूराम पि. मांरायाम कौम जाट सा. देह
				101	निजी	चाही ए	766	मंदिर श्री रघुनाथ जी
				103	निजी	चाही ए	781	पुत्ती पत्नी स्व. नरसा हि. 1/4 शिखरदयाल पूरणमल पि. नरसा हि. 3/4 कौम जाट सा. देह
				104	निजी	नैर मुमकिन चाह	200	विजयलाल पुत्र चुनिलाल हि. 1/2 भगवानदत्त बिहारी बसन्त कुमार पि. रुडमन हि. 3/2 कौम बाहमण
				106	निजी	चाही ए	452	सोणी लाल पुत्र रामलाल हि. 8/27 कालू पुत्र रुडा हि. 19/27 दर हि. 3/4 कौम जाट मंगलराम पुत्र सेदुराम अहीर पि. प्रमू खेतना
				107	निजी	चाही ए	200	कालू पुत्र रुडा कौम जाट

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				108	मिजी	बाही ए	400	गुलाम मोहम्मद पि. गुरा कोम धानका पुली पत्नी स्व. नरसा हि. 1/4 सिमरवाला भूगर्भस्थ हि. कला हि. 3/8 कोम जाट सा. देह
				109	मिजी	बाही अलीफ	93	महिर श्री रघुनाथ जी खातेदार महिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				110	मिजी	बाही अलीफ	763	महिर श्री रघुनाथ जी खातेदार महिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				111	मिजी	बाहानी सोयम	348	महिर श्री रघुनाथ जी खातेदार महिर श्री रघुनाथ जी खातेदार
				120	मिजी	बाहानी सोयम	26	सर्वजनिक निर्माण विभाग
				121	सरकारी	गैर मुमकिन सबक	1061	सिवायचक लंगोली
				522	सरकारी	सोता	90	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली सरोवर प्रसाद शर्मा पुत्र विमलदेव शर्मा
				523	मिजी	बाहानी ए	725	अरुण देव बिल्वरस हि. जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				524	मिजी	बाहानी अलीफ	457	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली अफिस 612 नई दिल्ली
				525	मिजी	बाहानी अलीफ	324	दयाकोर पतिन धर्मपाल कोम जाट शिलापुरी तह. चिडावा जिला बुन्गनू
				537	सरकारी	गैर मुमकिन नहर	116	सिवाय विभाग
				621	मिजी	बाहानी ए	10	दयाकोर पतिन धर्मपाल कोम जाट शिलापुरी तह. चिडावा जिला बुन्गनू
				622	मिजी	बाहानी ए	170	दयाकोर पतिन धर्मपाल कोम जाट शिलापुरी तह. चिडावा जिला बुन्गनू
				623	मिजी	बाहानी ए	220	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				625	मिजी	बाहानी ए	227	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				626	मिजी	बाहानी ए	202	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				627	मिजी	बाहानी ए	230	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				633	मिजी	बाही जाव	555	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				634	मिजी	बाही जाव	581	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				646	मिजी	बाही जाव बंजर	538	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				647	मिजी	बाही 1 अकल	1214	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				649	सरकारी	गैर मुमकिन नहर	73	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				657	मिजी	बाहानी 1	346	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				625/4432	मिजी	बाहानी उत्तम	211	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट
				66/4543	सरकारी	आबादी	3	अरुण देव बिल्वरस हि. 612 नई दिल्ली जयदेव केनिका आहरेटर मनोज भादवाज पुत्र रामराज शर्मा सजिस्ट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				103/4436	निजी	वाही ए लाव ए	618	विजयलाल पुत्र बुनीलाल हि. 1/2 भगवानदत्त बिहारी बसन्त कुमार पि. रुडमल हि. 1/2 कोम बामहण
			10. नीलका	335	निजी	कुल चाही जाव	19679	जयनारायण पुत्र पतराम जाति अहीर
				256	निजी	बारानी 2	17	श्रीराम पुत्र किकर हि. 1/10 उमराव प्रमूदयाल पि. रिछपाल 1/20 जयनारायण गणेश पि. पतराम हि. 1/10 रामकरण मामवन्द मदनलाल पि. रामानन्द छिमली पत्ति रामानन्द हि. 3/40 ईश्वरलाल पि. शिवनारायण उर्फ श्योनारायण हि. 3/40 सुरजा कवरसिंह मातादीन कालूराम खुशीराम पि. बुनीलाल सारली बेवा बुनी लाल हि. 1/10 कोम अहीर पूरणमल पुत्र भगवान सहाय जाति भीणा हि. 1/2 सा. देह ओतेला
				257	निजी	बारानी 2	103	सुभाष चन्द पुत्र मामराज सेनो पि. बुवाहेडा मोहल्ला कस्बा कोटपूतली
				258	सरकारी	बारानी 2	13	सिवायचक
				260	निजी	बारानी 2	41	सुरजा कवर सिंह मातादीन कालूराम खुशीराम पि. बुनीलाल सारली बेवा बुनीलाल कोम अहीर सा. देह
				276	सरकारी	गै.मु.नहर	10	सिवायचक
				282	निजी	बारानी 3 बंजर 1	58	श्रीराम पुत्र किकर कोम अहीर राहिन यूको बैंक शाखा ओतेला सा. देह
				283	निजी	बारानी	57	जयनारायण पुत्र पतराम जाति अहीर राहिन जयपुर नगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा भामरू सा. देह
				287	निजी	बंजर 1	58	रामकरण मामवन्द मदनलाल पि. रामानन्द छिमली बेवा रामानन्द ईश्वर पि. शिवनारायण उर्फ श्योनारायण कोम अहीर गोवर्धन चौधरी पुत्र स्व. उदयराम हि. 1/3 जाति जाट
				288	निजी	बारानी	94	सारली बेवा बुनीलाल कोम अहीर सा. देह खातेदार सुरजा कवरसिंह मातादीन कालूराम खुशीराम पि. बुनीलाल सा. देह
				320	निजी	बारानी 2	10	बुढा पि. खुबारा कोम अहीर सा. देह खातेदार
				321	निजी	बारानी 2	103	सावला पि. खुबारा कोम अहीर सा. देह खातेदार
				322	निजी	बारानी 2	105	श्रीराम पुत्र फकीर अहीर राहिन यूको बैंक शाखा ओतेला सा. देह
				323	निजी	गैर मुमकिन आबादी	10	श्रीराम पुत्र फकीर हि. 1/5 उमराव प्रमूदयाल पि. रिछपाल हि. 1/10 जयनारायण गणेश पि. पतराम हि. 3/10 रामकरण मामवन्द मदनलाल पि. रामानन्द छिमली पत्ति रामानन्द ईश्वर पि. शिवनारायण उर्फ श्योनारायण हि. 3/10 सुरजा कवर सिंह मातादीन कालूराम खुशीराम पि. बुनीलाल मु. सारली बेवा बुनी हि. 1/5 कोम अहीर सा. देह
				335	निजी	बारानी 2	136	जयनारायण पुत्र पतराम अहीर सा. देह
				336	निजी	बारानी 2	57	ईश्वर पि. शिवनारायण उर्फ श्योनारायण कोम अहीर सा. देह
				337	निजी	बारानी 2	82	रामकरण मामवन्द मदनलाल पि. रामानन्द छिमली पत्ति रामानन्द कोम अहीर जयपुर ना.आ.बैंक शाखा भाबरू सा. देह
				275/579	निजी	बंजर 1	34	सुरेज देवी पत्नी सत्येन्द्र सिंह हि. 1/2 कोम जाट ज्ञानो देवी पत्नी अर्जुनसिंह हि. 1/2 कोम जाट सा. देह
				275/580	निजी	बंजर 1	28	सुरेज देवी पत्नी सत्येन्द्र सिंह हि. 1/2 कोम जाट ज्ञानो देवी पत्नी अर्जुनसिंह हि. 1/2 कोम जाट सा. देह
				275/581	निजी	बंजर 1	68	ईश्वर लाल पुत्र शिवनारायण उर्फ श्योनारायण कोम अहीर सा. देह खातेदार
				275/582	निजी	बंजर 1	30	उमराव प्रमूदयाल पि. रिछपाल कोम अहीर राहिन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा भामरू सा. देह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				275/563	निजी	बंजर 1	29	सोम प्रकाश पुत्र महावीर प्रसाद अग्रवाल महाजन सा. फिरोज खाना नाल्नील जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा सा. देह
				284	निजी	बंजर 1	44	सबला पि. सुधारम कोम अहीर सा. देह खातेदार
						कुल	1947	
			11. मगध	658	निजी	चाही 1 जाब 1	1355	काना पुत्र घासी कोम जाट
				660	निजी	चाही 1 जाब 1	438	काना पुत्र घासी कोम जाट
				663	निजी	चाही 1 जाब 1	646	कानासिंह पुत्र हरचन्द सिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार राहिन जयपुर नागीर आ. देह शाखा नागिक मुंहीन
				664	निजी	जाब 2	632	देवीसिंह पुत्र ओंकार सिंह मु. अनाप कंवर बेवा ओंकार सिंह राजपूत राहिन जयपुर नागीर आ. देह खातेदार
				665	निजी	जाब 2 चाही 2	550	देवीसिंह पुत्र ओंकार सिंह मु. अनाप कंवर बेवा ओंकार सिंह राजपूत
				667	सरकारी	गेर मुंकिन नाला	285	सिवायचक
				668	निजी	चाही 1 जाब 1	582	संजय पुत्री धानसिंह जाटव नि. 81/80 नीलकिरी मर्ग मनसरोवर जयपुर
				669	निजी	चाही 1 जाब 1	818	संजय पुत्री धानसिंह जाटव नि. 81/80 नीलकिरी मर्ग मनसरोवर जयपुर
				670	सरकारी	गेर मुंकिन नाला	75	सिवायचक
				681	निजी	चाही 1 जाब 1	280	विजय चन्दाकर पुत्र माखन लाल मीना नि. प्लाट नं. 185 सैक्टर चित्रकूट जयपुर
				682	निजी	चाही 1 जाब 1	374	राजबाला पत्नी स्व. रामू मीन पुत्र रामू कोम अहीर सा. सौगापुर खातेदार
				683	निजी	चाही 1 जाब 1	25	बाबूलाल पुत्र ओंकार जाट सा. देह
				684	निजी	बासानी 1 जाब 1	119	अर्जुन पुत्र सेवा नि. 1/4 ओंकार पुत्र सेवा नि. 3/4 कोम जाट सा. देह राहिन जयपुर नागीर आ. देह खातेदार
								मदनसिंह गोपालसिंह नरपत्तसिंह जयपुरसिंह नि. रामचन्द्रसिंह सुमेर कंवर बेवा रामचन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह नन्दसिंह लालसिंह मुकेशसिंह पि. फिरोज कंवर बेवा फिरोजसिंह ईश्वर सिंह पुत्र कल्याणसिंह स्वाम कंवर पत्नी स्व. कल्याणसिंह मोहनसिंह सुधीरसिंह पि. यमसिंह सुमन कंवर बेवा बखानसिंह रेतान कंवर पत्नी स्व. जयपाल सिंह निरज सिंह पुत्र जयपाल सिंह कृष्णा कंवर मनीषा कंवर पुत्री जयपाल सिंह धर्मेश सिंह ना. बा. पुत्र जयपाल सिंह निम्बसेना कंवर रेखा कंवर ना. बा. पुत्री जयपालसिंह संजयक मत्ता रेतान कंवर पत्नी जयपाल सिंह कोम राजपूत सा. देह खातेदार हरिसिंह शिवोदी सिंह बल्लुसिंह पि. छितरसिंह ओमकंवर बेवा छितर सिंह नि. 1/2 राजपूत बंदी हनुमन भगवाना सरदार पुत्र स्वामलाल हजारी पत्ता जमना बेवा पत्ता नि. 1/2 कोम जाट सा. देह खातेदार
				921	निजी	चाही 1 जाब 1	1016	
				922	निजी	चाही 1 जाब 1	1092	भगवाना पुत्र पत्ता नि. 3/4 गुजरमल दलक धुमल बनारसी देवी गीता देवी सन्तोष देवी शिंदोदी देवी अण्नी देवी मूली देवी पुत्री धूमल नि. 1/4 कोम महाजन
				923	निजी	बंजर डोल	177	नर्बदा देवी पत्ति रामचन्द्र नि. 1/12 मीना ओमकार अर्जुन फूला जगदीश नि. महादेव नि. 1/6 मंगला पुत्र गंगलया नि. 1/4 पत्ता प्रभु तेजा नि. 1/2 मंगला पुत्र गंगलया नि. 1/2 लाली देवी पत्ति अर्जुन नि. 1/12 कोम जाट सा. देह
				924	निजी	चाही 1 जाब 1	321	छितर जगदीश नि. महादेव नि. 1/3 अर्जुन पुत्र महादेव नि. 1/12 मंगला पुत्र गंगलया नि. 1/2 लाली देवी पत्ति अर्जुन नि. 1/12 कोम जाट सा. देह खातेदार
				925	निजी	चाही 1	312	नर्बदा देवी पत्ति रामचन्द्र मीना नि. 1/3 जगदीश छितर पुत्र महादेव नि. 2/3 जाट
				926	सरकारी	गेर मुंकिन रास्ता	168	सिवायचक
				1081	निजी	चाही 1 बंजर डोल	1211	नारायण पुत्र झूना कोम जाट
				1082	निजी	चाही 1	340	नारायण पुत्र झूना कोम जाट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1083	निजी	बजर डोल	146	नारायण पुत्र शूभा बाल्या पुत्र रुडा कौम जाट
				1084	निजी	चाही ए	500	मुरारी लाल पुत्र छाजू कौम सुनार
				1085	निजी	चाही ए	389	मुरारी लाल पुत्र छाजू कौम सुनार
				1092	निजी	चाही ए	172	नारायण पुत्र शूभा कौम जाट
				1093	निजी	बजर 2	400	ओमकार पुत्र महादेव कौम खाती सा. देह खातेदार
				1094	निजी	बजर 2	266	ओमकार पुत्र महादेव कौम खाती सा. देह खातेदार
				1095	निजी	चाही 1 जाव ए बजर 1	495	मीरा जोजे बरहिर कौम खाती सा. देह खातेदार
				1096	निजी	चाही ए जाव ए	234	हजारी लाल बाबूलाल पि. रामेश्वर प्रसाद डण्डराम पुत्र मंगीलाल श्यामसुन्दर पुत्र छोटेलाल सा. देह खातेदार
				1097	निजी	चाही ए	182	रामगोपाल भूपेन्द्र पि. सुनार कौम बाहमण सा. देह खातेदार
				1106	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	55	सिवायचक
				1138	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	30	सिवायचक
				1140	निजी	चाही 1 जाव 1	10	कृष्ण कुमार पुत्र दीनदयाल जाति पंजाबी रामनगर तह. भीवानी
				1141	निजी	गैर मुमकिन वाह	10	विजयपाल पुत्र देवीसहाय महाजन हि. 1/4 प्रतापसिंह पुत्र सुलतान सिंह हि. 1/4 सुरज कंवर बेवा भवर सिंह प्रहलाद सिंह दयासिंह पि. भवसिंह कानसिंह पुत्र हरनाथसिंह रघुवीर सिंह कल्याणसिंह कबूलसिंह अमरसिंह पि. माधोसिंह कौम राजपूत हि. 1/2
				1142	निजी	जाव 2	154	राजेश चौहान पुत्र रामसिंह चौहान राजपूत सा. कोलीला (सांगी) बहरोड
				1143	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	10	सिवायचक
				1144	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	11	सिवायचक
				1145	निजी	चाही 1 जाव 1	57	प्रदीप कुमार पुत्र अमरसिंह कौम रैगर सा. बीडनपुरा गली नं. 31 म.नं. 3192 करोल बाग नई दिल्ली
				1146	निजी	जाव 1	11	प्रदीप कुमार पुत्र अमरसिंह कौम रैगर सा. बीडनपुरा गली नं. 31 म.नं. 3192 करोल बाग नई दिल्ली
				1147	निजी	जाव 1	38	प्रदीप कुमार पुत्र अमरसिंह कौम रैगर सा. बीडनपुरा गली नं. 31 म.नं. 3192 करोल बाग नई दिल्ली
				1148	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	10	सिवायचक
				1149	निजी	चाही ए जाव ए	18	कैलाश पुत्र छीतर मीया सा. देह खातेदार
				1150	निजी	जाव ए	66	भागीरथ फूलचन्द सुरजमल पि. गिरधारी हि. 3/4 रामेश्वर जगदीश सेडमल चौथमल पि. प्रभात हि. 1/4 दर हि. 1/2 सूण्डा पुत्र बल्ला हि. 1/2 जाट
				1151	निजी	बजर डोल	10	भागीरथ फूलचन्द सुरजमल पि. गिरधारी हि. 3/4 रामेश्वर जगदीश सेडमल चौथमल पि. प्रभात हि. 1/4 दर हि. 1/2 सूण्डा पुत्र बल्ला हि. 1/2 जाट
				1153	निजी	चाही ए जाव ए	39	मेरु पुत्र प्रभात कौम जाट राहिन जयपुर नागौर यमीण बैंक शाखा शाहपुरा मूतहीन
				1154	निजी	चाही 1 जाव 1	35	जम्नूरी देवी पतिन कैलाश चन्द मीणा
				1155	निजी	बाराही	82	यासीन पुत्र अब्दुल रहमान कौम मुसलमान सा. देह
				1156	सरकारी	गैर मुमकिन वाह	43	सिवायचक
				1157	निजी	चाही 1 जाव 1	11	यासीन पुत्र अब्दुल रहमान लुहार मंगला पुत्र जीमन कौम जाट महादेव पुत्र खोगा मंगला पुत्र गंगल्ला ओमकार पुत्र सेवा प्रभात पुत्र सेवा जाट गुजरमल पुत्र रामदयाल मुरारीलाल पुत्र बोदीलाल बदी प्रसाद धूमल पि. खालीराम कौम महाजन सा. देह गैर खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1158	निजी	चाही ए जाव ए	231	गुजर मल पुत्र रामदयाल मुरारी लाल पुत्र बोदी लाल हरिदारी लाल बाबुलाल स्वो रूपकिशन मोहन लाल पि. बही प्रसाद गुजर. ल. पु. धूमल बनारसी देवी गीता देवी सत्तो देवी गिंदी देवी आंचकी देवी पुनी देवी पुनी धूमल महाजन
				1159	निजी	बंजर डोल	20	रामलीदेवी पति रुकमल सा. सीतापुर सोनी देवी पति मूलाराम पि. बहनगर हि. 1/3 ओमकार अंबू पूला जगदीश पि. महादेव हि. 1/6 परता पुत्र तेजा जाट हयजन पूला पि. महादेव हि. 1/6 जगदीश पुत्र महादेव हि. 1/6 रामली देवी पति रुकमल सा. सीतापुर सोनी देवी पति पूलाराम पि. बहनगर अहीर हि. 1/3
				1160	निजी	चाही ए जाव ए	43	अर्जुन पूला पि. महादेव हि. 12/6 जगदीश पुत्र महादेव हि. 1/6 रामली देवी पति रुकमल सा. सीतापुर सोनी देवी पति पूलाराम पि. बहनगर कोम अहीर हि. 2/3 खातेदार
				1161	निजी	चाही ए	30	रामली देवी पति रुकमल पि. सीतापुर सोनी देवी पति मूलाराम सा. बहनगर अहीर
				1162	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	12	सियाचक
				1222	निजी	चाही ए बंजर डोल	122	विमला मित्तल पति सुरेशचन्द मित्तल मयजन सा. शाहपुल
				1224	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	13	सियाचक
				1225	सरकारी	गैर मुमकिन छापी	36	सियाचक
				1226	निजी	चाही ए	87	कुलदीप आत्रे पुत्र सुरेशचन्द आत्रे हि. 126/775 पुषा देवी पति जयशंकर हि. 126/3100 मुरारीलाल पुत्र ओमकार हि. 55/659 दर हि. 137/775 चन्द पुत्र हरदेव हि. 446/658 सोनी देवी पति रत्न ओमकार हि. 97/658 चन्दकंसा देवा रामेश्वर हि. 80/658 प्रमती देवी पति सुरला उर्फ सुरेशचन्द हि. 154/341 दर हि. 161/165 रुकमल बनारसीलाल पि. प्रभुदयाल हि. 4/165 दर हि. 75/155 अहीर सोफली देवी पति हजारीलाल हि. 411/3100 कोम शर्मा
				1230	निजी	चाही ए जाव ए बंजर	54	बाबू को पुत्र अहीर को यादुव को पुत्र रसूल को कोम लुहार
				1231	निजी	चाही ए जाव ए बंजर डोल	74	प्रहलद सिंह पुत्र मंगरसिंह हि. 2478/3400 राजपुत्र हेमराज पुत्र विकारीलाल 28/3400 प्रहलद रसोय पुत्र बही प्रसाद हि. 166/3400 सा. केरादसिंह पुत्र भीमसिंह हि. 208/3400 राजपुत्र बाबुलाल पुत्र गुलशारीलाल हि. 250/3400 राजबाला पति मूलचन्द हि. 23/3400 कोला चन्द पुत्र बोदी लाल हि. 23/3400 रामेश्वर पुत्र ओमकार हि. 225/3400 खाती बृजमोहन ओमकार खाती 58/4080 ज्ञानचन्द पुत्र भैरवसम यादव हि. 50/4080 सेठमल पुत्र जेदूलाल हि. 27/4080 लीसायम मनवान सहाय पि. गोपीराम हि. 3020/34000 जाति खटीक
				1233	निजी	बंजर डोल	36	विमली पुत्री नन्दू पति अर्जुन पि. डेरा जगदीश रामेश्वर जयसिंह विहवा पि. नान्दू हि. 1/2 चौसा पुत्र रवीनन्द हि. 1/2 कोम गुजर
				1234	निजी	जाव 1	50	जगदीश रामेश्वर जयसिंह विहवायम पि. नान्दू विहवा पुत्री नान्दू पति अर्जुन पि. डेरा जाति गुजर
				1235	निजी	चाही ए जाव ए	42	जगदीश रामेश्वर जयसिंह विहवायम पि. नान्दू विहवा पुत्री नान्दू पति अर्जुन पि. डेरा जाति गुजर
				1236	निजी	चाही ए	71	जगदीश रामेश्वर जयसिंह विहवायम पि. नान्दू विहवा पुत्री नान्दू पति अर्जुन पि. डेरा जाति गुजर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1245	निजी	चाही ए	149	जगन्नाथसिंह अमरसिंह पि. गोरा सिंह हि. 2/3 हि. बराबर प्रेम कंवर पति कबूलसिंह किरनसिंह विक्रमसिंह पि. केशव सिंह ममदा कंवर पुत्रीया कबूलसिंह हि. 1/15 प्रहलादसिंह पि. साँवतसिंह हि. 1/15 बनाराम पुत्र छीतर हि. 7/540 मीणा मानसिंह लीलसिंह शेरसिंह पि. हरिसिंह सोनी पुत्री हरिसिंह लक्ष्मी देवी बेवा हरिसिंह हि. 1/15 गोकुलसिंह पुत्र साँवतसिंह हि. 1/26 राजपूत रामप्रकाश पुत्र बशीधर पारिक का हि. 1/75 प्रेम देवी बनाराम 1/75 कौम मीणा
				1246	निजी	गैर मुमकिन चाह	23	बजरंग सिंह मोहनसिंह हनुमानसिंह पि. छीतरसिंह लाडकंवर सोहन कंवर पुत्रीया छीतरसिंह हि. 1/2 जगन्नाथसिंह अमरसिंह पि. जोरा सिंह हि. 1/3 हरिसिंह कबूलसिंह प्रहलाद सिंह गोकुलसिंह पणूसिंह पि. साँवतसिंह हि. 1/6 राजपूत
				1247	निजी	गैर मुमकिन चाह	15	बजरंग सिंह मोहनसिंह हनुमानसिंह पि. छीतरसिंह लाडकंवर सोहन कंवर पुत्रीया छीतरसिंह हि. 1/2 जगन्नाथसिंह अमरसिंह पि. जोरा सिंह हि. 1/3 हरिसिंह कबूलसिंह प्रहलाद सिंह गोकुलसिंह पणूसिंह पि. साँवतसिंह हि. 1/6 राजपूत
				1248	निजी	चाही ए	123	लाडकंवर सोनी कंवर पुत्रीया छीतरसिंह बजरंगसिंह मोहनसिंह हनुमानसिंह पि. छीतर सिंह राजपूत
				1251	सरकारी	गैर मुमकिन आबादी	100	सियायचक
				1258	निजी	चाही ए जाव ए	446	सुन्दरी बेवा मूला हनुमान जगदीश रामेश्वर सुगला रोहिताश मूला हि. 11/13 जाट रणधीर पुत्र मेहरचन्द जाट मानसिंह पुत्र मीनसिंह मीना हि. 2/13
				1260	सरकारी	गैर मुमकिन आबादी	258	सियायचक
				1261	सरकारी	बजर 2	21	सियायचक
				1262	निजी	बाराणी 3	23	तारा देवी पत्नी ताराचन्द हि. 9/214/130000 बिदामी देवी पत्नी स्व. भतरमल हि. 32789/130000 जति रंगर
				1254	निजी	बजर डोल	12	सुन्दरी बेवा मूला हनुमान जगदीश रामेश्वर सुगला पि. मूला हि. 5/6 रोहिताश मूला हि. 1/6 जाट
				1263	निजी	बाराणी 3	16	तारा देवी पत्नी ताराचन्द हि. 9/214/130000 बिदामी देवी पत्नी स्व. भतरमल हि. 32789/130000 जति रंगर
				1264	निजी	बाराणी 3	16	नाथू पुत्र घोसा नाथ जोरी
				1265	निजी	बाराणी 3	30	जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल रंगर
				1266	निजी	बाराणी 3	63	जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल रंगर
				1267	सरकारी	बाराणी 2	85	सियायचक
				1268	सरकारी	बाराणी 2	430	सियायचक
				1269	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	158	साँवजनिक निर्माण विभाग
				1274	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	75	साँवजनिक निर्माण विभाग
				1275	निजी	चाही 1	114	सुलतान छिपल फूलाराम सिरदार पि. देवू जडाव बेवा देवू मीणा
				1276	सरकारी	बजर 2	55	सियायचक

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1277	निजी	चाही 1 बजर डोल	48	<p>हनुमान पुत्र चन्द हि. 1/2 रामजीलाल रामकुमार हरि गिस्वारी पि. हरदेव सुरजी पुत्री बालिया बनारसी पति स्व. भवरा मालीराम सुरखानी उमराव पप्पू प्रकाश पि. भवरा कमली मनी गीता सुमित्रा पुत्रिया भवरा घीसा पुत्र नानगा सुलतान रिछपाल फूलाराम सरदारमल पि. देवू जडाव देवी बेवा देवू मीणा सुगला पुत्र गोपाल गुलाबी पति स्व. घीसा बंशी लीलाराम सुरेशचन्द पप्पू बोदू पि. घीसा कमली देवी मीरा देवी पुत्र घीसा गोरा देवी दडकी देवी पुत्री मूर गैदी देवी पति हाबूला घुडा मन्तू सेदू सुरेया पि. हाबूला सन्ती देवी कोयली देवी सेशी देवी पुत्री हाबूला फूली पति नाथू साणी देवी पुत्री नाथूराम रामकरण सोवता पि. नाचू पोची पति सुगना प्रेम चन्द पुत्र सुगना बनारसी देवी पति रिछपाल दिनेश मालीराम नरेंद्र पि. रिछपाल भगवाना पुत्र रुडा मोहरसिंह रामनिवास मेहरचन्द पि. पौचू अनाफ सन्ती रोशनी पुत्री पौचू श्रवण बेवा पौचू रामसिंह हरिसिंह मेहरचन्द पि. श्योदान मिश्री बेवा श्योदान गुलाबचन्द जगदीश बाबूलाल पि. छोटू सुरेंद्र विक्रम पूरण पि. प्रभु मीणा</p>
				2002	निजी	चाही 2 जाव 2	85	<p>हनुमान पुत्र चन्द हि. 1/2 रामजीलाल रामकुमार हरि गिस्वारी पि. हरदेव सुरजी पुत्री बालिया बनारसी पति स्व. भवरा मालीराम सुरखानी उमराव पप्पू प्रकाश पि. भवरा कमली मनी गीता सुमित्रा पुत्रिया भवरा घीसा पुत्र नानगा सुलतान रिछपाल फूलाराम सरदारमल पि. देवू जडाव देवी बेवा देवू मीणा सुगला पुत्र गोपाल गुलाबी पति स्व. घीसा बंशी लीलाराम सुरेशचन्द पप्पू बोदू पि. घीसा कमली देवी मीरा देवी पुत्र घीसा गोरा देवी दडकी देवी पुत्री मूर गैदी देवी पति हाबूला घुडा मन्तू सेदू सुरेया पि. हाबूला सन्ती देवी कोयली देवी सेशी देवी पुत्री हाबूला फूली पति नाथू साणी देवी पुत्री नाथूराम रामकरण सोवता पि. नाचू पोची पति सुगना प्रेम चन्द पुत्र सुगना बनारसी देवी पति रिछपाल दिनेश मालीराम नरेंद्र पि. रिछपाल भगवाना पुत्र रुडा मोहरसिंह रामनिवास मेहरचन्द पि. पौचू अनाफ सन्ती रोशनी पुत्री पौचू श्रवण बेवा पौचू रामसिंह हरिसिंह मेहरचन्द पि. श्योदान मिश्री बेवा श्योदान गुलाबचन्द जगदीश बाबूलाल पि. छोटू सुरेंद्र विक्रम पूरण पि. प्रभु मीणा</p>
				2007	निजी	चाही 2 जाव 2	57	<p>तोफली देवी पत्नी रामजीलाल अन्तर देवी पत्नी रामकुमार कोशल्या देवी पत्नी हरिराम लाली देवी पत्नी गिस्वारीलाल हि. 1/2 रामजीलाल रामकुमार हरि गिस्वारी पि. हरदेव सुरजी पुत्री बालिया बनारसी पति स्व. भवरा मालीराम सुरखानी उमराव पप्पू प्रकाश पि. भवरा कमली मनी गीता सुमित्रा पुत्रिया भवरा रामजीलाल रामकुमार इरी गिस्वारी पि. हरदेव हि. 1/8 सुलतान रिछपाल फूलाराम सरदारमल पि. देवू जडाव देवी बेवा देवू मीणा सुगला पुत्र गोपाल गुलाबी पति स्व. घीसा बंशी लीलाराम सुरेशचन्द पप्पू बोदू पि. घीसा कमली देवी मीरा देवी पुत्र घीसा गोरा देवी दडकी देवी पुत्री मूर गैदी देवी पति हाबूला घुडा मन्तू सेदू सुरेया पि. हाबूला सन्ती देवी कोयली देवी सेशी देवी पुत्री हाबूला फूली पति नाथू साणी देवी पुत्री नाथूराम रामकरण सोवता पि. नाचू पोची पति सुगना प्रेम चन्द पुत्र सुगना बनारसी देवी पति रिछपाल दिनेश मालीराम नरेंद्र पि. रिछपाल भगवाना पुत्र रुडा मोहरसिंह रामनिवास मेहरचन्द पि. पौचू अनाफ सन्ती रोशनी पुत्री पौचू श्रवण बेवा पौचू रामसिंह हरिसिंह मेहरचन्द पि. श्योदान मिश्री बेवा श्योदान गुलाबचन्द जगदीश बाबूलाल पि. छोटू सुरेंद्र विक्रम पूरण पि. प्रभु मीणा</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1278	निजी	बारानी 2	26	हनुमान पुत्र चन्द हि. 1/2 रामजीलाल रामकुमार हरि गिरधारी पि. हरदेव सुरजी पुत्री बालिया बनारसी पति स्व. भवरा मालीराम सुरझानी उमराव पप्पू प्रकाश पि. भवरा धमती मन्नी गीता सुमित्रा पुत्रिया भवरा घीसा पुत्र नानाग सुलतान रिछपाल फूलाराम सरदारमल पि. देबू जडाव देवी बेवा देबू मीणा सुगला पुत्र गोपाल गुलाबी पति स्व. घीसा बत्ती लीलाराम सुरेशचन्द पप्पू बोदू पि. घीसा कमली देवी मीणा देवी पुत्र घीसा गोरा देवी दडकी देवी पुत्री गंधी देवी पति हाबूला फूली पति नाथू सेडू सुरेश पि. हाबूला सन्ती देवी कोयली देवी रमेशी देवी पुत्री हाबूला फूली पति नाथू सोनी देवी पुत्री नाथूराम रामकरण सोवता पि. नाथू पौची पति सुगना प्रेम चन्द पुत्र सुगना बनारसर देवी पति रिछपाल दिनेश मालीराम नरन्द पि. रिछपाल भगवाना पुत्र रुडा मोहरसिंह रामनिवास मेहरचन्द पि. पौचू अनोक सन्ती रेशनी पुत्रि पौचू शरण बेवा पौचू रामसिंह हरिसिंह मोहरचन्द पि. रघोदान मिश्री बेवा रघोदान गुलाबचन्द जगदीश बाबूलाल पि. छोदू सुरेन्द्र विक्रम पूरण पि. प्रभू मीणा
				1279	सरकारी	गैर मुमकिन डाणी	12	सिवायचक
				1283	निजी	चाही ए बंजर डोल	386	जगन्नाथ सिंह अमरसिंह पि. जोरावर सिंह हि. 2/3 प्रेम कवर पति कबूलसिंह किरानसिंह विक्रम सिंह पि. कबूलसिंह भमता कवर मनीषा कवर पुत्री कबूलसिंह हि. 1/15 प्रहलाद सिंह गोकलसिंह पप्पूसिंह पि. सोवतसिंह हि. 1/5 मानसिंह लीलूसिंह शरसिंह पि. हरिसिंह सोनू पुत्री हरिसिंह लक्ष्मी देवी बेवा हरिसिंह 1/15 राजपूत
				1284	निजी	चाही ए जाव ए	596	प्रहलाद सिंह रामसिंह पि. भवरसिंह मकतुल कवर पपकवर सरोज कवर सुशीला कवर जगरूप कवर विमला कवर पुत्रीया भवरसिंह हि. 1/3 प्रहलाद सिंह रामसिंह पि. भवरसिंह हि. 2/3 राजपूत
				1285	निजी	चाही ए जाव ए	754	धीसा पुत्र रघोनाथ गूजर
				1286	निजी	चाही 1 जाव 1	394	धीसा पुत्र रघोनाथ गूजर
				1287	निजी	चाही ए जाव ए	89	जगदीश रामेश्वर जयसिंह बिडदराम पि. नाथू बिदामी पुत्री नाथू पति अर्जुन नि. देसा जाति गूजर
				1323	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	84	सिवायचक
				1324	निजी	चाही ए	652	कौशल्या देवी पत्नी कैलाश चन्द अग्रवाल नि. छीतोली कल्पना पत्नी महेन्द्र कुमार नि. नीमूवाता तह. बानसूर
				1354	निजी	चाही ए	199	जगन्नाथ सिंह अमरसिंह पि. जोरावर सिंह हि. 2/3 प्रेम कवर पति कबूलसिंह किरानसिंह विक्रम सिंह पि. कबूलसिंह भमता कवर मनीषा कवर पुत्री कबूलसिंह हि. 1/15 प्रहलाद सिंह गोकलसिंह पप्पूसिंह पि. सोवतसिंह हि. 1/5 मानसिंह लीलूसिंह शरसिंह पि. हरिसिंह सोनू पुत्री हरिसिंह लक्ष्मी देवी बेवा हरिसिंह 1/15 राजपूत
				1355	निजी	चाही ए	397	बनवारी पुत्र प्रभू उर्फ प्रभात रंगर
				1356	निजी	चाही ए जाव 1	15	रघुवरी सिंह कबूलसिंह अमरसिंह पि. माधोसिंह हि. 3/4 विला खन मनेज कवर पत्नी स्व. कल्याणसिंह अर्जुन सिंह भीमसिंह पि. कल्याणसिंह राजपुत राहिन जयपुर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा बानसूर मूदहीन हि. 1/4
				1358	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	360	सिवायचक
				1359	निजी	चाही ए जाव ए	983	कान्ता देवी पत्नी श्री राजेश जाट नि. कुमरोद तह. रेवाडी
				1361	निजी	चाही ए जाव ए बंजर ए	592	सुन्दरी बेवा मूला हनुमान जगदीश रामेश्वर सुगना पि. मूला हि. 5/6 रोहिलाश पुत्र मूला हि. 1/6 कौम जाट
				1369	निजी	चाही ए जाव ए	627	सुन्दरी बेवा मूला हनुमान जगदीश रामेश्वर सुगना पि. मूला हि. 5/6 रोहिलाश पुत्र मूला हि. 1/6 कौम जाट

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1370	निजी	बावनी 3	101	सुन्दरी बेवा मूला हनुमान जगदीश रामेश्वर सुगना पि. मूला हि. 5/6 रोहिताश पुत्र मूला हि. 1/6 कोम जाट
				1373	सरकारी	बंजर	1022	सिधायचक
				1374	निजी	बावनी 3	538	जडी देवी पत्नी स्व. रामजीलाल मूला रेखा अन्नू पुत्रीया रामजीलाल विकास बादल पि. रामजीलाल जाति रंगर
				1377	निजी	बावनी 3 बंजर डोल	376	जडी देवी पत्नी स्व. रामजीलाल पूजा रेखा अन्नू पुत्रीया रामजीलाल विकास बादल पि. रामजीलाल हि. 20/57 जाति रंगर कात्ता देवी पत्नी विनय नागपाल खत्री राम गली राजपाठ जयपुर हि. 37/57
				1378	निजी	बावनी 3	555	कात्ता पति विनय नागपाल खत्री
				1379	निजी	बंजर 2	435	राजा देवी पति फूलनाथ सीताराम ओमनाथ जगदीश नाथ रामनिवास पि. फूलनाथ कमली काली सुगना पुत्री फूलनाथ हि. 8/16 जोगी कात्ता पति विनय नागपाल खत्री हि. 7/16
				1380	निजी	बावनी 2	189	राजा देवी फूलनाथ सीताराम ओमनाथ जगदीशनाथ रामनिवास पि. फूलनाथ कमली काली सजना पुत्री फूलनाथ जोगी
				1386	निजी	बाड़ी 1	384	राजा देवी फूलनाथ सीताराम ओमनाथ जगदीशनाथ रामनिवास पि. फूलनाथ कमली काली सजना पुत्री फूलनाथ जोगी
				1387	निजी	बंजर 2	905	राजा देवी फूलनाथ सीताराम ओमनाथ जगदीशनाथ रामनिवास पि. फूलनाथ कमली काली सजना पुत्री फूलनाथ जोगी
				1387	निजी	बाड़ी 1 जाव 1	455	राजेश्वर पुत्र राजेश्वर मीना पि. चतुपुर खातेदार
				1388	निजी	बाड़ी 1	400	रामेश्वर पुत्र मीना हि. 1/2 मीना पि. 14 नरसी टांक रोड जयपुर हनुमान पि. मु. चन्दा हि. 1/8 बनारसी भीरिया मालीराम सुरक्षानी उमराव पप्पू प्रकाश रामपाल पि. भीरिया कमला मनी गीता सुमित्रा मीना पुरखी बाल्या घीसा नानगा सुलतान रिछाल फूलाराम सरदारमल पि. देवू जडाव देवी बेवा देवू 1/2 सा. देह
				1399	निजी	बाड़ी 1	100	दयाला पुत्र प्रभात हि. 2 आना 3 पाई हनुमान पि. मु. चन्दा बनारसी पत्नी स्व. मूल मालीराम सुरक्षानी पप्पू प्रकाश रामपाल पि. भीरिया कमला मनी गीता सुमित्रा मीना पुरखी भीरिया सुरजी पुत्री बाल्या रामजीलाल रामकुमार हरिराम गिखारी पि. हरदेव मननरी पुत्री हरदेव विरदी बेवा हरदेव घीसा पुत्र नानगा हि. 12 आना 1 पाई कोम मीना सा. देह खातेदार
				1400	निजी	शेर मुमकिन चाह	96	दयाला पुत्र प्रभात हि. 2 आना 3 पाई हनुमान पि. मु. चन्दा बनारसी पत्नी स्व. मूल मालीराम सुरक्षानी पप्पू प्रकाश रामपाल पि. भीरिया कमला मनी गीता सुमित्रा मीना पुरखी भीरिया सुरजी पुत्री बाल्या रामजीलाल रामकुमार हरिराम गिखारी पि. हरदेव मननरी पुत्री हरदेव विरदी बेवा हरदेव घीसा पुत्र नानगा हि. 12 आना 1 पाई कोम मीना सा. देह खातेदार
				1401	निजी	बाड़ी ए	417	हनुमान पि. मु. चन्दा मीना
				1402	निजी	बाड़ी 1	893	दयाला पुत्र प्रभात मीना
				1406	निजी	बाड़ी 1 बंजर डोल	286	गणेश्वर पुत्र राजेश्वर मीना पि. चतुपुर खातेदार
				1407	निजी	बाड़ी 1 जाव 1	412	विजय काल्या रम्या पि. धूषा कोम मीना
				1408	निजी	बाड़ी 1 जाव 1	385	गणेश्वर पुत्र राजेश्वर मीना पि. चतुपुर खातेदार
				1426	निजी	बाड़ी 1 जाव 1	242	विजय काल्या रम्या पि. धूषा कोम मीना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1427	निजी	चाही 1 जाव 1	447	नर्बदा देवी पत्ति रामचन्द्र 1/6 गुल्लो देवी पत्ति सुवालाल 1/100 जैसा हजारी पि. सुबा 1/50 मेरु ओमी पि. सरदार मूली उगता सीता पुत्रिया सरदार 1/100 कोशल्या पुत्री सुबा 1/100 सोणीलाल पु. गोरया 1/4 शांति बेवा छीतर गंगाधर बन्ना कैलाश पि. छीतर 1/5 खडा सोना पि. हरदेव 1/3 मीना
				1434	निजी	चाही 1 जाव 1	22	सुगला पुत्र गोपाल गुलाबी पत्ति स्व. धीसा बशी लीलाराम सुरेशचन्द्र पम्पू बोदू पि. धीसा कमली देवी मीरा देवी पुत्री चोसा गोरु देवी दडकी देवी पुत्री भूरा मंदी देवी पत्ति हाबूला घडा मन्नु सेडू सुरेश पि. हाबूला सन्ती देवी कोयली देवी रमेशी देवी पुत्री हाबूला फूली पत्ति नथू सोणी देवी पुत्री नाथूराम रामकरण सखता पि. नाचू पंथी पत्ति सुगना प्रेम चन्द पुत्र सुगना बनारसी देवी पत्ति रिछपाल दिनेश मालीराम नरेन्द्र पि. रिछपाल भगवाना पुत्र रूडा मोहरसिंह रामनिवास मेहरचन्द पि. पाँचू अणोफ सन्ती रोशनी पुत्रि पाँचू श्रवण बेवा पाँचू हरिसिंह मेहरचन्द पि. श्यादान मिश्री बेवा श्यादान गुलाबचन्द जगदीश बाबूलाल पि. छोदू सुरेन्द्र विक्रम पूरण पि. प्रभु मीणा
				1435	निजी	चाही 1 जाव 1	500	गोरी देवी पुत्री भूरा सन्ती देवी पुत्री हाबूला रामप्रताप मीणा पुत्र मेरुराम मीणा नि. पी. 14 मीणा नर्सरी टोंक रोड जयपुर
				1436	निजी	चाही 1	450	गोरी देवी पुत्री भूरा सन्ती देवी पुत्री हाबूला रामप्रताप मीणा पुत्र मेरुराम मीणा नि. पी. 14 मीणा नर्सरी टोंक रोड जयपुर
				1437	निजी	चाही 1 जाव 1	383	मातादीन पुत्र नानू मीणा
				1438	निजी	चासी 1	227	मातादीन पुत्र नानू मीणा
				1439	निजी	चाही 1 जाव 1	120	रामप्रताप पुत्र मेरुराम नि. 14 मीणा नर्सरी टोंक रोड जयपुर गोरी देवी पुत्री भूरा सन्ती देवी पुत्री हाबूला मीणा
				1440	सरकारी	बारानी 3	398	सार्वजनिक निगम विभाग
				1441	निजी	बारानी 3	11	रामप्रताप पुत्र मेरुराम नि. 14 मीणा नर्सरी टोंक रोड जयपुर गोरी देवी पुत्री भूरा सन्ती देवी पुत्री हाबूला मीणा
				1442	निजी	बारानी 3	611	हनुमान पुत्र चन्दा कोम मीणा
				1477	निजी	बारानी 3	20	हनुमान पि. मु. चन्दा हि. 9 आना 4 पाई + हि. 1/2 दर हि. 3 आना 4 पाई बनारसी पत्नी भौर मालीराम सुरझानी उमराव पम्पू प्रकाश रामपाल पि. भौरा कमला मन्नी गीता सुमित्रा पुत्री भौरा सुजी पुत्री बाल्या हि. 1/2 दर हि. 3 आना 4 पाई सुलतान रिछपाल फूलाराम सरदारमल पि. देबू जडाव बेवा देबू हि. 1 आना 12 पाई दर हि. 12 आना 2 पाई रयाला पुत्र प्रभात हि. 2 आना कोम मीणा सा देह खातेदार
				1478	निजी	बारानी 3	1103	रामप्रताप मीणा पुत्र मेरुराम नि. पी. 14 मीणा नर्सरी टोंक रोड जयपुर हि. 12/72 प्रहलाद हजारी राजेन्द्र सुरेश पि. हनुमान हि. 60/72 कोम मीणा
				1480	निजी	बारानी 3	360	हनुमान पुत्र चन्दा हि. 3/4 सुलतान रिछपाल फूलाराम सरदारमल पि. देबू जडाव देवी बेवा देबू हि. 1/4 कोम मीणा
				1481	निजी	बजर डोल	876	हनुमान पुत्र चन्दा बिमला देवी पत्नी मूलाराम मीरा देवी पत्नी मुरशिलाल सजू देवी पत्नी सुमाष हि. ब. 3/16 रमेश पुत्र रिछपाल हि. 1/16 धीसा हाबूला पि. भूरा लिछमण पि. भूरा कन्हैयालाल सुरजमल रामकरण पि. मूला जोरा सब्ती चमेदी सरोज पुत्रीया मूला रामकिशोर अशोक सुमाष पि. भागीरथ मुनेश हंसो पुत्री भागीरथ ससी पुत्र धूषा प्रभु मातादीन सहायशा गोपाल पि. प्रभु गीता देवी सुशीला देवी पुत्री प्रभु कोम मीणा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1482	निजी	बंजर डोल	3433	राजिन्द पुत्र सुलतान हि. 1/5 सा. ग्राम मेहडा जाटोवास तह. खेतडी विमला देवी पत्नी मूलाराम मीरा देवी पत्नी 5/रीलाल राजू देवी सुभाष हि. 3/16 रमेश पुत्र रिछपाल हि. 1/16 गुलाब देवी पत्नी घीसा बंशी लीलाराम सुसाराम चन्दाराम पन्पूराम बोरदूराम पि. घीसा कमली मीरा पुत्री घीसा गैदी देवी पत्नी हाबूला धूडाराम मूलचन्द सुरेश सेडाराम पि. हाबूला कोयली शान्ती देवी रमेश सिंह पौडी प्रेम पुत्री हाबूला लिछमण पि. गंगू कन्दयालाल सुरजमल समकरण पि. मूला रामकिशोर अशोक सुभाष सोहनलाल पि. भागीरथ मुनेश हंसो पुत्रीया भागीरथ रेवती बेवा भागीरथ जोरा सरवती चमेली सराज पुत्री मूला रमली पुत्री धूषा रोहिताश मातादीन गोपाल पि. प्रभु मीता देवी सुशीला देवी पुत्री प्रभु कोम मीणा
				1519	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	564	सिवायचक
				1639	निजी	बारानी 2	26	सुरेशचन्द प्रकाश चन्द पि. बरीधर कोम अहीर
				1685	निजी	बाही 2 जाव 2	63	सुरेशचन्द प्रकाश चन्द पि. बरीधर कोम अहीर
				1686	निजी	बाही 2 जाव 2	41	सुरेशचन्द प्रकाश चन्द पि. बरीधर कोम अहीर
				1687	निजी	बाही 2	31	रामकुवर रामनिवास मीना पि. मूला व संजया बेवा मूला कोम गूजर
				1688	निजी	बंजर 1	80	मामराज गिखारी घीसा पि. हरनन्दा प्रभुदयाल रोहिताश कल्याणसहाय पि. अर्जुन गूजर
				1692	निजी	बारानी 3	19	पुनरिन्द बलिस डवलपर्स प्रा.लि. जरीये ओयोराईज सिंगनेचरी सुनिल कुमार मित्तल पुत्र श्री हुकमचन्द मित्तल 283 एजी.सी.आर. इन्कलेब ककड डडूना दिल्ली
				1709	निजी	बारानी 3	161	जयसम पुत्र गणपत हि. 1/3 केसरी देवी पति गोविन्दराम गणपत गोविन्दराम रिछपाल पि. नाथू कोम गूजर सा. देह हि. 2/3
				1710	निजी	बारानी 3	24	गणपत गोविन्दराम रिछपाल पि. नाथू कोम गूजर सा. देह
				1989	निजी	बारानी 2	66	प्रमोदी देवी पति स्व. पूणाश्रम श्रवण देवी पति हरनाथ कमली देवी पत्नी स्व. अर्जुन मवरी देवी पत्नी बही हि. 1/3 गैदी देवी पत्नी मोगाराम श्रवण देवी पत्नी ऊँतर हि. 1/3 धूषा देवी पत्नी स्व. मुकन्द कोयली देवी पत्नी मीनाराम दर हि. 1/2 जगदीश बशी पि. छाजू लूडी बेवा छाजू हि. 1/2 कोम गूजर
				1990	निजी	बारानी 2	129	हरनाथ पुत्र धन्ना हि. 1/8 राहिन जयपुर नागीर आंचलिक बैंक शाखा भावरक मूहीन धूणाराम बही पि. धन्ना हि. 1/4 कमली पत्नी रामकुमार साधुराम बीरबल पि. अर्जुन पयासी केशरी मिना हंशा पुत्रीया अर्जुन हि. 1/8 जगदीश बशी पि. छाजू लूडी बेवा छाजू हि. 1/2 कोम गूजर
				1991	निजी	बारानी 2	14	हरनाथ पुत्र धन्ना हि. 1/8 राहिन जयपुर नागीर आंचलिक बैंक शाखा भावरक मूहीन धूणाराम बही पि. धन्ना हि. 1/4 कमली पत्नी रामकुमार साधुराम बीरबल पि. अर्जुन पयासी केशरी मिना हंशा पुत्रीया अर्जुन हि. 1/8 जगदीश बशी पि. छाजू लूडी बेवा छाजू हि. 1/2 कोम गूजर
				1999	निजी	बारानी 2	116	रामजीलाल रामकुमार हरिराम गिखारीलाल पि. हरदेव मीणा कोम मीणा
				2009	निजी	जाव 2	90	नर्बदा देवी पति रामचन्द कोम मीणा
				2010	निजी	बाही 2	82	नर्बदा देवी पति रामचन्द कोम मीणा
				2017	सरकारी	गैर मुमकिनदी	364	सिवायचक
				2018	सरकारी	गैर मुमकिनदी	47	सिवायचक
				2019	निजी	बंजर 1	89	कासूराम भैरुराम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भावान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरगल पि. गिखारी हि. 5/11 कोम गूजर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2024	निजी	बारानी 3	32	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2025	निजी	बारानी 3	88	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2026	निजी	बारानी 2	142	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2029	निजी	बारानी 2	148	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2032	निजी	बारानी 2 बजर 1	70	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2033	निजी	बारानी	78	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2035	निजी	बारानी	181	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2036	निजी	बारानी	45	कालूराम मैरुसाम जगदीश प्रसाद पि. गोविन्दा हि. 1/2 बोदी देवी पत्नी स्व. गिरुखारीलाल हि. 1/22 बरीधर भगवान सहाय अर्जुन लाल लखनलाल प्रहलाद सहाय पोखरमल पि. गिरुखारी हि. 5/11 कौम गुर्जर
				2047	सरकारी	रास्ता	25	सिवायचक
				2048	निजी	बारानी	52	मोहन सिंह पुत्र सरदार मखनसिंह जाति जट सिक्ख नि. ए. 13/1 बरसत बिहार नई दिल्ली
				2049	निजी	बारानी	147	हनुमान रिछपाल पि. भगवाना हि. 2/3 श्रवणी बेता लिलाराम राकेश मुकेश पि. लीलाराम हि. 1/3 कौम गुर्जर
				2050	निजी	बारानी	133	हनुमान रिछपाल पि. भगवाना कौम गुर्जर
				2051	निजी	बारानी	105	नानाराम पुत्र नत्थूराम हि. 1/4 हरिराम गाडाराम पि. नाथूराम हि. 1/2 छीतरमल पूरणमल सुन्दरलाल पि. बोदूराम हि. 7/32 सुरजी देवी गीता देवी सुरजी देवी पुत्रीया बोदूराम 1/32 कौम गुर्जर
				2054	निजी	बारानी	104	नानाराम पुत्र नत्थूराम हि. 1/4 हरिराम गाडाराम पि. नाथूराम हि. 1/2 छीतरमल पूरणमल सुन्दरलाल पि. बोदूराम हि. 7/32 सुरजी देवी गीता देवी सुरजी देवी पुत्रीया बोदूराम 1/32 कौम गुर्जर
				2133	निजी	बारानी	10	प्रभात पुत्र उमदा कौम गुर्जर
				2138	निजी	बारानी	43	नानाराम पुत्र नत्थूराम हि. 1/4 हरिराम गाडाराम पि. नाथूराम हि. 1/2 छीतरमल पूरणमल सुन्दरलाल पि. बोदूराम हि. 7/32 सुरजी देवी गीता देवी सुरजी देवी पुत्रीया बोदूराम 1/32 कौम गुर्जर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2139	निजी	बारानी	95	नानगराम पुत्र नथूराम हि. 1/4 हरिराम गाडाराम पि. नाथूराम हि. 1/2 छीतरमल पूरणमल सुन्दरलाल पि. बोदूराम हि. 7/32 सुजि देवी गीता देवी सुनी देवी पुत्रीया बोदूराम 1/32 कौम गुर्जर
				2140	निजी	बारानी	144	नानगराम पुत्र नथूराम हि. 1/4 हरिराम गाडाराम पि. नाथूराम हि. 1/2 छीतरमल पूरणमल सुन्दरलाल पि. बोदूराम हि. 7/32 सुनी देवी गीता देवी सुनी देवी पुत्रीया बोदूराम 1/32 कौम गुर्जर
				1092/4423	निजी	चाही	56	नारायण पुत्र रूपा कौम जाट
				1222/4395	निजी	बंजर	12	रविशंकर पुत्र बल्लू हि. 1/5 गंगा देवी पति मूलचन्द हि. 4/5 जाति जाट
				1232/4389	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	12	सिवायचक
				1251/4541	निजी	बंजर डोल	10	जगनाथ सिंह अमरसिंह पि. जयसिंह हि. 2/3 प्रेम कवर पत्नी कबूल सिंह किरान सिंह पि. कबूल सिंह ममता कवर मनीषा कवर पुत्री कबूलसिंह हि. 1/15 प्रहलादसिंह गोकल सिंह पप्पू सिंह पि. सावदा सिंह हि. 1/5 मयसिंह लीकसिंह शेरसिंह पि. हरीसिंह सोनू पुत्री हरिसिंह लम्बी देवी बेवा हरिसिंह हि. 1/15 कौम राजपूत सा देह खातेदार
				1482/4556	सरकारी	गैर मुमकिन चाह	125	सिवायचक
				1630/4310	निजी	बारानी	93	हरनाथ पुत्र धन्ना हि. 1/8 राहिन जयपुर नागीर आचलिक बैंक शाखा नामरू मूहीन धूणाराम बही पि. धन्ना हि. 1/4 कमली पत्नी रामकृष्ण साधराम बीरबल पि. अर्जुन पतासी केशरी-मिना हंशा पुत्रीया अर्जुन हि. 1/8 जगदीश बंसी पि. छालू लूदी बेवा छालू हि. 1/2 कौम गुर्जर
				1630/4461	निजी	बारानी	111	तेजाराम पुत्र खंगाराम हि. 11/31 कौम मीणा सही देवी पत्नी गणेश ग्यासी लाल पुत्र गणेश हि. 20/31 कौम मीणा
				1635/4559	निजी	बंजर	138	मामराज निचारी घोसा पि. हरनन्दा प्रमुरवाल सौहताय कल्याणतहाय पि. अर्जुन लूदी पत्नी अर्जुन कौम गुर्जर
				1708/4562	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	20	सिवायचक
				2133/4307	निजी	बारानी	20	हनुमान सिंघपाल पि. भगवाना कौम गुर्जर
				893/4337	निजी	बारानी	300	बाबूलाल पुत्र अमकार जाति जाट
						कुल	45224	
	12. चातोलाई			900	निजी	बारानी 2	25	सीमान कवर देवा बनेसिंह उगम कवर मधु कवर जयकवर पुत्री नारायण सिंह ललीता कवर पत्नी भैरुसिंह अंजु कवर सीमाकवर पुत्री भैरुसिंह शक्ति सिंह बजरगसिंह पि. भैरुसिंह भगवानसिंह पुत्र बनेसिंह फूलकवर देवा हरिसिंह भागीरथसिंह रामसिंह मदनसिंह पि. हरिसिंह जाति राजपूत सा. देह
				901	निजी	चाही 2	36	सीमान कवर देवा बनेसिंह उगम कवर मधु कवर जयकवर पुत्री नारायण सिंह ललीता कवर पत्नी भैरुसिंह अंजु कवर सीमाकवर पुत्री भैरुसिंह शक्ति सिंह बजरगसिंह पि. भैरुसिंह भगवानसिंह पुत्र बनेसिंह फूलकवर देवा हरिसिंह भागीरथसिंह रामसिंह मदनसिंह पि. हरिसिंह जाति राजपूत सा. देह
				903	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	14	सिवायचक बिना लगानी
				908	निजी	बारानी 1	154	मोहरा पति रामेश्वर प्रसाद जाट सा. देह खातेदार
				909	निजी	बारानी 1	155	नाथी पति मोतीराम जाति जाट सा. देह खातेदार
				910	निजी	बारानी 1	224	बलवीरसिंह विजयसिंह पि. हजारी सिंह कान्ता कवर मनीष कवर पुत्री हजारी सिंह शुशीला पत्नी हजारी सिंह जाति राजपूत सा. देह
				913	निजी	बारानी 1	207	पराग मेहता आलोक मेहता पि. सुरेन्द्र कुमार मेहता जाति महाजन निवासी गुडगांव (हरियाणा)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				914	निजी	बारानी 1	176	पराग मेहता आलोक मेहता पि. सुरेन्द्र कुमार मेहता जाति महाजन निवासी गुडगांव (हरियाणा)
				919	निजी	चाही 2	75	रश्मी जैन पति रमेश कुमार जैन नि. सत्याबिहार कॉलोनी लाल कोठी जयपुर
				920	निजी	चाही 2	40	रमेश कुमार जैन पुत्र उममाराज जैन निवासी सत्याबिहार कॉलोनी लाल कोठी जयपुर
				921	निजी	बारानी 2	34	रिसाल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				923	निजी	बारानी 2	36	रिसाल सिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				924	निजी	बारानी 2	33	मुलसिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				927	निजी	बारानी 2	29	मुलसिंह पुत्र सुल्तान सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार
				1020	निजी	बारानी 2	292	उमराव सिंह मैरुसिंह पि. भैरवसिंह हि. 1/4 इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 प्रेम सिंह पुत्र गोपालसिंह हि. 1/16 रामगोपाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा हि. 7/16 सा. देह
				1021	निजी	बारानी 2	1171	बागाराम पुत्र मूलाराम हि. 144/276 सुभाष चन्द पुत्र गोविन्दराम हि. 132/276 गुर्जर सा. देह
				1022	निजी	बारानी 2	646	उमराव सिंह मैरुसिंह पि. भैरवसिंह हि. 1/4 इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 रामगोपाल पुत्र रामेश्वरप्रसाद शर्मा हि. 1/2 सा. देह
				1023	निजी	बारानी 3	620	उमराव सिंह मैरुसिंह पि. भैरवसिंह हि. 1/4 इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 रामगोपाल पुत्र रामेश्वरप्रसाद शर्मा हि. 1/2 सा. देह
				1024	निजी	बारानी 3	926	उमराव सिंह मैरुसिंह पि. भैरवसिंह हि. 1/4 इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 रामगोपाल पुत्र रामेश्वरप्रसाद शर्मा हि. 1/2 सा. देह
				1032	निजी	चाही 2	273	उमराव सिंह मैरुसिंह पि. भैरवसिंह हि. 1/4 इन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह हि. 1/4 रामगोपाल पुत्र रामेश्वरप्रसाद शर्मा हि. 1/2 सा. देह
				1033	निजी	बारानी 1	902	छगनलाल पुत्र सेडुशम जाति जाट
				1034	निजी	बारानी 1	611	मोहरी पति रामेश्वर प्रसाद 1/3 नाथी पति मोतीराम 1/3 गुनाव पत्नी पूरणमल हि. 1/3 जाट नि. किशोरपुरा
				1037	निजी	चाही 1	56	केशरसिंह पुत्र सरदार सिंह कोम राजपूत
				1126	सरकारी	बारानी 1	1145	सिवायवक लगानी
				1127	सरकारी	बारानी 1	42	सिवायवक लगानी
				709/2224	सरकारी	बारानी 3	20	चारगाह
						कुल	7962	
				493	सरकारी	बंजर 1	140	वन विभाग
				494	सरकारी	बंजर 1	20	वन विभाग
				500	सरकारी	बारानी 3	40	वन विभाग
						कुल	200	
				444	निजी	बारानी 3	20	सुन्दरी बेवा भूरा मालीराम पुत्र भूरा जाति जाट सा. देह खातेदार
				450	निजी	बारानी 3	100	कालूराम पुत्र रूगा हि. 1/6 चिमा पुत्र भगवानिया हि. 1/6 भवरिया पुत्र रूपला हि. 1/6 गोकल चन्द पुत्र जीवनराम जाति भाण्ड नि. गढवाडी तह. जमुवारामगढ हि. 1/18 कजोडमल पुत्र सोहनलाल हि. 1/9 जाति बलाई नि. गधोकाबस तह. शांभपुरा लखवा पुत्र लाटू हि. 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गंगाराम भैरवा जाति बलाई नि. मंगलपुरी पालम नई दिल्ली 45 हि. 31/205 प्रभात पुत्र पन्ना हि. 1/18 छीतरमल पुत्र पन्ना हि. 1/18 मालीराम पुत्र पन्ना हि. 1/18 दर हि. 19/1230 कोम रेगर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				452	निजी	बारानी 3	90	कालूराम पुत्र रुग्गा हि. 1/6 चिमा पुत्र भगवानिया हि. 1/6 भविया पुत्र रूपता हि. 1/6 गोकल चन्द पुत्र जीवनराम जाति भाण्ड नि. गढवाडी तह. जमुवारामगढ हि. 1/18 कजोडमल पुत्र सोहनलाल हि. 1/9 जाति बलाई नि. माधोकाबस तह. शाहपुर लख्खा पुत्र लादू हि. 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गंगाराम भैया जाति बलाई नि. मंगलपुरी पालम नई दिल्ली 45 हि. 31/205 प्रभात पुत्र पन्ना हि. 1/18 छीतरसल पुत्र पन्ना हि. 1/18 मालीराम पुत्र पन्ना हि. 1/18 दर हि. 19/1230 कोम रंगर
				453	निजी	बारानी 3	50	कालूराम पुत्र रुग्गा हि. 1/6 चिमा पुत्र भगवानिया हि. 1/6 भविया पुत्र रूपता हि. 1/6 गोकल चन्द पुत्र जीवनराम जाति भाण्ड नि. गढवाडी तह. जमुवारामगढ हि. 1/18 कजोडमल पुत्र सोहनलाल हि. 1/9 जाति बलाई नि. माधोकाबस तह. शाहपुर लख्खा पुत्र लादू हि. 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गंगाराम भैया जाति बलाई नि. मंगलपुरी पालम नई दिल्ली 45 हि. 31/205 प्रभात पुत्र पन्ना हि. 1/18 छीतरसल पुत्र पन्ना हि. 1/18 मालीराम पुत्र पन्ना हि. 1/18 दर हि. 19/1230 कोम रंगर
				454	निजी	बारानी 3	40	कालूराम पुत्र रुग्गा हि. 1/6 चिमा पुत्र भगवानिया हि. 1/6 भविया पुत्र रूपता हि. 1/6 गोकल चन्द पुत्र जीवनराम जाति भाण्ड नि. गढवाडी तह. जमुवारामगढ हि. 1/18 कजोडमल पुत्र सोहनलाल हि. 1/9 जाति बलाई नि. माधोकाबस तह. शाहपुर लख्खा पुत्र लादू हि. 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गंगाराम भैया जाति बलाई नि. मंगलपुरी पालम नई दिल्ली 45 हि. 31/205 प्रभात पुत्र पन्ना हि. 1/18 छीतरसल पुत्र पन्ना हि. 1/18 मालीराम पुत्र पन्ना हि. 1/18 दर हि. 19/1230 कोम रंगर
				455	निजी	बारानी 3	25	कालूराम पुत्र रुग्गा हि. 1/6 चिमा पुत्र भगवानिया हि. 1/6 भविया पुत्र रूपता हि. 1/6 गोकल चन्द पुत्र जीवनराम जाति भाण्ड नि. गढवाडी तह. जमुवारामगढ हि. 1/18 कजोडमल पुत्र सोहनलाल हि. 1/9 जाति बलाई नि. माधोकाबस तह. शाहपुर लख्खा पुत्र लादू हि. 1/6 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गंगाराम भैया जाति बलाई नि. मंगलपुरी पालम नई दिल्ली 45 हि. 31/205 प्रभात पुत्र पन्ना हि. 1/18 छीतरसल पुत्र पन्ना हि. 1/18 मालीराम पुत्र पन्ना हि. 1/18 दर हि. 19/1230 कोम रंगर
						कुल	325	
		2. शाहपुरा	1. मनोहरपुर	1117	सरकारी	आबादी	303	सिवायचक
				1463	निजी	बारानी 5	10	बंशी पुत्र बूरा हि. 1/3 जाति जाट-जगदीश पुत्र लादु मु. प्रभाती देवा लादू हि. 2/27 कानाराम पुत्र लालाराम हि. 11/54 लिछमण गिरधारी पिता काजू हि. 2/9 कोम गूर्जर सा. मनोहरपुर साधुराम पुत्र घीसा राम राहिन ओरियटल बैंक आफ कामस शाखा शाहपुरा मुर्तेहीन हि. 1/6 कोम अहीर सा. मनोहरपुर खातेदार
				1464	निजी	बारानी 1	36	अब्दुल सद्द पुत्र नजीर कुशी जाति मुसलमान सा. देह खातेदार
				1465	निजी	बारानी 1	62	लतीफा पतिन कायम खाँ हि. 1/2 जाति मुसलमान लक्ष्मण बैंक पिता बूरा हि. 1/3 नानगराम जगदीश पि. लादू व प्रभाती देवा लादू हि. 2/9 कोम गिरधारी पि. काजू हि. 2/9 कस्याण सहाय लखनलाल हीरालाल छोटूराम पि. भगवाना हि. 1/3 दर हि. 1/2 कोम गूर्जर सा. देह खातेदार
				1513	निजी	बारानी 1	90	शकुन देवा रमजू खाँ बशीर खाँ गुलाब खाँ बाबू खाँ मुन्नी खाँ सरदार खाँ सिराज खाँ पि. रमजू खाँ कोम मुसलमान सा. देह खातेदार राहिन जयपुर जिला सरकारी मुनि विकास बैंक शाखा शाहपुरा जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1514	निजी	बारानी 1	94	शकुल बेवा रमजू खों बशीर खों गुलाब खों मुन्गी खों सरदार खों सिराज खों पि. रमजू खों हि. 3/4 जाति मुसलमान सा. देह कल्याणचन्द पुत्र सुवालाल हि. 1/4 जाति महाजन सा. अमरसर खातेदार
				1517	निजी	बारानी 1	118	शकुल बेवा रमजू खों बशीर खों गुलाब खों मुन्गी खों सरदार खों सिराज खों पि. रमजू खों कौम मुसलमान सा. देह खातेदार राहिन जगपुर जिला सरकारी भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा जयपुर मुहरीन
				1518	निजी	बारानी 1	98	विकास चन्द सुभाष चन्द जयप्रकाश दामोदर पि. रामदयाल कौम बाहूमण मिश्रा सा. देह खातेदार
				1520	निजी	बारानी 1	153	हनुमान सहाय पुत्र सुरजमल बाहूमण सा. जयपुर खातेदार
				1522	निजी	बारानी 1	19	नाथू लाल उर्फ प्रदीप कुमार पुत्र चीसांलाल कौम बाहूमण सा. देह
				1523	निजी	बारानी 1	360	सैयद जमशेर अली गुलशेर खों पि. मुस्तफ खों कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
				1526	निजी	बारानी 1	422	रुडमल पुत्र शोराण हि. 1/6 भवसिंह रतनलाल हरिलाल राजेन्द्र सीताराम बशीर पि. कन्हैयालाल बरजी बेवा कन्हैया लाल जाट हि. 1/6 देवनायण मालीराम पि. मदनलाल कौम खाती हि. 1/3 नानगराम नागडशम पि. जमनिया हि. 1/3 कौम गूजर सा. देह खातेदार
				1527	निजी	बारानी 1	647	बाला सहाय पुत्र मोहरी लाल हि. 728/1560 कौम खाती बुन्दू खों छीतर खों भादर खों कलन मुनीर खों पि. खाजू खों कुरेशी हि. 47/1560 विमला देवी पति मालीराम हि. 500/1560 मालीराम पुत्र हनुमान सहाय हि. 285/1560 जंगीड कौम खाती दर हि. 1/2 श्रीमती पार्वती देवी पति बालासहाय हि. 1/2 कौम खाती सा. देह खातेदार
				1528	निजी	गैर मुमकिन चाह	112	बालासहाय पुत्र मोहरी लाल व पार्वती देवी पति बालासहाय कौम खाती सा. देह खातेदार
				1529	निजी	बारानी ए	208	बालासहाय पुत्र मोहरी लाल व पार्वती देवी पति बालासहाय कौम खाती सा. देह खातेदार
				1531	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	223	सरकारी गै. मु. रास्ता सिवायक
				1532	निजी	बारानी ए	90	भैरुलाल पि. भूरामल कौम महाजन सा. देह खातेदार
				1533	निजी	बारानी ए	470	भैरुलाल पि. भूरामल कौम महाजन सा. देह खातेदार
				1534	निजी	बारानी 1	534	रामनिवास पुत्र धन्ना कौम खटीक सा. देह खातेदार 1534/1 रकबा 5 एयर अमरसिंह पुत्र ओमकार हि. 888/1099 शर्मा बाबूलाल पुत्र विजयलाल गिरधारी पुत्र मांगेला जमिंद हि. 201/1099 खन 1534/2 रकबा 9 एयर
				1535	निजी	चाही 2	238	कैलाश पुत्र नारायण हि. 138/150 बाबूलाल पुत्र विजयलाल गिरधारी पुत्र मांगीलाल दौम खाती सा. देह हि. 33/150 गफूर पुत्र मोहम्मद खों हि. 11/150 दर हि. 1/2 अमरचन्द पुत्र गुप्ता हि. 1/2 कौम गूजर सा. देह खातेदार
				1536	निजी	चाही 2	146	रमेश कुमार सुरेश कुमार पि. बाबूलाल हि. 1/2 इजमोहन भारत पुत्र बाबूलाल हि. 1/2 जाति खाती सा. देह खातेदार 1536/1 रकबा 00.3 व 1536/2 रकबा 0.15 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
				1537	निजी	जाव 2	61	बाबूलाल पुत्र विजयलाल जाति खाती 1537/1 0.02 तथा 1537/2 0.10 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
				1538	निजी	जाव 2	78	गिरधारी पुत्र मांगीलाल कौम खाती 1538/1 रकबा 0.02 तथा 1538/2 0.10 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
				1546	निजी	जाव 1	136	मालीराम पुत्र कल्याण कौम गूजर सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1547	निजी	चाही 1	344	धन्ना पुत्र गणेश कोम गुरजर सा. देह खातेदार 1547/1 रकबा 0.01 मालीराम पुत्र कल्याण गुरजर 1547/2 रकबा 0.08
				1548	निजी	चाही 1 जाव 1	194	मुरली प्रभू पुत्र काला हि. 1/2 धन्ना पुत्र गणेश हि. 1/2 कोम गुरजर सा. देह खातेदार
				1549	निजी	गेर मुमकिन बाह	34	छाणुलाल पि. मु. हरिनारायण हि. 1/4 छाणुलाल मोहनलाल अर्जुन लाल पि. कन्दैयालाल हि. 1/4 मोहनलाल पुत्र बही नारायण जयनारायण पुत्र स्योचन्द भीरी लाल पुत्र मुरलीधर हि. 1/4 सिंघायक हि. 1/4
				1550	निजी	चाही 1 जाव 1	20	ललित कुमार मुखेश कुमार पि. नन्दकिशोर सहाम पुत्री नन्दकिशोर सुदेश पत्नी स्व. नन्दकिशोर हि. 217/325 कोम बाहुमण सा. ए-1338 उत्तम नगर दिल्ली समेतार पुत्र सीताराम भित्तल जाति महाजन सा. देह हि. 6/325 लालराम पुत्र गोकर्ण कोम करीम सा. देह हि. 6/325 विरदी देवी पत्नी सरदारमल जाति गुरजर सा. लखौर तह. आमेर हि. 57/325 सीताराम पुत्र साधुराम हि. 6/325 जाति यादव निवासी तुलनपुर सिधपाल पुत्र हजारी लाल यादव हि. 6/325 सा. विमनपुरा ओमप्रकाश पुत्र फूलचन्द घोषी हि. 5/325 हुनुमान पुत्र फलचन्द घोषी हि. 4/325 रुक्मणी देवी पत्नी सुरेश कुमार महाजन हि. 6/325 मागीदेवी पुत्री रामचन्द पत्नी शिवपाल गुरजर सा. लखौर तह. आमेर हि. 6/325 खातेदार 1550/1 रकबा 13एयर गंगाराम पुत्र बतार यादव निवासी ठाणी तुलसावाली 1550/2 रकबा 0.05 गै.मु. आबादी
				1576	निजी	बायली 1	22	दरारथ सिंह पुत्र कानसिंह हि. 7/32 जाति राजपूत सा. पम्पदी पो. भगोद तह. विरटनगर नागर छोट्टा पुत्र श्रीरामल कटटा हि. 7/32 जाति महाजन सा.बाबा हरिच चन्द मर्ग चान्दपाल बाजार जयपुर दर हि. 7/16 लक्ष्मण भैरु पि. मुरा हि. 1/3 नानाराम जगदीश पि. लादू म.मु. प्रभाती मेवा लादू हि. 1/9 सिधमण पुत्र कादू हि. 1/9 साधुराम श्रवण पि. सिधारी हि. 1/9 कल्याण लखनलाल हीरालाल छोट्टा राम पि. भगवाना हि. 1/3 दर हि. 9/16 कोम गुरजर सा. देह
				1577	निजी	बायली 1	86	लक्ष्मण भैरु पि. मुरा हि. 1/3 दर नानाराम जगदीश पि. लादू म.मु. प्रभाती साधुराम श्रवण पि. सिधारी हि. 1/9 कोम गुरजर सा. देह सिधमण पुत्र कादू हि. 1/9 कल्याण सहाय लखनलाल हीरालाल छोट्टा राम पि. भगवाना हि. 1/3 कोम गुरजर सा. देह खातेदार
				1578	निजी	बायली 1	52	लक्ष्मण भैरु पि. मुरा हि. 1/3 दर नानाराम जगदीश पि. लादू म.मु. प्रभाती साधुराम श्रवण पि. सिधारी हि. 1/9 कोम गुरजर सा. देह सिधमण पुत्र कादू हि. 1/9 कल्याण सहाय लखनलाल हीरालाल छोट्टा राम पि. भगवाना हि. 1/3 कोम गुरजर सा. देह खातेदार
				1579	निजी	बायली 1	300	सुतोष देवी ख्यालिया पत्नी सतपाल ख्यालिया जाति जाट हि. 118 लेन न. 4 गुरु जन्मेश्वर नगर-ए. गांधी रवा कवीरस रोड जयपुर
				1581	निजी	बायली 1	219	प्रमोदयाल पुत्र विरदूराम कोम कुम्हार 1581 रकबा 0.17 1581/1 रकबा 0.20 गै.मु.आबादी
				1582	निजी	बायली 2	48	विकास चन्द सुभाष चन्द जयप्रकाश दामोदर पि. रामदयाल कोम बाहुमण मिश्र सा. देह खातेदार
				1583	निजी	बायली 1	343	विकास चन्द सुभाष चन्द जयप्रकाश दामोदर पि. रामलाल कोम बाहुमण मिश्र सा. देह खातेदार
				1584	निजी	बायली 1	650	रशीद अहमद पुत्र फतेह मोहम्मद कोम कायमखानी सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1614	निजी	बारानी 1	207	कन्हैया लाल सरदारमल पि. नारायण राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा शाहपुरा मुर्तहीन हि. 3/4 कौम मीणा संवाला बाबूलाल पि. मैरू बाबू पि. नारायण जगदीश पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/32 कौम बहमण सा. देह खातेदार रामेश्वर पुत्र रुडायम हि. 1/4 बाबूलाल मैरू लाल हि. 1/4 दर हि. 1/4 जाति बहमण सा. देह खातेदार
				1615	निजी	चाही 1	95	कन्हैया लाल सरदारमल पि. नारायण राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा शाहपुरा मुर्तहीन हि. 3/4 कौम मीणा संवाला बाबूलाल पि. मैरू बाबू पि. नारायण जगदीश पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/32 कौम बहमण सा. देह खातेदार रामेश्वर पुत्र रुडायम हि. 1/4 बाबूलाल मैरू लाल हि. 1/4 दर हि. 1/4 जाति बहमण सा. देह खातेदार
				1616	निजी	बारानी 1	105	कन्हैया लाल सरदारमल पि. नारायण राहिन स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा शाहपुरा मुर्तहीन हि. 3/4 कौम मीणा संवाला बाबूलाल पि. मैरू बाबू पि. नारायण जगदीश पुत्र ओमप्रकाश हि. 1/32 कौम बहमण सा. देह खातेदार रामेश्वर पुत्र रुडायम हि. 1/4 बाबूलाल मैरू लाल हि. 1/4 दर हि. 1/4 जाति बहमण सा. देह खातेदार
				1631	सरकारी	पुलिस स्टेशन बारानी 3	2487	चारगाह . 1631/1 रकबा 0.10 तथा पुलिस थाना मनोहरपुर अवधि 30 वर्ष हेतु 1631/2 रकबा 0.93 चारगाह
				1632	सरकारी	चारगाह	1071	चारगाह
				1633	सरकारी	चारगाह बारानी 3	734	चारगाह 1633 रकबा 0.17 तथा 1633/2 रकबा 0.15 मूअमिलख निरीक्षक भवन मनोहरपुर 99 वर्ष की लीज पर
				1635	सरकारी	गैर मुर्मकिन अस्पताल	402	राजकीय सेटलाईट अस्पताल मनोहरपुर के लिये आरक्षित 1.00 हेक्ट. जलाशय एवं कार्यालय भवन सहायक अभियंता जल स्वास्थ्य अभियान्त्रिक 1635/1 रकबा 0.31 1635/2 रकबा 1.00 हेक्ट.
				1636	सरकारी	रास्ता	15	महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकारी
				5350	निजी	बारानी ए	771	मंदिर श्री रामदास खातेदार
				5351	निजी	बारानी ए	576	रतनलाल पुत्र रामसहाय घोषी सा. देह खातेदार 5351/1 रकबा 0.07 व संजय अस्वाल पुत्र मुरलीधर अस्वाल खटीक 5351/2
				5352	निजी	बारानी 1	561	जमील हमीद पुत्र निजामुद्दीन कौम मुसलमान सा. देह खातेदार 5352/1 रकबा 0.1560 गै.मु. आबादी व 5352/2 रकबा 0.2140
				5373	निजी	बारानी 1	728	प्रभाती देवी बेवा भगवान सहाय जाति खटीक सा. देह खातेदार
				5374	निजी	बारानी 1	327	प्रभाती देवी बेवा भगवान सहाय जाति खटीक सा. देह खातेदार
				5375	निजी	बारानी 1	593	कौशल्या देवी पति के.सी. गुप्ता महाजन नि. 862/6 महरोली नई दिल्ली
				5376	निजी	बारानी 2	938	कौशल्या देवी पति के.सी. गुप्ता नि. 862/6 महरोली नई दिल्ली
				5377	निजी	बारानी 1	98	कौशल्या देवी पति के.सी. गुप्ता हि. 1/4 मुकेश कुमार पुत्र के.सी. हि. 1/2 योगेश कुमार पुत्र के.सी. हि. 1/4 जाति महाजन नि. 862/6 महरोली नई दिल्ली
				5427	निजी	बारानी 1	34	मुकेश कालीधरण राजू पि. भगवान प्रभाती बेवा भगवान हि. 1/2 बंशीधर पुत्र नाथू खटीक सा. देह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5430	निजी	बारानी 1 आबादी	173	भगवान सहाय पुत्र नाथू हि. 60/120 बंशीधर पुत्र नाथू हि. 7/120 कौम खटीक सा. देह चन्द्रसेखर पहाडिया पुत्र नवरंगलाल पहाडिया जाति खटीक नि. चार दरवाजा बहार मंडी खटीकान जयपुर 5430/1 रकबा 0.01 गै.मु. आबादी 5430/2 रकबा 0.28 मुकेश कातोवरण राजू पि. भगवान प्रभाती बेवा भगवान हि. 1/2 बंशी पुत्र नाथू हि. 11/14 राकण असवाल पुत्र रामनिवास हि. 3/14 दर हि. 1/2 खटीक
				5431	निजी	वाणिज्य	84	अशोक कुमार पुत्र रामनिवास असवाल जाति खटीक सा. देह खातेदार
				5432	निजी	बारानी 1	10	लालचन्द असवाल पुत्र रामनिवास जाति खटीक सा. देह खातेदार 5432/2 रकबा 0.30 (स्थगन पैससलिय नोट) 5432/2 रकबा 0.30
				5436	निजी	बारानी 1	424	5436/1 रकबा 0.14 लालचन्द पुत्र रामनिवास असवाल कौम खटीक 5436/2 रकबा 0.81 हरिनारायण पुत्र साधू हि. 80/122 साधुराम पुत्र बीजाराम हि. 16/122 कौम खटीक वजीर खों पुत्र मस्ती खों हि. 28/122 मुसलमान सा. देह 5436/3 रकबा 0.08 सुरती भारद्वाज पत्नी श्री लालचन्द नि. 3 ख जे.सी. जवाहर नगर जयपुर
				5437	निजी	बारानी 1	85	हरिनारायण पुत्र साधू हि. 80/122 साधुराम पुत्र बीजाराम हि. 16/122 कौम मुसलमान सा. देह खातेदार
				5438	निजी	बारानी 1 बाणिज्य	197	श्रीमती श्रुति भारद्वाज पति लालचन्द असवाल नि. 3 ख 5 सी. जवाहर नगर जयपुर 5438/1 रकबा 0.38 लालचन्द पुत्र रामनिवास असवाल कौम खटीक संवर्धितन बाणिज्यक पटौल पय प्रयोजनार्थ 2825 वर्ग मीटर ख.नं. 5438/2 रकबा 0.30
				5439	निजी	बारानी 1	159	विश्वारी लाल पुत्र सुपडावाम कौम रैर सा. देह खातेदार 5439/1 रकबा 0.17 5439/2 रकबा 0.17 सिंगमारी बेवा लक्ष्मीनारायण मदनलाल रमेश चन्द पि. लक्ष्मीनारायण रैर 5439/3 रकबा 0.03 सिंगमारी बेवा लक्ष्मीनारायण मदनलाल रमेशचन्द पि. लक्ष्मीनारायण हि. 1/2 विश्वारी लाल पुत्र सुपडावाम हि. 1/2 जाति रैर
				5440	निजी	बारानी 1	153	ईसर पुत्र रुपा कौम रैर सा. देह खातेदार 5440/1 रकबा 0.10 रामसरूप पुत्र रुपा रैर 5440/2 रकबा 0.10
				5455	सरकारी	गैर मुस्किन	53	सरकारी गै.मु.
				5456	सरकारी	गैर मुस्किन	113	सरकारी गै.मु.
				7938	निजी	बारानी 1	75	रामदास कालु श्रवण पि.0 मुरली हि.0 3/5 हि.ब. राजेन्द्र कुमार गोपाल लाल पि.0 मैवरा गुलाबी बेवा मैवरा हि. 1/5 हि.ब. सत्तराम पि. सरदाया तीजा बेवा सरदास हि.0 1/5 कौम कुम्हार सा.0 देह खातेदार
				7945	निजी	बारानी 1	60	रामदास कालु श्रवण पि.0 मुरली हि.0 3/5 हि.ब. राजेन्द्र कुमार गोपाल लाल पि.0 मैवरा गुलाबी बेवा मैवरा हि. 1/5 हि.ब. सत्तराम पि. सरदाया तीजा बेवा सरदास हि.0 1/5 कौम कुम्हार सा.0 देह खातेदार
				7946	निजी	बारानी 1	80	रामदास कालु श्रवण पि.0 मुरली हि.0 3/5 हि.ब. राजेन्द्र कुमार गोपाल लाल पि.0 मैवरा गुलाबी बेवा मैवरा हि. 1/5 हि.ब. सत्तराम पि. सरदाया तीजा बेवा सरदास हि.0 1/5 कौम कुम्हार सा.0 देह खातेदार
				7948	निजी	बारानी 1	198	सुखदा असवाल पति बंशीधर कौम खटीक सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7949	निजी	बारानी 2 आबादी	204	रामकिशोर प्रजापत पुत्र हनुमान सहाय प्रजापत हि. 17/20 जाति कुम्हार 7949/3 रकबा 0.17 सा. देह खातेदार प्रहलाद सहाय पुत्र नारायण सहाय क. गरीब जाति जाट हि. 3/2 सा. खोसला सा. खातेदार 7949/1 रकबा 0.03 7949/2 रकबा 0.04 गंगाराम पुत्र ग्याना रंगर नि. मोती नगर खाडी पार्क भिवन्डी महाराष्ट्र
				7952	निजी	बारानी 2	130	केशराम पुत्र रुडाराम कोम रंगर सा. देह खातेदार
				7953	निजी	बारानी 2	93	अण्ण्णी पत्नि केशराम कोम रंगर सा. देह
				7954	सरकारी	बारगाह	92	बरागाह सरकारी
				8008	सरकारी	बा का चराई	13	सिवायचक
				8009	निजी	बारानी 3	156	सुरजमान मूलचन्द राकेश रतन पि. रामकिशोर मूलचन्द राकेश रतन ना. बा. संरक्षिका माता खुद बिदामी बेवा रामकिशोर हि. 1/2 जयसाम पुत्र फकीर हि. 1/2 जाति भीणा सा. देह खातेदार
				8010	निजी	बारानी 2	55	मदनलाल पुत्र रामदास हि. 1/8 जाति बहमण बिदामी बेवा रामकिशोर पत्नी देवी पत्नि जयसाम हि. 3/8 जाति भीणा सुरजमान मूलचन्द राकेश रतन पि. रामकिशोर ना. बा. संरक्षिका माता खुद बिदामी बेवा रामकिशोर मु. बिदामी बेवा रामकिशोर मूलचन्द राकेश रतन हि. 1/4 जयसाम पुत्र फकीर हि. 1/4 जाति भीणा सा. देह
				8011	निजी	बारानी 2	73	मदनलाल पुत्र रामदास हि. 1/8 जाति बहमण बिदामी बेवा रामकिशोर पत्नी देवी पत्नि जयसाम हि. 3/8 जाति भीणा सुरजमान मूलचन्द राकेश रतन पि. रामकिशोर ना. बा. संरक्षिका माता खुद बिदामी बेवा रामकिशोर मु. बिदामी बेवा रामकिशोर मूलचन्द राकेश रतन हि. 1/4 जयसाम पुत्र फकीर हि. 1/4 जाति भीणा सा. देह
				8012	निजी	बारानी 2	28	मदनलाल पुत्र रामदास हि. 1/8 जाति बहमण बिदामी बेवा रामकिशोर पत्नी देवी पत्नि जयसाम हि. 3/8 जाति भीणा सुरजमान मूलचन्द राकेश रतन पि. रामकिशोर ना. बा. संरक्षिका माता खुद बिदामी बेवा रामकिशोर मु. बिदामी बेवा रामकिशोर मूलचन्द राकेश रतन हि. 1/4 जयसाम पुत्र फकीर हि. 1/4 जाति भीणा सा. देह
				8015	निजी	चाही 2 बारानी 2	221	मदनलाल वमरहा बा. 8010
				8017	सरकारी	गैर मुमकिन नदी	97	सिवायचक
				8018	निजी	बारानी 3	136	चेतराम जवाहर भीणा नि. करेरी खातेदार
				8022	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	98	सिवायचक
				8024	निजी	बारानी 3	201	गोविन्दा पुत्र टीकूडा हि. 2/3 धापा देवी बेवा बिरदूयाम व जीतू पुत्र बिरदूयाम हि. 1/3 कोम कुम्हार सा. देह
				8025	निजी	बारानी 3	322	चेतराम जवाहर भीणा नि. करेरी खातेदार
				1534 / 8443	निजी	चाही 2	500	कैलाश चन्द दलतक पुत्र नारायण हि. 989/1089 कोम गुरजर बालाराम पुत्र मोरी लाल जामिंद सा. देह 100/1089 दर हि. 1/2 बालाराम सोहन लाल अमरचन्द पुत्र गुल्ला हि. 1/2 हि. ब. कोम गुरजर सा. देह
				8007 / 8515	निजी	बा का चराई	159	साधूराम पुत्र दयाल जाति खटोक सा. देह खातेदार
				8023 / 8705	निजी	बारानी 3	52	फूली देवी पत्नि गोविन्दराम जाति प्रजापत सा. देह खातेदार
				8023 / 8726	सरकारी	बारानी 3	132	सिवायचक

1	2	3	4	5	6	7	8
				8023/8727	निजी	बारानी 3	417
						कुल	21786
			2. नवलपुर	1554	निजी	बारानी 1	240
				1561	निजी	बारानी	192
				1562	निजी	राजिज्य पैट्रोल पम्प	272
				1565	निजी	बारानी 1	176
				1566	निजी	बारानी 1	261
				1567	निजी	बारानी	246
				1591	निजी	बारानी 1 बाही 1 जाब 1	168
				1592	निजी	बारानी 1 बाही 1 जाब 1	95
				1593	निजी	बारानी 1 बाही 1 जाब 1	66
				1594	निजी	बाही 1 जाब 1	148
				1597	निजी	बारानी 1	156
				1598	निजी	बारानी 1	158
				1598	निजी	बाही 2 जाब 2	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1609	निजी	चाही 1 जाव 1	265	इन्द्र कुमार् पुत्र जगदीश प्रसाद महाजन सा. मनोहरपुर साधू काना पि. मांगू 2/3 अहीर सा. देह
				1610	निजी	चाही 1 जाव 1	184	इन्द्र कुमार् पुत्र जगदीश प्रसाद महाजन सा. मनोहरपुर सा. देह
				1611	निजी	चाही 1 जाव 1	53	साधू नारायण पि. रामनाथ 1/3 हनुमान अर्जुन गोपाल पि. लक्ष्मण हि. 1/6 मैरू बालू पि. भूरा हि. 1/3 राजेन्द्र प्रकाश दुभाष पि. मोती कोरलया पत्नी मोती हि. 1/6 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				1873	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	32	सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक
				1874	निजी	बंजर पूला	361	हनुमान सहाय श्यामलाल रामकरण पि. सेतू हि. 31/56 मुली युसा पि. साधू हि. 0.0625/56 रुडा गिरधारी सीताराम पि. नाथू हि. 0.0625/56 गालीराम पुत्र छोटे विरदी बेवा छोटे हि. 0. 1250/56 अहीर सा. देह
				1945	सरकारी	गैर मुमकिन नाला	246	सिवायचक गै.मु. नाला
				1947	सरकारी	गैर मुमकिन सडक	22	सार्वजनिक निर्माण विभाग सडक
				1948	निजी	बंजर पूला	197	मैरू बालू पि. भूरा 2/3 छोटी देवी पत्ति बालूराम 1/3 अहीर सा. देह
				1949	निजी	बारानी 2	44	छोतरमल पुत्र बिरदाराम जाट पि. डावडी तह. आमेर खातेदार
				1955	निजी	बंजर पूला	422	छोतरमल पुत्र बिरदाराम जाट पि. डावडी हि. 500/2900 तह. आमेर साधू नारायण पि. रामनाथ 1433/2900 तीजा पत्ति लक्ष्मण हनुमान अर्जुन गोपाल पि. लक्ष्मण 967/2900 अहीर सा. देह
				1956	निजी	बारानी 2	200	मैरू पुत्र भूरा 2/3 बालू पुत्र भूरा 1/3 अहीर सा. देह
				1975	निजी	बारानी 2	47	कोरलया पत्ति मोती राजेन्द्र प्रकाश सुभाष पि. मोती 1467/3500 मैरू पुत्र भूरा 886/3500 बालू पुत्र भूरा 1167/3500 अहीर सा. देह
				1976	निजी	बंजर 1	297	साधू नारायण पि. रामनाथ 2/3 हनुमान अर्जुन गोपाल पि. लक्ष्मण 1/3 अहीर कोम सा. देह
				1977	निजी	बंजर	153	साधू नारायण पि. रामनाथ 2/3 हनुमान अर्जुन गोपाल पि. लक्ष्मण 1/3 अहीर कोम सा. देह
				1979	निजी	बारानी 1	159	प्रभात बशी कजोड पि. श्यानाथ मु. सन्ती पत्ति रामेश्वर गिरधारी प्रलाद पि. रामेश्वर ममता पुत्री रामेश्वर हि. 1/4 मैरू बालू पि. भूरा कोरलया पत्ति मोती राजेन्द्र प्रकाश सुभाष पि. मोती हि. 1/4 हनुमान अर्जुन गोपाल पि. लक्ष्मण साधू नारायण पि. रामनाथ हि. 1/2 अहीर सा. देह
				1980	निजी	बारानी 1	1301	प्रभात बशी कजोड पि. श्यानाथ मु. सन्ती पत्ति रामेश्वर गिरधारी प्रलाद पि. रामेश्वर ममता पुत्री रामेश्वर हि. 1/4 सा. देह राधेराम लैण्ड डेवलपर्स डाइरेक्टर मुकेश कुमार छीपा पुत्र राधेराम छीपा निवासी मं. 3994 बी नाहरगढ रोड पुनानी बस्ती जयपुर हि. 1/4 हनुमान अर्जुन गोपाल पि. लक्ष्मण साधू नारायण पि. रामनाथ हि. 1/2 अहीर सा. देह
				1981	निजी	बारानी 1	836	प्रभु पुत्र दिलीका 1/3 हेमू रामू पि. झुआ मल्लर देव झुआ 1/3 फूलचन्द मल्लचन्द मानराम मल्लचन्द पि. चन्दा तेजसराम पुत्र बिरदीचन्द तेजसरानी बेवा बिरदीचन्द कोरलया पुत्री बिरदीचन्द प्रभाती चापा रामेश्वरी सुरगीला पुत्रिया चन्दा नाथी बेवा चन्दा 1/3 अहीर सा. देह
				2009	निजी	चाही 2 जाव 2 बारानी 1	14	रामचन्द रुडाशाम जगदीश मंगल गोपाल पि. सेतू 1/3 साधू पि. मांगू 1/3 काना पुत्र मांगू हि. 1/12 कोम अहीर सा. देह धूणीनाल पुत्र बूरी प्रसाद पि. मेद हि. 1/4 अहीर

1	2	3	4	5	6	7	8
				2010	निजी	बाही 2 जाव 2 बारानी 1	131
				2011	निजी	बारानी 2 इंजर पूला	20
				2045	निजी	इंजर	54
				2048	निजी	इंजर	38
				5421	सरकारी	कुल	7274
				5458	निजी	बारानी 1	1005
				5460	सरकारी	गैर मुनिकिन रास्ता	343
				5461	निजी	बारानी 1	782
				5462	निजी	अवतीय प्रयोजनाय	72
				5473	निजी	बारानी 1	186
				5475	निजी	बारानी 1	1025
				5476	निजी	बारानी 1	1061
				5477	निजी	बारानी 1	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				5478	निजी	बारानी 1	1204	मकखनी देवी पति छैतरमल कोम जाट सा. खोरी लाडखानी खातेदार हि. 1/2 प्रमाती देवी पति हनुमान. प्रसाद हि. 1/2-कोम जाट 5478/1 रकबा 0.10 मवजनी देवी पत्नी छैतर हि. 2295/2350 खोराडखानी कमला पत्नी रामचन्द्र खटीक हि. 55/2350 दर हि. 1/2 प्रमाती देवी पत्नी हनुमान प्रसाद हि. 1/2 कोम जाट खोराडखानी 5478/2 रकबा 0.47 गै.मु. आबादी 0.10
				5479	निजी	बारानी 1	1384	हरिनारायण पुत्र साधुराम हि. 80/122 साधुराम पुत्र बीजाराम हि. 16/122 कोम खटीक सा. देह वजीर खों पुत्र मिश्री खों हि. 26/122 कोम मुसलमान सा. देह खातेदार (स्टे पेनसलिंग नोट)
				7390	निजी	बारानी 1	251	इस्माईल खों पुत्र अहमद खों सा. मनोहरपुर 7390/1 7390/2 सलीम कुमार पुत्र लक्ष्मण मीणा हि. 200/7200 कोम मीणा सा. रामपुर चौहान बानसूर अलवर छोटी पत्नी बाबुलाल मीणा जाति मीणा. नि. सांगाका बास तह. आमेर हि. 200/8470 रामकिशोर प्रजापत घे हनुमान सहाय प्रजापत हि. 191. 60/7200 जाति कुमार सा. मनोहरपुर शेष दिनेश पुत्र गणपत लाल शर्मा 6456.80 7390/3 रोहिताया सेनी रामकिशोर सेनी पि. रमसुराम सेनी हि. 351.80/7200 जाति माली नि. नवलपुरा महेश कुमार पुत्र सुगलाल अस्वाल सुनिल पुत्र मागीरथ अस्वाल हि. 268.70/7200 ब.हि.ब. जाति खटीक नि. शिवकालोनी मनोहरपुर रामकिशोर सेनी पुत्र रमसू सेनी हि. 27.70/7200 जाति माली नि. डीबा वाली डाणी नवलपुरा शेष दिनेश पुत्र गणपतलाल शर्मा नि. बगवाडा
				7391	निजी	बारानी 1	1946	इस्माईल खों पुत्र अहमद खों सा. मनोहरपुर 7391/2 दिनेश कुमार पुत्र रं. गणपती लाल शर्मा नि. गम बगवाडा तह. आमेर हि. 96/98
				7392	निजी	बारानी 1	33	7392/1 रकबा 0.40 आवासीय महेश कुमार रेगर पुत्र शंकरलाल रेगर सा. अरनिया तह. आमेर हि. 170/4800 हनुमान सहाय पुत्र रामसहाय घोडी 4290/4800 देवकि खजौतिया पत्नी रामजीलाल खजौतिया रेगर नि. शांतीनगर हि. 170/4800 भवानी शंकर मोहनपुरिया पुत्र राधेश्याम मोहनपुरिया हि. 170/4800 रेगर नि. शांतीनगर मनोहरपुर 7392/2 नवलकिशोर पुत्र रं. खेमचन्द रेगर नि. प्लाट नं. सी 286 महेश नगर जयपुर हि. 170/3360 शेष हनुमान सहाय पुत्र रामसहाय घोडी 7392/3 रकबा 00.5 वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हनुमान सहाय पुत्र रामसहाय घोडी
				7920	निजी	बारानी 2	745	विदानी बेवा रामकिशोर पतासी पत्नी जयराम हि. 3/8 जाति मीणा मदन लाल बीरबल शंकरलाल रामशरण पि. रामदास मूलचन्द राकेश रतन पि. रामकिशोर मूलचन्द राकेश रतन ना.बा. संरक्षिका माता खुद विदानी बेवा रामकिशोर हि. 1/4 जयराम पुत्र फकीरा हि. 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार
				7921	निजी	चाही 2	349	विदानी बेवा रामकिशोर पतासी पति जयराम हि. 3/8 जाति मीणा मदन लाल बीरबल शंकरलाल रामशरण पि. रामकिशोर मूलचन्द पि. रामकिशोर विदानी बेवा रामकिशोर हि. 1/4 जयराम पुत्र फकीरा हि. 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार
				7922	निजी	बारानी 2 जाव 2	1608	विदानी बेवा रामकिशोर पतासी पति जयराम हि. 3/8 जाति मीणा मदन लाल बीरबल शंकरलाल रामशरण पि. रामकिशोर मूलचन्द पि. रामकिशोर विदानी बेवा रामकिशोर हि. 1/4 जयराम पुत्र फकीरा हि. 1/4 जाति मीणा सा. देह खातेदार
				7923	निजी	बारानी 3	115	सुरेश कुमार पुत्र रामदेव जाति बलाई नि. माफत सी. 9 होटल अमूल कांलपुरा लिंक रोड जयपुर (राज.)खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				7933	निजी	बारानी 1	396	रामदास कालू शरण पि. मुरली हि. 3/5 राजेन्द्र कुमार पुत्र शंकर मु. गुलाबी बेवा शंकरा हि. 2/15 गोपाल लाल पुत्र शंकर, हि. 1/15 सतराम पुत्र सतराम मु. लीजा बेवा सतराम; हि. 1/5 कोम कुमार सा. देह खातेदार
				7935	निजी	बारानी 1	975	मोहिन्दा पुत्र टीरु कोम कुमार सा. देह खातेदार
				7936	निजी	बारानी 1	520	दुलसीराम पुत्र रामचन्द्र हि. 1/3 मालीराम भागीरथ पि. गंगू हि. 2/3 कोम कुमार सा. देह
				7937	सरकारी	बारानी 1	250	पीठबन्धुजी
				8027	निजी	बारानी 3	793	मालीराम बख्शालाल गजानन्द पि. छीतर मु. फतासी बेवा छीतर मल हि. 1/2 कोम खाती रमेशचन्द्र पुत्र रामचन्द्र शर्मा कोम कटिया सिंगार तह. औरिया जिला इटावा यु.पी. 1/2 (ख.नं. ग्राम मनौरपुर में है।)
				8028	निजी	बारानी 3	832	प्रतापद राम पुत्र शंकरावर कोम मीना सा. पुरना बास तह. नौमकाथाना जिला सीकर हाल पि. हरि शर्मा मालवीय नगर जयपुर 8028/1 रकबा 0.05 मै.मु. आबादी रोष बावनी
				8031	निजी	बारानी 3	28	रुपनाथशरण जवनाशरण पि. दीसाशरण कोम खटीक सा. देह (स्ट. पेंसिलींग नोट)
				8032	निजी	बारानी 3	152	मालीराम पुत्र बन्दा कोम खटीक सा. देह 8032/1 रकबा 0.09 अशोक कुमार पुत्र समनिरास अस्माल खाती खटीक 8032/2 रकबा 0.16 मै.मु. आबादी
				8034	निजी	बारानी 3	105	सत्यनारायण संपन्नसुखन बालकृष्ण पि. दीसा लाल कोशल कुमार मा.बा. पुत्र टेकचन्द आसी कलित मुन्निम टेकचन्द बिलास कल्या पति टेकचन्द माता मा.बा. कल्या पति टेकचन्द कोम खटीक सा. हाल जयपुर
				8035	निजी	बारानी 3	709	हेराशरण पुत्र जयशंकर मीना पि. करौरी
				8045	निजी	बारानी ए	1957	कमल मीना पति प्रतापद राम मीना सा. पुरना बास तह. नौमकाथाना सीकर खातेदार 8045/1 रकबा 0.23 सतराम पुत्र शंको कोम मीना 8045/2 रकबा 0.28
				8050	निजी	बाही 2 जाब 2	348	सतराम पुत्र शंको कोम मीना सा. देह खातेदार
				7924 / 8008	सरकारी	बंजर	500	सिवायक
						पुन	20473	
			4. प्रतापपुरा	2024	निजी	बारानी 2 बंजर	55	जन्म श्री जयपुरजी खातेदार
				2025	निजी	बंजर 1	80	निधिर श्री जयपुरजी खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2029	निजी	बाराही 2	203	<p>मोहम्मद शफील अब्दुल खलील पि. मोहम्मद हि. 119.73/457.50 कौम मुसलमान अब्दुल समद पुत्र हकीज हाजी हि. 337.77/457.50 दर हि. 1/16 मुसलमान सा. 848 बास बदनपुरा जयपुर जगदीश प्रसाद यादव पुत्र ओमकार यादव सा. देह हि. 1/48 नारायण बोदु मोहन जगदीश पि. ओमकार संजया बेवा ओमकार हि. 1/12 हरदेव घीसा पि. रुडा हि. 2/12 बाहि. ब. बालासहाय प्रहलाद भीवा राम पि. चैना हि. 3/36 भगवान सहाय पि. चैना हि. 2/36 भगवान प्रहलाद भीवास चैना हि. 1/36 लक्ष्मण पुत्र खाना हि. 1/6 बिला राहिन मोलाराम मालीराम महावीर प्रसाद अभीवन्द पि. सोना सरसा बेवा सोना हि. 1/6 राहिन जयपुर नागीर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर मुन्हीन रामदयाल कालुराम सीताराम पि. सुसारम हि. 1/10 रामजीलाल जगदीश प्रसाद रामरिछपाल पि. भगवान सहाय यादव जाति अहीर हि. 27/182 निवासी शेपुरा हि. ब. हि. तह. शाहपुरा रामरीछपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति अहीर हि. 27/182 निवासी शेपुरा हि. ब. हि. तह. सहाय जाति अहीर पि. घासीपुरा हि. 47/240 दर हि. 1/15 मदनलाल पुत्र दूलाराम यादव सा. देह हि. 1/28 अशोक कुमार परीक पुत्र दुर्गा बत्स परीक सा. शाहपुरा हि. 1/9 गोदाराम पुत्र बशीर जाट सा. विमनपुरा हि. 1/4 साधुराम पुत्र घीसाराम यादव हि. 1/20 बशीर पुत्र भगवान सहाय सा. देह हि. 1/26 उदयसिंह पुत्र झुंगाराम यादव सा. देह हि. 1/14 सखुवार पुत्र साधुराम सा. देह हि. 1/40 मुसरी पुत्र साधुराम सा. देह हि. 1/24 छीतर पुत्र घीसा हि. 1/56 ग्यास्सीलाल घुणीलाल पुत्र रामनाथ जाति यादव सा. नाथावाला हि. 1/65 दर हि. 1/15 खालेदार</p>
				2030	निजी	बाराही 2	60	<p>मोहम्मद शफील अब्दुल खलील पि. मोहम्मद हि. 119.73/457.50 कौम मुसलमान अब्दुल समद पुत्र हकीज हाजी हि. 337.77/457.50 दर हि. 1/16 मुसलमान सा. 848 बास बदनपुरा जयपुर जगदीश प्रसाद यादव पुत्र ओमकार यादव सा. देह हि. 1/48 नारायण बोदु मोहन जगदीश पि. ओमकार संजया बेवा ओमकार हि. 1/12 हरदेव घीसा पि. रुडा हि. 2/12 बाहि. ब. बालासहाय प्रहलाद भीवा राम पि. चैना हि. 3/36 भगवान सहाय पि. चैना हि. 2/36 भगवान प्रहलाद भीवास चैना हि. 1/36 लक्ष्मण पुत्र खाना हि. 1/6 बिला राहिन मोलाराम मालीराम महावीर प्रसाद अभीवन्द पि. सोना सरसा बेवा सोना हि. 1/6 राहिन जयपुर नागीर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर मुन्हीन रामदयाल कालुराम सीताराम पि. सुसारम हि. 1/10 रामजीलाल जगदीश प्रसाद रामरिछपाल पि. भगवान सहाय यादव जाति अहीर हि. 27/182 निवासी शेपुरा हि. ब. हि. तह. शाहपुरा रामरीछपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति अहीर हि. 27/182 निवासी शेपुरा हि. ब. हि. तह. सहाय जाति अहीर पि. घासीपुरा हि. 47/240 दर हि. 1/15 मदनलाल पुत्र दूलाराम यादव सा. देह हि. 1/28 अशोक कुमार परीक पुत्र दुर्गा बत्स परीक सा. शाहपुरा हि. 1/9 गोदाराम पुत्र बशीर जाट सा. विमनपुरा हि. 1/4 साधुराम पुत्र घीसाराम यादव हि. 1/20 बशीर पुत्र भगवान सहाय सा. देह हि. 1/26 उदयसिंह पुत्र झुंगाराम यादव सा. देह हि. 1/14 सखुवार पुत्र साधुराम सा. देह हि. 1/40 मुसरी पुत्र साधुराम सा. देह हि. 1/24 छीतर पुत्र घीसा हि. 1/56 ग्यास्सीलाल घुणीलाल पुत्र रामनाथ जाति यादव सा. नाथावाला हि. 1/65 दर हि. 1/15 खालेदार</p>

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			कल्याणपुर	2098	निजी	बारानी 1	698	त्रिलोक पुत्र गोपी कौम अहीर सा. देह खातेदार भवा पत्नी भागीरथल यादव जाति अहीर नि. मनोहरपुर राये.वरी देवी पत्नी जगन्नाथ प्रसाद यादव जाति अहीर नि. मुन्दरकावास तह. आभेर खातेदार हि. 23/42 रामू पुत्र गोपी हि. 19/42 कौम अहीर सा. देह खातेदार
				2099	निजी	बारानी 1	666	बोदू पुत्र गोपी कौम अहीर सा. देह खातेदार
				2147	निजी	बारानी 1	73	मैरुलाल पु. मंगाराम हि. 1/3 राहिन जयपुर नागीर आ. ग्रामीण बैंक शाखा मनोहरपुर त्रिलोक पु. गोपी हि. 1/9 बोदुराम रामू पि. गोपी हि. 2/9 बदी सीताराम धोलूराम ओमप्रकाश अर्जुन पि. चौधू ना.बा. संखक माता मुगी पत्नी चौधू हि. 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार
				2148	निजी	बारानी 1	711	बदी सीताराम धोलूराम ओमप्रकाश अर्जुन पि. चौधू मुगी पत्नी चौधू हि. 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार
				2149	निजी	बारानी 1	1083	बदी सीताराम धोलूराम ओमप्रकाश अर्जुन पि. चौधू मुगी पत्नी चौधू हि. 1/3 कौम अहीर सा. देह खातेदार
				2150	निजी	चाही 2	1459	मैरुलाल पुत्र मंगाराम कौम अहीर
				2220	निजी	बारानी 1	40	बदी पुत्र महादेव मुन्ना पुत्र महादेव कौम अहीर सा. देह
				2248	निजी	बारानी 1	2181	ज्योती गुप्ता पत्नि विवेक अग्रवाल जाति महाजन नि. आचार्य कृपलानी रोड ज्योति स्कूल के पास आदर्श नगर दिल्ली लोकेन्द्र सिंह रावत पुत्र विजय सिंह रावत जाति गुर्जर सा. सांगानेर जिला जयपुर खातेदार रामसहाय पुत्र छोदू कौम अहीर सा. देह खातेदार राहिन ओ.बी.सी. बैंक शाखा शाहपुरा फुलहीन
				2249	निजी	बारानी 1	1013	सुखदेवी पुत्र गोविन्दा उर्फ गोपाल कौम अहीर सा. देह खातेदार
				2250	सरकारी	रो.मु. रास्ता	202	सिवायचक रो.मु. रास्ता
				2251	निजी	बारानी 1	15	जगदीश प्रसाद यादव पु. ओमकार नि. ढाणी अन्नावाला तन मनोहरपुर हि. 1/48 इरफान खॉ पुत्र अब्दुल सलीम खॉ जाति मुसलमान नि. मनोहरपुर हि. 3/48 नारायण बोदू मोहन जगदीश पि. ओमकार संज्या बैवा ओमकार हि. 1/12 हरदेव पीसा पि.रुका हि. 2/12 बहि.ब. बालासहाय पुत्र चैना हि. 1/36 भगवानसहाय पुत्र चैना हि. 1/36 कौम अहीर प्रहलाद भगवान सहाय भीवाराम पि. चैना हि. 1/9 लक्ष्मण खोंगा हि. 1/6 भोलाराम मालीराम महावीर प्रसाद अमीचन्द पि. सोना सरसा बैवा सोना हि. 1/6 रामदयाल कांलूराम सीताराम पि. सुसाराम हि. 3/30 रामजीलाल जगदीश प्रसाद रामरिछपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति अहीर निवासी शेरपुरा हि. 27/182 दर हि. 1/15 रामछिपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति निवासी शेरपुरा व सुहैसिंह यादव पुत्र भगवान सहाय यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा हि. 47/240 दर हि. 1/15 मदनलाल पुत्र दुलाराम यादव निवासी प्रतापपुर मनोहरपुर हि. 1/28 अशोक कुमार पारीक पुत्र दुर्गाबक्स पारीक निवासी शाहपुरा हि. 1/9 गोदाराम पुत्र बशीर जाति जाट निवासी विमनपुरा हि. 1/4 साधुरा पुत्र घीसाराम यादव निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर हि. 1/20 बशीर पुत्र भगवान सहाय निवासी मनोहरपुर हि. 1/26 उदयसिंह पुत्र डूंगराम यादव निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर हि. 1/14 रामकुमार पुत्र साधुराम यादव नि. मनोहरपुर हि. 1/40 मुरारी पुत्र साधुराम यादव निवासी मनोहरपुर हि. 1/24 छीतर पुत्र घीसा निवासी मनोहरपुर हि. 1/56 ग्यारसीलाल धूणीलाल पि. रामनाथ यादव निवासी ग्राम नाथावाला हि. 1/65 दर हि. 1/15 खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2252	निजी	बराती 1	354	जगदीश प्रसाद यादव पु. ओमकार नि. डाणी अन्तावाला तन मनोहरपुर हि. 1/48 इरफान खौ पुत्र अर्जुन सलीम खौ जाति मु. अमान नि. मनोहरपुर हि. 3/48 नारायण बोदू मोहन जगदीश पि ओमकार सख्या बैवा ओमकार हि. 1/12 हरदेव घीसा पिरुडा हि. 2/12 ब.हि.ब. बालासहाय पुत्र चैना हि. 1/36 भगवानसहाय पुत्र चैना हि. 1/36 कौम अहीर प्रहलाद भगवान सहाय भीवारम पि. चैना हि. 1/8 लक्ष्मण खंगा हि. 1/6 मोलाराम मलीराम महावीर प्रसाद अमीरन्द पि. सोना सरसा बैवा सोना हि. 1/6 रामदयाल कालूराम सीताराम पि. सुसाराम हि. 3/30 रामजीलाल जगदीश प्रसाद रामरिछपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति निवासी शेरपुरा हि. 27/182 दर हि. 1/15 रामरिछपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति निवासी शेरपुरा व सुबहसिंह यादव पुत्र भगवान सहाय यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा हि. 47/240 दर हि. 1/15 मदनलाल पुत्र दुर्गाबक्स यादव निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर हि. 1/28 दर हि. 1/15 अशोक कुमार पारीक पुत्र दुर्गाबक्स पारीक निवासी शाहपुरा हि. 1/8 दर हि. 1/15 गोदाराम पुत्र बंशीधर जाति जाट निवासी विमनपुरा हि. 1/4 दर हि. 1/15 साधुराम पुत्र भगवान सहाय निवासी मनोहरपुर हि. 1/28 दर हि. 1/15 उदयसिंह पुत्र दुर्गााराम यादव निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर हि. 1/14 दर हि. 1/15 रामकुमार पुत्र साधुराम यादव नि. मनोहरपुर हि. 1/40 दर हि. 1/15 मुनरी पुत्र साधुराम यादव निवासी मनोहरपुर हि. 1/24 दर हि. 1/15 छीतर पुत्र घीसा निवासी मनोहरपुर हि. 1/58 दर हि. 1/15 ग्यारसीलाल धूनीलाल पि. रामनाथ यादव निवासी ग्राम नाथावाला हि. 1/65 दर हि. 1/15 खातेदार
				2253	निजी	बराती 1	390	जगदीश प्रसाद यादव पु. ओमकार नि. डाणी अन्तावाला तन मनोहरपुर हि. 1/48 इरफान खौ पुत्र अर्जुन सलीम खौ जाति मु. अमान नि. मनोहरपुर हि. 3/48 नारायण बोदू मोहन जगदीश पि ओमकार सख्या बैवा ओमकार हि. 1/12 हरदेव घीसा पिरुडा हि. 2/12 ब.हि.ब. बालासहाय पुत्र चैना हि. 1/36 भगवानसहाय पुत्र चैना हि. 1/36 कौम अहीर प्रहलाद भगवान सहाय भीवारम पि. चैना हि. 1/9 लक्ष्मण पुत्र खंगा हि. 1/6 मोलाराम पुत्र सोनाराम हि. 87/149 ग्यारसीलाल धूनीलाल पि. रामनाथ यादव नि. अहीर सा. नाथावाला हि. 62/149 दर हि. 1/30 मलीराम महावीर प्रसाद अमीरन्द पि. सोना सरसा बैवा सोना हि. 2/15 रामदयाल कालूराम सीताराम पि. सुसाराम हि. 3/30 रामजीलाल जगदीश प्रसाद रामरिछपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति अहीर निवासी शेरपुरा हि. 27/182 दर हि. 1/15 रामरिछपाल पुत्र भगवान सहाय यादव जाति निवासी शेरपुरा व सुबहसिंह यादव पुत्र भगवान सहाय यादव जाति अहीर निवासी घासीपुरा हि. 47/240 दर हि. 1/15 मदनलाल पुत्र दुर्गाबक्स पारीक निवासी शाहपुरा हि. 1/8 गोदाराम पुत्र बंशीधर जाति जाट निवासी विमनपुरा हि. 1/4 साधुराम पुत्र घीसाराम यादव निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर हि. 1/20 बंशीधर पुत्र भगवान सहाय निवासी मनोहरपुर हि. 1/26 उदयसिंह पुत्र दुर्गााराम यादव निवासी प्रतापपुरा मनोहरपुर हि. 1/14 रामकुमार पुत्र साधुराम यादव नि. मनोहरपुर हि. 1/40 मुनरी पुत्र साधुराम यादव निवासी मनोहरपुर हि. 1/24 छीतर पुत्र घीसा निवासी मनोहरपुर हि. 1/58 ग्यारसीलाल धूनीलाल पि. रामनाथ यादव निवासी ग्राम नाथावाला हि. 1/65 दर हि. 1/15 खातेदार
				2255	निजी	बराती 1	34	प्रेमलता मालपानी पति बालकिशोर मालपानी जाति महाजन नि. ग्राम हरमाडा हि. 2/3 आंचल मालपानी पत्नी अमित मालपानी जाति महाजन हि. 1/6 निवासी हरमाडा राह. आनेर लक्ष्मण पुत्र खंगा हि. 1/29 प्रहलाद पुत्र चैना हि. 383/2800 कौम अहीर सा. देह
						कुल	8919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. उदाबाला	2260	निजी	बारानी बंजर	672	ईश्वर पुत्र सेठू हि. 4 आना हरदेव पु. रुडा हि. 1/4 नारायण मोहन जगदीश पि. ओमकार संज्या बेवा ओमकार हि. 1/5 हि. ब. कोम अहीर अग्रवाल पु. जगदीश प्रसाद अग्रवाल हि. 1/20 देवू पु. हरदेव हि. 1/4 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2263	निजी	बारानी प्रथम	1095	श्रीराम पुत्र हरदेव हि. 1/2 कन्हैयालाल पु. हरदेव हि. 1/2 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2265	निजी	बारानी प्रथम	332	ईश्वर पु. सेठू हि. दो आना नारायण बोदू मोहन जगदीश पि. ओमकार संज्या बेवा ओमकार हरदेव पु. रुडा गिरधारी पु. देवू हि. 6 आना हि. ब. देवू पु. हरदेव हि. 8 आना हि. ब. कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2266	निजी	बारानी प्रथम	323	ईश्वर पु. सेठू हि. दो आना नारायण बोदू मोहन जगदीश पि. ओमकार संज्या बेवा ओमकार हरदेव पु. रुडा गिरधारी पु. देवू हि. 6 आना हि. ब. देवू पु. हरदेव हि. 8 आना हि. ब. कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2269	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	84	गै. मु. रास्ता सिवायक
				2275	निजी	बंजर प्रथम	373	भवर प्रभात बन्ना नारायण हनुमान पि. श्योनाथ मु. नाथी बेवा भगवान सहाय सुरेश कुमार पु. भगवान सहाय हि. 1/3 रामचन्द्र जयनारायण मालीराम जगदीश पि. गोपी मु. श्योपुरी बेवा गोपी हि. 1/3 नाथू मोहन मुरली रामनारायण साधूराम कैलाश पि. बल्लू मु. सुरजी बेवा बल्लू हि. 1/3 दर हि. 4/5 प्रहलाद भगवान भीवा पि. बैना नाथी प्रेम पुत्रीयान बैना हि. 1/5 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2276	निजी	बंजर प्रथम	307	भवर प्रभात बन्ना नारायण हनुमान पि. श्योनाथ मु. नाथी बेवा भगवान सहाय सुरेश कुमार पु. भगवान सहाय हि. 1/3 रामचन्द्र जयनारायण मालीराम जगदीश पि. गोपी मु. श्योपुरी बेवा गोपी हि. 1/3 नाथू मोहन मुरली रामनारायण साधूराम कैलाश पि. बल्लू मु. सुरजी बेवा बल्लू हि. 1/3 दर हि. 4/5 प्रहलाद भगवान भीवा पि. बैना नाथी प्रेम पुत्रीयान बैना हि. 1/5 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2283	निजी	बंजर प्रथम	170	भवर प्रभात बन्ना नारायण हनुमान पि. श्योनाथ मु. नाथी बेवा भगवान सहाय सुरेश कुमार पु. भगवान सहाय हि. 1/3 रामचन्द्र जयनारायण मालीराम जगदीश पि. गोपी मु. श्योपुरी बेवा गोपी हि. 1/3 नाथू मोहन मुरली रामनारायण साधूराम कैलाश पि. बल्लू मु. सुरजी बेवा बल्लू हि. 1/3 दर हि. 4/5 प्रहलाद भगवान भीवा पि. बैना नाथी प्रेम पुत्रीयान बैना हि. 1/5 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2284	निजी	बंजर 1	166	भवर प्रभात बन्ना नारायण हनुमान पि. श्योनाथ मु. नाथी बेवा भगवान सहाय सुरेश कुमार पु. भगवान सहाय हि. 1/3 रामचन्द्र जयनारायण मालीराम जगदीश पि. गोपी मु. श्योपुरी बेवा गोपी हि. 1/3 नाथू मोहन मुरली रामनारायण साधूराम कैलाश पि. बल्लू मु. सुरजी बेवा बल्लू हि. 1/3 दर हि. 4/5 प्रहलाद भगवान भीवा पि. बैना नाथी प्रेम पुत्रीयान बैना हि. 1/5 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2388	निजी	बारानी प्रथम	203	मेवा देवी पतिन सुरेश कुमार प्रजापत जति कुन्हार निवाड 30 मनीहरपुर
				2389	निजी	बंजर 1 बारानी	255	समदयाल कपूरराम सीताराम गणपतलाल पि. सुसीराम हि. 1/2 मौलाराम मालीराम महावीर प्रसाद अजीवच पि. सीता मु. सरसा बेवा सोना हि. 1/2 कोम अहीर सा. अन्नाबाला खातेदार
				2413	निजी	चाही उत्तम जाव	62	सीमासिंह रावत पतिन संज्यासिंह रावत जति गूजर सा. सी. टी. एल. बंस स्टैण्ड के पास के पास सींगनेर (जयपुर) खातेदार
				2414	निजी	चाही 2 जाव 2	18	लक्ष्मण पु. खांगा कोम अहीर सा. देह खातेदार
				2420	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	15	गै. मु. रास्ता सिवायक
				2421	निजी	बारानी 1	134	महेश श्री जुगलजी स्थानदेह. खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2427	निजी	घाही 1	75	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2428	निजी	घाही 1	44	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2429	निजी	घाही 1	43	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2430	निजी	घाही 1	108	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2431	निजी	घाही 1	110	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2432	निजी	घाही 1	128	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2433	निजी	घाही 1	85	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2434	निजी	घाही 1	286	मंदिर की पुगलजी स्थानदेह. खातेदार
				2476	निजी	घाही 1	84	मंदिर की देवजी खातेदार
				2477	निजी	घाही 1	61	मंदिर की देवजी खातेदार
				2478	निजी	घाही 1	28	मंदिर की देवजी खातेदार
				2485	निजी	घाही 1	101	मंदिर की गोपीनाथ जी खातेदार
				2486	निजी	घाही 1	28	मंदिर की गोपीनाथ जी खातेदार
				2488	निजी	घाही 1	380	मंदिर की गोपीनाथ जी खातेदार
				2489	निजी	घाही 1	85	मंदिर की गोपीनाथ जी खातेदार
				2531	निजी	घाही 1	283	मंदिर की गोपीनाथ जी खातेदार
				2488/8751	निजी	घाही 1	6889	मंदिर की गोपीनाथ जी खातेदार
						घुल		कैतरी देवा मुरली जीवगधाम पुत्र मुरली हि. 1/2 कोम गुरजर सा. देह सुरेश खुरार पुत्र भवराजल जाति गुरजर सा. शाहपुरा हि. 1/2
			7. खोजाबाला	141	निजी	घाही 1 जाब 1	169	मुली देवी सुलतान बादुराम जीताराम हि. सुलतान अर्जुन लाल पुत्र दूला जाबू पुत्र दूला कोम गुरजर सा. देह
				143	निजी	घाही 1 जाब 1	157	चौसा बाबाजी हि. सननाथ गुरजर सा. देह खातेदार
				150	निजी	घाही 1 जाब 1	143	दोपक खाना पुत्र भीरम खाना जाति पुजाती मुखसिला हि. 9 विद्यापीठ देह सतागली यूजी.
				153	निजी	घाही 1 जाब 1	123	राजौव सिंह पुत्र जगमोहनसिंह जाति राजपूत प. नं. 14 कैलास सुखनगर सिविल लाईन्स जंबपुर
				154	निजी	बारानी ए वाणिज्य	97	मदनलाल गुप्ता पुत्र दुरगमल गुप्ता जाति देसव हि. 9 अक्षय नात अक्षय मनीष कुमार जैन पुत्र सननन्द जैन जाति देसव हि. 29 आर्य नगर अक्षय व होशियार कर्ता रतनचन्द जैन हिन्दू संघका परिसर मदन लाल अक्वाल पुत्र राधेश्याम अक्वाल राधेश काल पुत्र वासदेव अक्वाल जाति देसव
				155	निजी	बारानी ए	96	छाजु देव पुत्र दूला. मुली देवा सुलतान बादुराम जीताराम हि. सुलतान कोम गुरजर सा. देह
				156	निजी	बारानी ए	81	खोसा खेटानी पुत्र गौर लाल खेटानी जाति गुरजर सा. शाहपुरा
				157	निजी	बारानी ए	63	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				412	निजी	बारानी ए	98	खोसा पुत्र जगमोहन खोसा पुत्र लक्ष्मी खोसा सा. देह
				413	निजी	घाही 3 जाब 3	144	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				414	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				415	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				416	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				417	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				418	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				419	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				420	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				421	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				422	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				423	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				424	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				425	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				426	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				427	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				428	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				429	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				430	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				431	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				432	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				433	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				434	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				435	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				436	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				437	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				438	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				439	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार
				440	निजी	घाही 3 जाब 3	171	खननम पुत्र गुर कोम अक्षर सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				494	निजी	बारानी 1	131	सुरीला अग्रवाल पति लालचन्द अग्रवाल जाति महाजन सा. 123 कबीर मार्ग बनी पार्क जयपुर
				495	निजी	बारानी 1	157	सुरीला अग्रवाल पति लालचन्द अग्रवाल जाति महाजन सा. 123 कबीर मार्ग बनी पार्क जयपुर
				522	निजी	बारानी 1	170	मोलासम रामलाल पि. भूरा मुल्ली बेवा भूरा हि. 1/4 हनुमान पुत्र रुडा हि. 1/4 सूजा देवी पति कालू रामवतार रामरतन शिवराम पि. कालू हि. 1/4 डालचन्द मेवाराम पि. हरदेव उमदे बली पि. हरदेव ना.बा. जरिये माता केसरी बेवा हरदेव हि. 1/4 कौम अहीर सा. देह खातेदार
				523	निजी	बारानी 1	170	मोलासम रामलाल पि. भूरा मुल्ली बेवा भूरा हि. 1/4 हनुमान पुत्र रुडा हि. 1/4 सूजा देवी पति कालू रामवतार रामरतन शिवराम पि. कालू हि. 1/4 डालचन्द मेवाराम पि. हरदेव उमदे बली पि. हरदेव ना.बा. जरिये माता केसरी बेवा हरदेव हि. 1/4 कौम अहीर सा. देह खातेदार
						कुल	2315	
		8. बावड़ी जी बाणी		616	निजी	बारानी 3	26	सुवालाल सुन्दरलाल पि. बालूराम कौम खाती सा. देह खातेदार
				617	सरकारी	गैर मुमकिन	41	सिवायचक लगानी
				619	निजी	गैर मुमकिन	13	राव राजेन्द्र सिंह पुत्र रणधीर सिंह जी सा. शाहपुरा
				625	निजी	बारानी 1	133	सरदारमल पुत्र गुल्लाराम जाति मीणा सा. उदवाला तन मनोहरपुर
				626	निजी	बारानी ए	96	लक्ष्मीदेवी पति स्व. हरनाथ नरदा देवी भगतती देवी मुन्नी देवी गीता देवी पुत्री हरनाथ 879/960 लक्ष्मीनारायण पुत्र कजोडमल कौम अहीर हि. 81/960 सा. देह खातेदार
				629	निजी	गैर मुमकिन रास्ता	22	माली मंदिर श्री देव जी वाकि शाहपुरा खातेदार
				632	निजी	चाही 2 जाव 2	112	रुडमल प्रभाती लाल किशनलाल बदीनारायण भगवान सहाय सीताराम ओमप्रकाश राकेश पि. बोदू दाफा बेवा बोदू हि. 1/2 रामप्यारी बेवा मोहनलाल उर्मिला पुत्री मोहनलाल रामबाबु रमेश उर्फ बन्दी पि. मोहनलाल कैलाश सोहनलाल राधेश्याम पि. गोपी गुलाब देवी पत्नी गोपी हि. 1/2 जाति शर्मा
				674	निजी	चाही 1 जाव 1	150	रामदास पुत्र गंगासहाय जाति ब्रह्मण 0.02 मोहनलाल पुत्र बदीनारायण महाजन सा. शाहपुरा 0.14 हि.
				677	निजी	चाही 1	20	रुडमल प्रभाती लाल किशनलाल बदीनारायण भगवान सहाय सीताराम ओमप्रकाश राकेश पि. बोदू दाफा बेवा बोदू हि. 1/2 रामप्यारी बेवा मोहनलाल उर्मिला पुत्री मोहनलाल रामबाबु रमेश उर्फ बन्दी पि. मोहनलाल कैलाश सोहनलाल राधेश्याम पि. गोपी गुलाब देवी पत्नी गोपी हि. 1/2 जाति शर्मा
				679	निजी	चाही 2 जाव 2	132	प्रम देवी पति छीतरमल कौम ब्रह्मण सा. देह खातेदार
				696	निजी	चाही 3	43	जगदीश पुत्र महादेव जाति ब्रह्मण सा. देह खातेदार
				752	निजी	चाही 2 जाव 2	145	बदीनारायण बालासहाय पि. मांगीलाल व मु. मोहरी देवी बेवा मांगीलाल जाति शर्मा सा. देह खातेदार
				753	निजी	गैर मुमकिन सडक	58	राधेश्याम मुल्लीधर मदनलाल पि. चन्दा मु. सुरजी बेवा चन्दा हि. 1/2 मुल्लीधर मदनलाल पि. रामचन्द्र उर्फ चन्दा हि. 1/2 कौम ब्रह्मण सा. देह खातेदार
				754	निजी	चाही 2 जाव 2	691	राधेश्याम मुल्लीधर मदनलाल पि. चन्दा मु. सुरजी बेवा चन्दा हि. 1/2 मुल्लीधर मदनलाल पि. रामचन्द्र उर्फ चन्दा हि. 1/2 कौम ब्रह्मण सा. देह खातेदार
				755	निजी	चाही 2 जाव 2	880	रघोदीन पुत्र जगन्नाथ हि. 1/2 रामेश्वर प्रसाद पुत्र छोटूराम सा. खोजवाला हि. 1/2 कौम अहीर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				628/1047	निजी	बारानी ए	58	रामदास पुत्र नंगासहाय जाति ब्रह्मण सा. देह खातेदार
						कुल	2620	
			9. घासीपुरा	516	निजी	बारानी ए वाणिज्य मैट्रोल पम्प	96	सुभाष परीक पुत्र मोहन परीक स्वयं परीक पुत्र सुभाष परीक 0.28 हेक्ट. पुरणमल पुत्र छेदुराम यादव जाति अहीर 0.30 हेक्ट.
				572	निजी	चाही 1 जाव 1.	42	गिखारी कन्हैया पि. मंगला 1/4 नादा पुत्र रामनाथ 1/4 सुरजा भगता पि. रामनाथ हि. 1/2 कौम मीण हि. 4/41 लालचन्द पि. सुरजाराज शांति पत्नी लालाराम हि. 37/41
						कुल	138	
			10. बिदासा	361	सरकारी	नैर मुमकिन सह.क	115	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				362	निजी	बारानी 3	43	बोधमल बन्त प्रमूदयाल मिश्रा सा राडावास हाल नि. शाहपुरा
				363	निजी	बारानी 3	98	बोधमल बन्त प्रमूदयाल मिश्रा सा राडावास हाल नि. शाहपुरा
				384	निजी	बारानी 3	376	कैलाश नारायण श्यामसुन्दर पि. हरिराम जाति महाजन सा हाथीदय तह. नीमकाथाना हाल आबाद रामजीनगर दिल्ली
				365	सरकारी	रास्ता	143	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				367	सरकारी	नैर मुमकिन नाला	23.	विवायबक बिला लगानी री.मु.नला
								कालूराम प्रमू. हरौराम सीताराम पि. देवाराम नाथी बेवा देवाराम नाथूराम जगदीश पि. गंगाबक्स हि. 820/1197 नगरपालिका शाहपुरा हि. 577/1197 दर हि. 1/2 कूथाराम पुत्र देवबक्स यादव नि. राजपुरा हि. 378/1197 छीतर पुत्र जम्म कौम अहीर हि. 399/1197 सा. राजपुरा नगरपालिका शाहपुरा हि. 420/1197 दर हि. 17/23 साधूराम भागीरथ राम पि. भजनाराम जाति बलाई सा. राजपुरा हि. 6/23
				369	निजी	बारानी 3	386	
								सार्वजनिक निर्माण विभाग
				370	सरकारी	बारानी 1	98	मालीराम मुकेश पि. देवा मु. भगवती बेवा देवा हि. 2/5 हरियाल रामस्वरूप राकेश पि. मौल हि. 3/5 कौम मीणा
				372	निजी	बारानी ए	16	
				373	निजी	बारानी ए	63	अजुर्न सावंत उर्फ हसहाय पि. बन्दा मीणा
								र्यारसीलाल पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल नि. शाहपुरा 235 वर्ग गज (वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) महेश कुमार पुत्र र्यारसीलाल हि. 1/3 महावीर प्रसाद पुत्र र्यारसीलाल हि. 1/3 सुरेश कुमार व धनरथार पि. ओमप्रकाश हि. 1/3 जाति महाजन शाहपुरा 2386 वर्गगज आवासिय प्रयोजनार्थ
				374	निजी	जाव 1	50	
								र्यारसीलाल पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल नि. शाहपुरा 235 वर्ग गज (वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ) महेश कुमार पुत्र र्यारसीलाल हि. 1/3 सुरेश कुमार व धनरथार पि. ओमप्रकाश हि. 1/3 महावीर प्रसाद पुत्र र्यारसीलाल हि. 1/3 जाति महाजन शाहपुरा 2386 वर्ग गज (आवासीय प्रयोजनार्थ)
				375	निजी	चाही 1	47	
								रामगोपाल पि. बंशीधर शर्मा कौम ब्रह्मण सा नितारा हि. 1/2 तिलकराज शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा कलावती शर्मा पत्नी तिलकराज शर्मा पति पण्डे पत्नी नारायण पण्डे हिन्दुबाला पत्नी सत्यनारायण शर्मा हि. 1/2 ब.हि.व. जाति शर्मा निवासी 1922 खेजडी का रास्ता टिककडमल की गली चौदवाल बाजार जयपुर 138 वर्गगज वाणिज्यिक 1082 वर्ग गज आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित
				376	निजी	चाही 1	41	
								हरियाल रामस्वरूप राकेश पि. मोरा हि. 210/840 नगरपालिका शाहपुरा हि. 630/840 कौम मीणा सा. देह
				377	निजी	चाही 1	94	
				378	निजी	बारानी 1	259	मैरुप्रसाद कैलाश चन्द अमरचन्द पि. गिखारी लाल जाति जाट नि. राजपुरा हि. 1/2 सस्ती पत्नी कालाराम जाट सा. शाहपुरा हि. 1/2 खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					सरकारी	गैर मुमकिन सड़क	80	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				379				रामनाथ पुत्र चन्दाराम जाति जाट हि. 1/2 पवन कुनार पुत्र परमेश्वरलाल हि. 1/2 राहिन यू.को.
				446	निजी	बाराही 1	93	बैक शाखा शाहपुरा खातेदार
				728	निजी	चाही 1 जाव 1	397	मवर सिंह जयसिंह पि. रूपसिंह कोम राजपूत सा. देह
				729	निजी	चाही 1 जाव 1	245	मवरसिंह जयसिंह पि. रूपसिंह हि. 1/2 कोम राजपूत हनुमान छीतर पि. जोधा रोशनी बेवा भैरु गिरधारी मोहन बनवारी मनीष राकेश कृष्ण पि. भैरु कोम मीणा सा. देह हि. 1/2 खातेदार
				730	निजी	चाही 1 जाव 1	470	विदामी देवी पत्नि बट्टीप्रसाद यादव सा. शाहपुरा हि. 1/6 कजोडमल पुत्र महादेव प्रसाद सा. छितीली बिराटनगर मालीराम पुत्र मंगाराम जाट पि. रामपुर हि. 1/3 राजेश पुत्र रामेश्वर जाति मीणा नि. खोरी तह. शाहपुरा हि. 1/6 लक्ष्मी देवी पत्नि रामबक्स अशोक राजेन्द्र रामसहाय पि. स्व. रामस्वरूप पुष्पा पुत्री रामस्वरूप हि. 1/3 कोम मीणा खातेदार
				731	सरकारी	बंजर डोल	206	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				780	निजी	चाही 1 जाव 1	871	नगरपालिका शाहपुरा हि. 1661/2760 ग्यासीलाल प्रमुदयाल पुत्र कालूराम जाट पि. रामपुरा हि. 440/2760 मोहन पत्नि गिरधारी लाल उमराव पत्नि पूरणमल हनुमान पुत्र नाथराम जाति बुनकर नि. राजपुरा हि. 659/2760 मैमु आबादी में संग्रहित
				781	निजी	चाही 1 जाव 1	559	हनुमान छीतर पि. जोधा मीणा हि. 101/658 कल्याणसहाय जगदीश प्रसाद पि. बाळराम जाट नि. रामचन्द्रपुरा हि. 1/2 दक्षिणी भाग मनीष पत्नि सत्यनारायण अग्रवाल नि. शाहपुरा 1/2 उत्तरी भाग 557/668 मैमु आबादी दर हि. 1/2 मु. रोशनी बेवा भैरु गिरधारी मोहन बनवारी मनीष राकेश कृष्ण पि. भैरु कोम मीणा सा. देह खातेदार
				787	निजी	चाही 1	1228	प्रहलाद पुत्र कजोड कोम मीणा नि. गोवडी तन बस्ती तह. थानागाजी अलवर हि. 427 वर्ग गज कृषि भूमि जगदीश प्रसाद पुत्र रिछपाल जाति जाट नि. बिहानपुरा हि. 1/2 महेन्द्र कुमार पुत्र गणपतलाल जाति शर्मा नि. देवन हि. 1/2 दर हि. 194/1901 मूलचन्द पुत्र नानगराम यादव नि. बिराटनगर हि. 43/1901 हरिराम पुत्र देवाराम यादव नि. राजपुरा हि. 55/1901 हरवो पत्नि हरिराम अहीर नि. राजपुरा हि. 227/1901 बाबूलाल पुत्र रामकिशोर गोयल जाति महाजन नि. खोरी हि. 1191/1901 जगदीश प्रसाद पुत्र भवरलाल अहीर नि. बिराटनगर हि. 191/1901 महेश चन्द शर्मा पुत्र बिरजीलाल शर्मा नि. राजपुरा हि. 73/2640 बजरंगलाल पुत्र सुवालाल जाति ब्रह्मण हि. 238/2640 नि. राजपुरा आवासीय प्रयोजनार्थ परिवर्तित
				789	निजी	जाव 1	262	हरिपाल रामस्वरूप राकेश पि. भैरु मीणा
				793	सरकारी	चाही 1 जाव 1	784	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				794	निजी	चाही 1 जाव 1	113	परसा काठू सुरक्षानी मागीराम रामकरण पि. रिछपाल मु. गुलाब बेवा रिछपाल कोम मीणा सा. देह
				795	निजी	चाही 1	267	हनुमान सहाय पुत्र छीसालाल मीणा सा. देह
				797	निजी	चाही 1	204	कैलाश पुत्र बाबू हि. 1/2 मीणा सा. देह मोहनलाल पुत्र भैरुलाल मीणा हि. 1/2 दर हि. 133. 84/300 जगदीश प्रसाद पुत्र मूलचन्द हि. 166.16/300 नि. बाघवास चोरासी वर हि. 1/2 काना फूला पि. मुकन्द हि. ब. हि. 1/2 कोम मीणा सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				815	निजी	बारानी 3	27	खादू श्याम इन्फांटेक इण्डिया लि. डायरेक्टर विजय कुमार पुत्र अशोक कुमार 806 बैसव कामलैक्स बैशली नगर जयपुर हि. / 4 महेश चन्द पुत्र हनुमान सहाय कौम खाती हि. 4, 100 रामनिवास पि. सेडू हि. 3/16 कौम खाती सा. देह श्यामा कवर चौहान पत्ति ओकारसिंह सोलंकी जाति राजपुर हि. शाहपुरा हि. 9/16 खातेदार रामनिवास पुत्र सेडू हि. 1/4 बाबूलाल वल्लद बाटू हि. 1/2 कौम खाती रकबा .05 सन्तु कुमार चन्दय पुत्र रामकुमार यादव पि. प्लाट नं. 127 रलीड नगर बैशली नगर जयपुर रकबा .07
				818	निजी	बारानी 3	10	सूरजमल हनुमान बशीर भवरलाल गिरधारी बाबूलाल पि. बाला हि. 6/32 सुवालाल पुत्र बाला राहिन एस.बी.बी.जे.बैक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन हि. 4/32 रामलाल गुलाब चन्द गणपतराम रामसिंह शिम्भूदयाल पि. कानाराम फूली बेवा कानाराम हि. 1/32 गुलाबचन्द पुत्र कानाराम हि. 1/18 शिम्भूदयाल पुत्र कानाराम हि. 1/36 मुरीलाल समेश्वर पि. गोपी हि. 1/24 नन्दू देवी पत्ति स्व. गोपी हि. 1/16 शंकरलाल सुभाष दिनेश पि. स्व. धूणीलाल बनारसी देवी पत्ति धूणी लाल हि. 1/16 छीतर पि. रुडा गजानन्द सरदारमल कालू ग्यारसीलाल लादू राम पि. प्रभात हि. 1/2 कौम माली सा. देह खातेदार
				841	निजी	बारानी 3	22	अमित पुता पुत्र एम.एल.गुला जाति महाजन पि. पुराना राजेन्द्र नगर नई दिल्ली हि. 1/3 सुखविन्द सिंह हाडा पुत्र शरसिंह जाति हाडा पि. सी./93 तृतीय पलोर इन्दपुरी नई दिल्ली हि. 1/3 तेजन्द ककच पुत्र गोपाल दास ककच जाति खत्री पि. 7/717 बसन्त कुन्ज नई दिल्ली हि. 1/3 दर हि. 7670/9500 मीता देवी पत्ति गोकुल चन्द जोगिड हि. 251/9600 कौम खाती पि. शाहपुरा चौधमल पि. प्रम. रघुवाल मिश्रा हि. 901/9600 सा. राडवास महेशचन्द पुत्र हनुमान हसाय कौम खाती हि. 100/8640 कैलाश चन्द पुत्र रामसहाय पि. लेटकाश प्रकाशचन्द पि. हिरालाल कौम जात पि. शाहपुरा बौदूराम पुत्र महादेव कौम जात पि. देवन हि. 378/8640 खातेदार
				844	निजी	बारानी 3	121	केशरी देवी पत्ति नारायणलाल जाति माली हि. 25/235 कल्याणसहाय पुत्र नाथू माली हि. 36/235 नारायण पुत्र नाथू माली हि. 36/235 पिंकी पत्नी अर्जुन लाल हि. 12/19 बाबूलाल पुत्र नाथू हि. 7/19 दर हि. 19/235 मोहनलाल पुत्र नाथू माली हि. 36/235 रुडाराम पुत्र नाथू माली हि. 19/235 सुवालाल पुत्र नाथू माली हि. 44/235 रुडाराम सुवालाल नारायण बाबूलाल कल्याण सहाय मोहनलाल पि. नाथू माली हि. 10/235 कौम माली
				861	निजी	बंजर 1	103	नारायण पुत्र चोखला हि. 1/10 कौशलया देवी पत्ति ग्यारसीलाल महाजन पि. खोरी राहिन यूको बैंक शाहपुरा हि. 1/2 दर हि. 26/37 बदी प्रसाद पुत्र खूबास जात पि. जाजेकलां हि. 11/37 दर हि. 1/10 बिदानी बेवा ग्यारसीलाल हि. 1/20 अशोक कुमार पुत्र ग्यारसीलाल हि. 3/20 काठूराम पुत्र बक्सराम दुनकर जाति बलाई पि. प्लाट नं. 10 गणेश नगर तृतीय मुरलीपुरा स्क्रीम जयपुर बनवारी पुत्र मांगू बरजी बेवा मांगू कौम बलाई हि. 1/3 दर हि. 1/5 कौम बलाई सा. बनवारी लाल पुत्र रामचन्द सोमरिया जाति खटीक हि. 1/3 दर हि. 1/5 हि. जयपुर सारदा देवी पत्ति ओमप्रकाश जीणगर जाति बलाई पि. सी.तृतीय सियल सिटी अम्बाबाडी जयपुर हि. 1/5 दर हि. 1/5 जगदीश प्रसाद संश चन्द पि. छोटूराम हि. 1/5 दर हि. 1/5 विजेकुमार पुत्र लोताराम जाति वाल्मीकी हरिजन प्लाट नं. 763 बापू कॉलोनी मांती लाल अटल रोड क्षीर सागर होटल जयपुर हि. 1/5 टी हि. 1/5 खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				862	निजी	बंजर 1	60	<p>नारायण पुत्र चौखला हि. 1/10 कौशल्य देवी प्रतिन्यारसीलाल महाजन नि. खोरी राहिन युको बैंक शाहपुरा हि. 1/2 दर हि. 26/37 बंदी प्रसाद पुत्र बुधाराज जाट नि. जाजेकलां हि. 11/37 दर हि. 1/10 बिदामी देवा ग्यारसीलाल हि. 1/20 अशोक कुमार पुत्र ग्यारसीलाल हि. 3/20 काठूराय पुत्र बलसायन बनकर जाति बलाई नि. प्लाट नं. 10 गणेश नगर तुलीय मुल्लीपुरा स्कीम जयपुर बनवारी पुत्र मांगू बरजी देवा मांगू कौम बलाई हि. 1/3 दर हि. 1/5 कौम बलाई सा बनवारी लाल पुत्र रामचन्द्र सांभरिया जाति खटीक हि. 1/3 दर हि. 1/5 नि. जयपुर सारदा देवी प्रतिन्यारसीलाल जौनगर जाति बलाई नि. सीतुलीय रियाल सिटी अम्बाबाडी जयपुर हि. 1/5 दर हि. 1/5 जगदीश प्रसाद रमेश चन्द पि. छोदराम हि. 1/5 दर हि. 1/5 बिजेकुमार पुत्र तोतायम जाति वाल्मीकी हरिजन प्लाट नं. 763 बापू कौलोनी मोती लाल अटक रोड क्षीर सागर होटल जयपुर हि. 1/5 दी हि. 1/5 खातेदार</p>
				865	निजी	बंजर 1	68	<p>नारायण पुत्र चौखला हि. 1/10 कौशल्य देवी प्रतिन्यारसीलाल महाजन नि. खोरी राहिन युको बैंक शाहपुरा हि. 1/2 दर हि. 26/37 बंदी प्रसाद पुत्र बुधाराज जाट नि. जाजेकलां हि. 11/37 दर हि. 1/10 बिदामी देवा ग्यारसीलाल हि. 1/20 अशोक कुमार पुत्र ग्यारसीलाल हि. 3/20 काठूराय पुत्र बलसायन बनकर जाति बलाई नि. प्लाट नं. 10 गणेश नगर तुलीय मुल्लीपुरा स्कीम जयपुर बनवारी पुत्र मांगू बरजी देवा मांगू कौम बलाई हि. 1/3 दर हि. 1/5 कौम बलाई सा बनवारी लाल पुत्र रामचन्द्र सांभरिया जाति खटीक हि. 1/3 दर हि. 1/5 नि. जयपुर सारदा देवी प्रतिन्यारसीलाल जौनगर जाति बलाई नि. सीतुलीय रियाल सिटी अम्बाबाडी जयपुर हि. 1/5 दर हि. 1/5 जगदीश प्रसाद रमेश चन्द पि. छोदराम हि. 1/5 दर हि. 1/5 बिजेकुमार पुत्र तोतायम जाति वाल्मीकी हरिजन प्लाट नं. 763 बापू कौलोनी मोती लाल अटक रोड क्षीर सागर होटल जयपुर हि. 1/5 दी हि. 1/5 खातेदार</p>
				866	निजी	बंजर 1	52	<p>नारायण पुत्र चौखला हि. 1/10 कौशल्य देवी प्रतिन्यारसीलाल महाजन नि. खोरी राहिन युको बैंक शाहपुरा हि. 1/2 दर हि. 26/37 बंदी प्रसाद पुत्र बुधाराज जाट नि. जाजेकलां हि. 11/37 दर हि. 1/10 बिदामी देवा ग्यारसीलाल हि. 1/20 अशोक कुमार पुत्र ग्यारसीलाल हि. 3/20 काठूराय पुत्र बलसायन बनकर जाति बलाई नि. प्लाट नं. 10 गणेश नगर तुलीय मुल्लीपुरा स्कीम जयपुर बनवारी पुत्र मांगू बरजी देवा मांगू कौम बलाई हि. 1/3 दर हि. 1/5 कौम बलाई सा बनवारी लाल पुत्र रामचन्द्र सांभरिया जाति खटीक हि. 1/3 दर हि. 1/5 नि. जयपुर सारदा देवी प्रतिन्यारसीलाल जौनगर जाति बलाई नि. सीतुलीय रियाल सिटी अम्बाबाडी जयपुर हि. 1/5 दर हि. 1/5 जगदीश प्रसाद रमेश चन्द पि. छोदराम हि. 1/5 दर हि. 1/5 बिजेकुमार पुत्र तोतायम जाति वाल्मीकी हरिजन प्लाट नं. 763 बापू कौलोनी मोती लाल अटक रोड क्षीर सागर होटल जयपुर हि. 1/5 दी हि. 1/5 खातेदार</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				867	निजी	बारांनी 3	332	ईश्वर पुत्र उदाराम सैनी नि. शाहपुरा हि. 1/24 सुरझानी पुत्र रूडाराम हि. 28/900 यादव नि. हि. दारा सावसल शर्मा पुत्र बिंदी चन्द शर्मा नि. शाहपुरा हि. 372/900 दर हि. 1/2 हजारी राम पुत्र दानाराम जाट नि. जैतपुरा तह. चौम हि. 1/24 कानाराम पुत्र प्रभात प्रभात पुत्र गणेश हि. 63/360 कौम अहीर चन्दकला देवी पति चिरंजीलाल जाति महाजन नि. शाहपुरा हि. 27/360 राजूलाल यादव पुत्र भारीरथ यादव डाणी डहरवाली शेषपुर भारत शेषण पुत्र बशीलाल यादव नि. छापडा खुर्द हि. 1/8 रामगोपाल पुत्र हीरा हि. 1/16 विनोद कुमार शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा हि. 3/8 नि. खातेडी मौ. शाहपुरा रमेश चन्द पुत्र गणेश राम महाजन नि. खोरी हि. 3/8 गुलाबचन्द पुत्र प्रताप अहीर नि. बिंदारा हि. 14 दर हि. 1/16 मनी बेवा प्रभू अहीर हि. 1/16 रामधन पुत्र हीरा हि. 4/16 गुल्लाराम पुत्र परताराम हि. 3/16 छाजूलाल पुत्र श्यामसहाय हि. 1/32 तोफानी बेवा श्यामसहाय हि. 1/32 कौम अहीर खातेदार
				869	निजी	बारांनी 3	32	रामस्वरूप ओमप्रकाश रतनलाल सत्यनारायण पि. रामेश्वर व मुरली देवी बेवा रामेश्वर बाहमण सा. देह
				895	निजी	बारांनी 3	179	विष्णु शर्मा पुत्र बनवारी लाल शर्मा नि. मेन चौपड शाहपुरा अशोक गुप्ता पुत्र नन्दकिशोर गुप्ता नि. अमरसर दरवाजा शाहपुरा हि. 5/24 मेलूलाल कैलाश चन्द अमरचन्द पि. गिन्धारी लाल जाट नि. राजपुरा हि. 1/24 जगदीश पुत्र बालूराम यादव नि. बिंदारा हि. 157/768 राम गोपाल पुत्र हीरा हि. 1/16 रामधन पुत्र हीरा हि. 1/16 तोफानी बेवा श्यामसहाय हि. 1/32 बंदी नारायण पुत्र प्रभू मनी बेवा प्रभू हि. 1/16 छाजूलाल पुत्र श्यामसहाय हि. 1/32 कयला देवी पति ओमप्रकाश पलसानिया शेरसिंह पुत्र ओमप्रकाश अनिता प्रियंका पुत्रिया ओमप्रकाश पलसानिया हि. 35/768 गुल्लाराम पुत्र परताराम हि. 1/4 कौम अहीर सा. देह खातेदार
				918	सरकारी	गैर मुमकिन तालाब	30	शिवायचक खिला लगानी गै.मु.नला
				924	निजी	बारांनी 3	452	जगदीश प्रसाद रामावतार पि. सुन्दरलाल कौम बाहमण हि. 339/1/2 एअर मदन लाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति बाहमण हि. 4/1/2 एअर 550 बरंगज
				983	निजी	बारांनी 2	219	ईश्वर पुत्र रामदेव हि. 1/2 सौताराम पुत्र बालू हि. 73/170 कौम अहीर सा. देह अशोक कुमार पुत्र बी.आर.मीणा हि. 12/170 नि. प्लाट नं. 116 करणीनगर झोटवाडा जयपुर
				984	निजी	बारांनी 3	144	मुरली पि. भूरा कौम रंगार सा. देह
				985	निजी	बारांनी 3	60	पंकज कुमार सिंगल पुत्र बोरूम स्थल कौम हरिजन नि. विचडाली तह. खेगडी मुरली पि. भूरा कौम रंगार सा. देह
				987	निजी	बारांनी 3	254	अर्जुन रामसहाय पि. चन्द्राराम मु. किशानी बेवा चन्द्राराम हि. 1/8 किशानी राम पुत्र सोना हि. 3/16 सुवालाल पुत्र सोना राहिन एस.बी.जे. बैक शाखा शाहपुरा मुर्हीन हि. 3/16 ईश्वर मुरली पि. रामदेव राहिन यू.टी.आई. बैक शाखा जयपुर मुर्हीन हि. 1/6 बाबूलाल पुत्र रामदेव हि. 1/12 बालू पुत्र खेमा हि. 1/4 कौम अहीर सा. देह मु.क.खातेदार
				988	निजी	बारांनी 3	231	रामगोपाल प्रमूरपाल देवीसहाय रामेश्वर पि. कजोड अहीर सा. देह
				989	निजी	बारांनी 3	97	घासीराम बशीधर लक्ष्मण पि. नारायण कौम अहीर हि. 1/2 बिंदानी बेवा कोथू हि. 1/3 पूरा पुत्र हरदेव फूला पुत्र सुवा हि. 2/3 दर हि. 1/2 कौम अहीर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				990	निजी	बारानी 3	102	घासीराम बरीशर लम्हण पि. नारायण हि. 23/50 बिदाही बेवा चौधू हि. 1/3 पूरा पुत्र हरदेव फूला पुत्र सूरा हि. 2/3 दर हि. 27/50 कोम अहीर सा देह
				1084	निजी	गैर मुमकिन पैट्रोल पम्प बारानी 3	209	रतनलाल पोदार पुत्र आबरुल पोदार हि. 65/131 महाजन अग्रवाल नि. डी.पी. 22 प्रीतपुरा दिल्ली कुसुम देवी भगोरिया पत्नी श्री पवन कुमार भगोरिया हि. 66/131 निवासी राहपुरा
				1085	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	15	सिवायचक बिला लगानी गै.मु.रास्ता
				1086	निजी	चाही 1 जाव 1	168	कालूराम समदाराम पि. नाथू हि. 1/4 मालीराम कैलाश पि. मोरा ज्याना बेवा मोरा हि. 1/4 दयाक रामसहाय पि. श्योनाथ हि. 1/2 कोम अहीर सा. देह
				1193	निजी	चाही 1 जाव 1	53	कालूराम समदाराम पि. नाथू हि. 1/4 मालीराम कैलाश पि. मोरा ज्याना बेवा मोरा हि. 1/4 दयाक रामसहाय पि. श्योनाथ हि. 1/2 कोम अहीर सा. देह
				1194	निजी	चाही 1 जाव 1	93	मोती सीताराम रामबक्स रामदास रामेश्वर पि. चौधू जाति अहीर नि. बिदार
				1196	निजी	चाही 1	88	रामू पुत्र हरदेव हि. 1/3 पदमा पति स्व. विरदूराम कोम अहीर हि. 2/3 सा. देह खातेदार
				1197	निजी	जाव 1	41	रामू पुत्र हरदेव हि. 1/3 पदमा पति स्व. विरदूराम कोम अहीर हि. 2/3 सा. देह खातेदार
				1199	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	12	सिवायचक बिला लगानी गै.मु.रास्ता
				1208	निजी	बारानी ए	79	रामू पुरा पि. हरदेव हि. 2/3 फूला पुत्र सुगा हि. 1/3 कोम अहीर सा. देह
				1209	निजी	बारानी ए	89	लादू मांगू पि. काना अहीर नि. बिदार
				1211	निजी	बारानी ए	32	मांगू लादू पि. काना कोम अहीर सा. देह
				1212	निजी	बारानी ए	93	मांगू लादू पि. काना कोम अहीर सा. देह
				1218	निजी	बारानी ए	10	रामू पुत्र हरदेव हि. 1/3 पदमा पति स्व. विरदूराम कोम अहीर हि. 2/3 सा. देह खातेदार
				1219	निजी	चाही 2 जाव 2	60	कालूराम समदाराम पि. नाथू हि. 1/4 मालीराम कैलाश पि. मोरा ज्याना बेवा मोरा हि. 1/4 दयाक रामसहाय पि. श्योनाथ हि. 1/2 कोम अहीर सा. देह
				1291	निजी	बारानी 3	18	रामभापाल प्रमूद्याल देवीसहाय रामेश्वर पि. कजोड कोम अहीर
				1292	निजी	बारानी 3	131	अर्जुन रामसहाय पि. चन्दासम किशानी बेवा चन्दासम हि. 1/4 किशानाराम हनुमान पि. सोना हि. 1/2 सुगा पुत्र सोना हि. 1/4 कोम अहीर सा. देह हि. 19/20 बालू पुत्र खेमा हि. 1/20 कोम अहीर
				1293	निजी	बारानी 3	319	बालू पुत्र खेमा कोम अहीर सा. देह
				1320	निजी	बारानी, 3	10	अर्जुन रामसहाय पि. चन्दासम मुकिशानी बेवा चन्दासम हि. 1/4 किशानाराम हनुमान पि. सोना हि. 1/2 सुगा पुत्र सोना हि. 1/4 कोम अहीर सा. देह खातेदार
				1321	निजी	बारानी 3	464	ईश्वर मुल्ली पि. रामदेव हि. 2/3 बालूवाल पुत्र रामदेव हि. 1/3 दर हि. 16/21 अर्जुन रामसहाय पि. चन्दासम किशानी बेवा चन्दासम हि. 1/4 किशानाराम हनुमान पि. सोना हि. 1/2 सुगावाल पुत्र सोना हि. 1/4 दर हि. 5/21 कोम अहीर
				1322	निजी	बारानी 3	197	अर्जुन रामसहाय पि. चन्दासम मु. किशानी बेवा चन्दासम हि. 1/8 किशानाराम पुत्र सोना हि. 3/16 सुगावाल पुत्र सोना हि. 3/16 ईश्वर मुल्ली पि. रामदेव हि. 1/6 बालूवाल पि. रामदेव हि. 1/12 बालू पुत्र खेमा हि. 1/4 कोम अहीर सा. देह
				1323	निजी	बारानी 3	98	घीसाराम पुत्र हरदेव ओमकार पुत्र हरदेव बहि. ब. कोम अहीर सा. देह

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1324	निजी	बारानी 3	190	मदनलाल पुत्र सीताराम हि. 6/76 कौम महाजन कैलाश चन्द शिम्भूदयाल पि. बनवारीलाल हि. 27/76 महाजन पि. शिवपुर आरं. रोड जयपुर धीसाराम पुत्र हरदेव ओमकार पुत्र हरदेव हि. ब.हि. 23/76 सा देह सूरजमल पुत्र सीताराम हि. 20/76 महाजन सा देह
				1329	निजी	बारानी 3	298	प्रेम देवी पुत्री सीताराम पत्नि बाबूलाल हि. 6/57 कौम महाजन सा. देह सूरजमल पुत्र सीताराम हि. 6/57 जाति महाजन शांती देवी पुत्री सीताराम पत्नी प्रहलाद राय हि. 20/57 महाजन पि. जयपुर मदनलाल पुत्र सीताराम हि. 12/57 अभिनन्दन विमल कुमार पि. गजानन्द विद्या देवी मलियागिरी सोणगिरी पुत्रीया गजानन्द हि. 13/57 जाति महाजन पि. विशाटनगर
				1330	निजी	बारानी 3	825	अर्जुन रामसहाय पि. चन्द्राराम किशानी बेवा चन्द्राराम हि. 1/4 किशनाराम हनुमान पि. सोना हि. 1/2 सुवा पुत्र सोना हि. 1/4 कौम अहीर सा. देह
				1343	निजी	बारानी 3 गैर मुमकिन नाला	5	सूरजमल हनुमान बंशीधर मंकरलाल गिर्यारी बाबूलाल पि. बाला हि. 6/32 रामलाल गुलाबचन्द गणपतराम रामसिंह शिम्भूदयाल पि. कानाराम फूली बेवा कानाराम माली हि. 1/32 सुवालाल पुत्र बाला हि. 1/32 नन्हु देवी पत्नि स्व. गोपी मुरीलाल रामेश्वर पि. गोपी हि. 3/16 शकर सुभाष दिनेश पि. धुणी लाल बनारसी देवी पत्नि स्व. धुणी लाल हि. 1/16 छीतर पि. रुडा गजानन्द सरदारमल कालू ग्यारसी लाल लादूराम पि. प्रभात ब.हि. 1/2 कौम माली सा. देह खातेदार
				1331/1665	निजी	बारानी 3	75	सूरजमल कानाराम सुवालाल हनुमान बंशीधर शंकर लाल गिर्यारी बाबूलाल पि. बाला हि. 1/3 नन्हु देवी पत्नि स्व. गोपी धुणीलाल मुरीलाल रामेश्वर पि. गोपी हि. 1/3 नाथ्या गोदा पि. सोना हि. 1/3 कौम माली सा. देह
				794/1613	निजी	बारानी ए	25	परता कालू सुरझानी भागीरथ रामकरण पि. रिछपाल मु. गुलाब बेवा रिछपाल कौम मीणा सा. देह
				797/1593	निजी	बारानी 1	387	मालीराम मुकेश पि. देता मु. भागवती बेवा देवा हरिपाल रामस्वरूप राकेश पि. मोरा अर्जुन सावता पि. चन्दा कौम मीणा सा. देह
				810/1599	निजी	गैर मुमकिन नाला	46	नारानी देवी ग्यारसी देवी पुत्रिया सोनी कौम बाहमण सा. देह खातेदार
				816/1318	निजी	बारानी 3	14	खाटू श्याम इफोटिक झरिया लि. डायरेक्टर विजय कुमार पुत्र अशोक कुमार 606 बैमद कामलेक्स वैशाली नगर जयपुर हि. 1/4 रामनिवास पुत्र सेडू हि. 1/4 बाबूलाल वल्लू बालू हि. 1/2 कौम खाती रकबा 0.08 है. सत्तकुमार यादव पुत्र रामकुमार यादव पि. प्लाट नं. 127 रातीर नगर वैशाली नगर जयपुर रकबा 0.07 हैक्ट. खातेदार
				866/1682	निजी	बारानी 3	23	रुडा प्रभात पि. गणेश हि. 2/8 कानाराम पुत्र प्रभात हि. 1/8 रामेश्वर बालू फूला पि. नाथू हि. 1/8 रामधन पि. हीरा हि. 1/16 बदी नारायण पुत्र प्रभु मन्नी बेवा प्रभु हि. 1/16 छाजूलाल पुत्र श्यामसहाय हि. 1/32 गुल्ला पुत्र परता हि. 1/4 कौम अहीर सा. देह
				924/1687	निजी	बारानी 2	57	जगदीश प्रसाद रामावतार पि. सुन्दरलाल कौम बाहमण हि. 1200/1680 गिर्यारी पुत्र गणेश यादव पि. राजपुरा हि. 139.33/1680 मदनलाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा कौम बाहमण हि. 340.67/1680 खातेदार
						कुल	23444	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			11. शाहपुरा	3942	निजी	नगर मुनिकिन वर्कशॉप	90	कय-विषय सहकारी समिति शाहपुरा इन्चकाल संख्या 1981/ 25.02.09 के द्वारा ख.नं. 3942/1 रकबा 1.05 कय विषय सहकारी समिति शाहपुरा रहिन दो जयपुर सेंट्रल कारपोरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा शाहपुरा मृतहीन का अंकन स्वीकार हुआ ।
				3943	सरकारी	नगर मुनिकिन	73	सार्वजनिक निर्माण विभाग
				3944	निजी	बागानी ए	19	समेश्वर प्रसाद मामराज शिवदान स्तोत्र पि. बैल प्रगती सेवा बैल मामराज शिवदान स्तोत्र ना.बा. संसाक माता प्रगती हि. 380/1440 हनुमान पुत्र ओम्कार हि. 380/1440 विरू पुत्र देवु हि. 420/1440 कौम जाट केशराल पुत्र नौन्दाराम हि. 75/1440 भगवान सहाय पुत्र नौन्दाराम हि. 75/1440 प्रमोदपाल पुत्र नौन्दाराम हि. 75/1440 लक्ष्मीनारायण पुत्र नौन्दाराम हि. 75/1440 कौम पुर्जर निवासी नुरपुर तह. जमवारमगढ खातेदार
				3951	सरकारी	जाव 3	200	नगरपालिका शाहपुरा
				3953	सरकारी	चाही 1 जाव 1	25	भगवान पुत्र रुका कौम जाट
				3954	सरकारी	चाही 1 जाव 1	18	नगरपालिका शाहपुरा
				3955	सरकारी	चाही 1 जाव 1	15	भगवान पुत्र रुका हि. 252/960 जाट नगरपालिका शाहपुरा हि. 708/960 सा. देह खातेदार
				3968	सरकारी	चाही 1 जाव 1	51	नगरपालिका शाहपुरा
				3969	सरकारी	चाही 1 जाव 1	36	नगरपालिका शाहपुरा
				3970	सरकारी	नगरपालिका चाही 1	300	नगरपालिका शाहपुरा
				3971	निजी	चाही 2	54	मिस्र नगरपाल कारपोरेट इन्चकालिंग कम्पनी कल्याण जी का रास्ता जयपुर जेरिये पोर्नर दोन मीहन्द पुत्र मीहन्दर सजान हि. 1700/3720 जाति मुलमान नि. आदरा नगर दीपक मोग स्ता नं. 112 जयपुर मुन्नी देवी पतिन कन्हैयालाल फूल देवी पतिन मालीराम तास देवी पतिन जगदीश प्रसाद हि. 870/3720 मुन्नी देवी पतिन कन्हैयालाल अम्बाल हि. 140/3720 कौम यहाजन नि. रामपुर गीता देवी पतिनी राजेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी खोरी हि. 140/3720 आचकी देवी पतिनी मदनलाल अम्बाल स्थान कालोनी शाहपुरा हि. 870/3720 खातेदार
				3998	सरकारी	चाही 2 जाव 2	34	नगरपालिका शाहपुरा
				3999	सरकारी	चाही 1 जाव 1	37	नगरपालिका शाहपुरा
				4000	सरकारी	चाही 1	10	नगरपालिका शाहपुरा
				4001	सरकारी	चाही 1 जाव 1	52	नगरपालिका शाहपुरा
				4007	सरकारी	चाही 1	34	नगरपालिका शाहपुरा
				4014	सरकारी	चाही 1 जाव 1	10	नगरपालिका शाहपुरा
				4016	सरकारी	चाही 1 जाव 1	26	नगरपालिका शाहपुरा
				4017	निजी	बजर झील	10	मूलबन्द प्रमोदपाल सरदार हनुमान सहाय पि. सोडिया हि. 1/2 हि. ब. सुख्खा सुन्दर प्रमो कन्हैया बीन्जा पि. बलदेव हि. 1/2 हि. ब. कौम जाट सा. देह खातेदार
				4023	निजी	चाही 1 जाव 1	46	मूलबन्द प्रमोदपाल सरदार हनुमान सहाय पि. सोडिया हि. 3847/4080 कौम जाट सा. देह नगरपालिका शाहपुरा हि. 533/4080 खातेदार
				4024	निजी	बजर झील	10	मूलबन्द प्रमोदपाल सरदार हनुमान सहाय पि. सोडिया हि. 1/2 हि. ब. सुख्खा सुन्दर प्रमो कन्हैया बीन्जा पि. बलदेव हि. 1/2 हि. ब. कौम जाट सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4026	सरकारी	चाही 1 जाव 1	20	नगरपालिका शाहपुरा
				4030	निजी	बंजर डोल	10	मूलवन्द प्रमुख-याल सरदार हनुमान सहाय पि. सेडिया हि. 1/2 ब.हि. सुब्बा सुन्दर प्रमुख कन्हैया बीन्जा पि. बलदेव हि. 1/2 ब.हि. कौम जाट सा. देह खातेदार
				4031	सरकारी	गैर मुमकिन	441	सिवायचक
				4036	सरकारी	गैर मुमकिन	418	सिवायचक
				4041	निजी	चाही 2 जाव 2	173	विरेन्द्र कुमार पुत्र छाजूराम जाट सा. नागल दादिया जिला अलवर हि. 178/7893 नन्दकिशोर जुगलकिशोर पि. मुरलीधर मोदी जाति महाजन सा. अजीतगढ तह. श्रीमधोपुर (सीकर) हि. 1400/7893 मै 1000 वर्गज पटोल पम्प हेतु आबादी दर हि. 1/5 मन्नाराम पुत्र मंगला रामचन्द्र रामकिशोर बाबूलाल पि. कजोड सोनी बेवा कजोड छोटी बेवा हरदेव मालीराम रामजीलाल पि. हरदेव मौरुलाल पुत्र किशना हि. 3/5 मोहन पुत्र किशना 903/1578 सिवायचक हि. 675/1578 हि. 1/5 कौम जाट सा. देह खातेदार
				4042	निजी	चाही 2	252	विरेन्द्र कुमार पुत्र छाजूराम जाति जाट नागलदादिया जिला अलवर हि. 178/7893 व नन्दकिशोर जुगलकिशोर पि. मुरलीधर मोदी जाति महाजन नि. अजीतगढ तह. श्रीमधोपुर (सीकर) हि. 1400/7893 मय 1000 वर्गज पटोल पम्प हेतु (आबादी) दर हि. 1/5 मन्नाराम पुत्र मंगला रामचन्द्र रामकिशोर बाबूलाल पि. कजोड सोनी बेवा कजोड छोटी बेवा हरदेव मालीराम रामजीलाल पि. हरदेव मोहन पुत्र किशना मौरुलाल पुत्र किशना हि. 4/5 कौम जाट सा. देह खातेदार
				4044	निजी	चाही 2	10	महेन्द्र सिंह पुत्र बिरजूसिंह हि. 1/3 व मन्नाराम पुत्र मंगला हि. 2/3 दर हि. 1/5 मोहन पुत्र किशना हि. 1/5 मौरुलाल पुत्र किशना हि. 1/5 रामचन्द्र रामकिशोर बाबूलाल पि. कजोडिया सोनी देवी बेवा कजोडिया हि. 1/5 मालीराम पुत्र हरदेव हि. 1/5 कौम जाट सा. देह खातेदार
				4045	सरकारी	नगरपालिका चाही 2	300	नगरपालिका शाहपुरा
				4046	निजी	चाही 2 जाव 2	92	महेन्द्र सिंह पुत्र बिरजूसिंह हि. 1/3 व मन्नाराम पुत्र मंगला हि. 2/3 दर हि. 1/5 मोहन पुत्र किशना हि. 1/5 मौरुलाल पुत्र किशना हि. 1/5 रामचन्द्र रामकिशोर बाबूलाल पि. कजोडिया सोनी देवी बेवा कजोडिया हि. 1/5 मालीराम पुत्र हरदेव हि. 1/5 कौम जाट सा. देह खातेदार
				4060	सरकारी	बारानी 1	91	नगरपालिका शाहपुरा
				4061	सरकारी	बारानी 1	50	नगरपालिका शाहपुरा
				4155	निजी	जाव 1 बारानी 2	116	धारीराम रामचन्द्र सीताराम पि. मैदा नाथी पि. मैदा हि. 1/8 प्रमुख गिरधारी मोहन पि. मैदा हि. 1/8 हनुमान बंदी पि. परता हि. 1/8 कलूराम साधूराम पि. लादू शिम्पुदयाल श्रवण लाल ख्याती राम देवकरण सीताराम सत्यनारायण पि. शंकरलाल बिदानी बेवा शंकरलाल हि. 85/360 जाति गुर्जर नगरपालिका शाहपुरा हि. 275/360 दर हि. 1/8 हरसाहय मूला पि. मगबाना हि. 1/4 लालचन्द जगदीश पि. सुन्दर डाली बाली पुत्रिया सुन्दर हि. 1/4 सा. देह खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4170	निजी	चाही 1 जाव 1	187	घासीराम रामचन्द्र सीताराम पि. गैदा नगरी बेवा गैदा हि. 1/8 प्रभु गिस्वारी मोहन पि. गैदा हि. 183/240 नगरपालिका शाहपुर हि. 187/240 दर हि. 1/8 इन्दुमान बदी पि. परता हि. 1/8 कासूराम साहुराम पि. तादू शिम्बूदयाल श्रवण लाल खाली राम देवकरण सीताराम सत्यनारायण पि. शकरलाल बिदासी बेवा शकरलाल हि. 1/8 हरसहाय मूला पि. भगवाना हि. 180/480 जाति गुर्जर रामकरण पुत्र ओमकार हि. 300/480 कोम जाट सा. समपुरा दर हि. 1/4 लालचन्द जगदीश पि. सुन्दर खाली वाली पुत्रिया सुन्दर हि. 1/4 कोम गुर्जर सा. देह खातेदार
				4530	सरकारी	चाही 1	298	नगरपालिका शाहपुरा 4530/1 व 4530/2 दोनी ही नगरपालिका के नाम है।
				4531	सरकारी	चाही 1	28	नगरपालिका शाहपुरा
				4533	निजी	चाही 1	307	बोवा बागीच पि. भगवाना कोम जाट सा. देह खातेदार
				4534	सरकारी	चाही 2	263	नगरपालिका शाहपुरा
				4546	सरकारी	चाही 1 जाव 1	411	नगरपालिका शाहपुरा
				4547	निजी	चाही 1	218	नारायण पुत्र छोदू हि. 318/980 गंगलीया पुत्र छोदू हि. 480/980 जाति जाट नगरपालिका शाहपुरा हि. 182/980 सा. देह खातेदार
				4555	निजी	चाही 1	16	नारायण पुत्र छोदू हि. 1/2 गिस्वारी हरफूल लखू बसी पि. गंगलीया विक्रम रोहिताश प्रकारा पि. प्रभुदयाल प्रेम देवी पत्नी स्व. प्रभुदयाल हि. 1/2 कोम जाट सा. देह खातेदार
				4556	निजी	चाही 1 जाव 1	117	भगवाना पुत्र रूका कोम जाट सा. देह खातेदार
				4557	सरकारी	चाही 1	190	नगरपालिका शाहपुरा
				4558	निजी	बायली 1	10	रामदास पुत्र नारूलाल कोम महाजन सा. देह हि. 1200/2400 लखेश्याम पुत्र मुरलीधर कोम महाजन हि. 139/2400 कोम महाजन सा. नव्याबाला नगरपालिका शाहपुरा 1081/2400 खातेदार
				4644	निजी	बारानी 1	164	नन्दा गणेश गोपाल अर्जुन पि. दोलाराम कोम जाट हि. 90/1580 अर्जुनलाल पुत्र सुखदेव बदी प्रसाद गिस्वारी लाल पि. रुढाराम हि. 31/1580 कोम जाट लखनलाल पुत्र भगताराम कोम ब्रह्मण हि. 1350/1580 नगरपालिका शाहपुरा हि. 80/1580 सा. देह खातेदार
				4645	निजी	बारानी 3	66	सावत्री देवी पत्ति शिवदयाल कोम सोनी हि. 208/480 नगरपालिका शाहपुरा हि. 271/480 सा. देह खातेदार
				4007/5704	सरकारी	जाव 1	18	नगरपालिका शाहपुरा
				4027/5630	सरकारी	चाही 1 जाव 1	23	नगरपालिका शाहपुरा
				4847/5583	निजी	बारानी 3	174	सावत्री देवी पत्नी शिवदयाल कोम सुनार सा. देह खातेदार
						कुल	5811	
			12. जाजेबुर्	96	निजी	उहरी 2	184	श्रीमती भायादेवी पत्ति फूलचन्द कोम बलाई नि. किसानगढ हाल आबाद नई दिल्ली बी.-1/205 न्यू मोती नगर खातेदार
				112	निजी	बारानी 2	141	श्रीमती भायादेवी पत्ति फूलचन्द कोम बलाई नि. किसानगढ हाल आबाद नई दिल्ली बी.-1/205 न्यू मोती नगर खातेदार
				114	निजी	री.मु. 001 चाही डेकली 0.31	321	मन्वरलाल श्रीया पुत्र विशेशवरलाल श्रीया कर्ता हिन्दु संयुक्त परिवार की पारसीर-1, डा. महेश कुमार मन्वरलाल श्रीया 2 आदित्य श्रीया(अव्ययस्क) पुत्र महेश कुमार श्रीया सा. श्रीया भवन रामनाराज अजमेर (राज.) हाल शाहपुरा हि. 1/2 शिम्बूदयाल पुत्र देबू राम जाति कुस्कार सा. शाहपुरा हि. 1/2 खातेदार
				121	निजी	चाही डेकली	236	नाथू फूलचन्द श्यामनारायण कोम कुस्कार सा. शाहपुरा खातेदार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				122	निजी	चाही डेकली	481	प्रहलाद पौजूराम पुत्र छोटाराम जाति कुम्हार सा. शाहपुरा खातेदार
				123	निजी	चाही 1	60	सैक पुत्र चन्दाराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुर्तेहीन
				134	निजी	बंजर खारडा	56	भूरा सुन्दरा किलान कालू पि. परता नारायण पुत्र बिरदू हि. 1/3 मैरुलाल पुत्र चन्दा राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर मुर्तेहीन हि. 2/3 कौम जाट सा.
				135	निजी	बंजर खारडा	59	भूरा सुन्दरा किलान कालू पि. परता नारायण पुत्र बिरदू हि. 1/3 मैरुलाल पुत्र चन्दा राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर मुर्तेहीन हि. 2/3 कौम जाट सा.
				136	निजी	बारानी 1	436	सैक पुत्र चन्दाराम कौम जाट सा. देह खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुर्तेहीन
				139	निजी	चाही 1 जाव 1	204	साधू राम पुत्र बदी सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगासाहाय खेमा बेवा गंगासाहाय हि. 1/2 छजूराम प्रमुदवाल पि. लादूराम संज्या पति स्व. लादूराम हि. 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार
				140	निजी	चाही 1	10	साधू राम पुत्र बदी सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगासाहाय खेमा बेवा गंगासाहाय हि. 1/2 छजूराम प्रमुदवाल पि. लादूराम संज्या पति स्व. लादूराम हि. 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार
				141	निजी	बारानी अव्वल	200	साधू राम पुत्र बदी हि. 952/1452 नगरपालिका शाहपुरा हि. 500/1452 दर हि. 1/3 साधूराम पुत्र बदी हि. 1/6 सुरेन्द्र कुमार पुत्र गंगासाहाय हि. 1/4 खेमा बेवा गंगासाहाय हि. 1/6 जाति जाट सा. देह शिवराम पुत्र जगदीश प्रसाद जाट निवासी जजकला मोहनवाल पुत्र गंगाराम जाति जाट सा. निङ्कर हि. 1/12 हि. 1/12 खातेदार
				198	निजी	बारानी 1	86	चन्दा पुत्र भगवाना कौम जाट सा. देह खातेदार
				201	निजी	चाही 2	175	भैरुराम पुत्र सुंगाराम जाति जाट सा. शाहपुरा हि. 66/2040 चन्दा पुत्र भगवाना हि. 1877. 34/2040 जाति जाट खुरबू गोयल पति वेद प्रकाश गोयल हि. 96.66/2040 जाति महाजन सा. देह खातेदार
				202	निजी	चाही 2	21	लक्ष्मण श्योमी शिम्पू नन्दा पि. भगवाना कौम जाट सा. देह खातेदार
				204	निजी	चाही 2 जाव 2	200	शिम्पू पुत्र भगवाना कौम जाट सा. देह खातेदार
				206	निजी	चाही 2 जाव 2 बारानी अव्वल	130	शिम्पू पुत्र भगवाना कौम जाट सा. देह खातेदार
				207	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	27	राज. सरकार
				214	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	174	राज. सरकार
				215	सरकारी	गैर मुमकिन आबादी	108	नगरपालिका शाहपुरा
				216	सरकारी	गैर मुमकिन रास्ता	110	राज. सरकार
				217	निजी	बंजर का चपाई	10	प्रमु. मंगला पि. नारायण कौम जाट सा. देह खातेदार
				241	सरकारी	गैर मुमकिन पहाड	2144	राज. सरकार
				248	सरकारी	गैर मुमकिन पहाड	148	पर्यटन विभाग भारत सरकार
				250	सरकारी	चारागाह	1608	आर एम आई डी राजस्थान
				251	सरकारी	चारागाह	1520	आर एम आई डी राजस्थान
				114/1514	सरकारी	गैर मुमकिन	373	पुलिस चौकी पुलिस थाना शाहपुरा जिला जयपुर
				241/1535	सरकारी	गैर मुमकिन पहाड	63	पर्यटन विभाग भारत सरकार
				250/1534	सरकारी	चारागाह	1140	चारागाह
						कुल	10425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			13. जाजेकलां	1416	निजी	बंजर 3	15	श्रीमती विमला कुमारी गुप्ता धर्म पति गगनविशन गुप्ता कोम महाजन निवासी 4/12 ईस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली 26 खातेदार
				1417	निजी	बंजर 3	3	श्रीमती विमला कुमारी गुप्ता धर्म पति गगनविशन गुप्ता कोम महाजन निवासी 4/12 ईस्ट पंजाबी बाग नई दिल्ली 26 खातेदार
				1419	निजी	उहरी 2	67	मुरलीधर पुत्र मोहन लाल मालो शम्भूदयाल पुत्र देवराम कुमहर गोपाल लाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद महाजन निवासी शाहपुरा हि. 8/ खातेदार
				1420	निजी	उहरी 2	24	सुल्तानराम जाट पुत्र बागाराम जाट निवासी ग्राम निवासा हि. 10/32 गणपतलाल जाट पुत्र प्रभात जाट निवासी खेडा कथारा तह. विराटनगर हि. 13/32 मालीदेवी पत्नी तेजपाल सैनी जाति सैनी निवासी खेडा की बाणी हि. 9/32 खातेदार
				1421	निजी	उहरी 2	44	सुल्तानराम जाट पुत्र बागाराम जाट निवासी ग्राम निवासा हि. 10/32 गणपतलाल जाट पुत्र प्रभात जाट निवासी खेडा कथारा तह. विराटनगर हि. 13/32 मालीदेवी पत्नी तेजपाल सैनी जाति सैनी निवासी खेडा की बाणी हि. 9/32 खातेदार
				1484	निजी	उहरी 2	33	जगदीश लालचन्द गोपाल कानाराम रामस्वरूप पुत्र फारू हि. 6/7 छोटी देवी पति स्व. फूला हि. 1/7 कोम जोगी सा. देह खातेदार
				1486	निजी	उहरी 2	10	जगदीश लालचन्द गोपाल कानाराम रामस्वरूप पुत्र फारू हि. 6/7 छोटी देवी पति स्व. फूला हि. 1/7 कोम जोगी सा. देह खातेदार
				1555	निजी	उहरी 1	16	रामेश्वर पुत्र घीसा व ग्यारसी पत्नी घीसा हि. 1/4 बंदी हीरा पिता छोटा हि. 1/2 जगदीश हरसूल रामजीलाल पि गणपत सैनी पति गणपत हि. 1/4 कोम जाट सा. देह खातेदार
				1843	निजी	उहरी 2	20	साधूराम पुत्र घीसाराम जाट हि. 89/384 मुक्तीलाल पुत्र मांगूराम जाट हि. 89/384 बंदीप्रसाद जगदीश प्रसाद पि. खूबाराम राहिन ओरियटल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा शाहपुरा मुर्तहीन सुरजी पति खूबाराम किशन सहाय पुत्र रूपाराम राहिन ओरियटल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा शाहपुरा मुर्तहीन रामपुरी पत्नी स्व. देवीसहाय व बशीधर पुत्र दलक पुत्र देवी सहाय राहिन ओरियटल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा शाहपुरा मुर्तहीन कोम जाट हि. 178/384 ओमकार पुत्र किशना हि. 1/32 छीतर पुत्र रामनाथ हि. 1/24 कोम जाट सा. खातेदार
				1844	निजी	उहरी 1	36	मंगवान सहाय पुत्र महोदय कोम जाट सा. देह खातेदार राहिन जयपुर सरकारी भूमी बैंक शाखा शाहपुरा मुर्तहीन
						कुल	268	

[फा. सं. सीजीएम/आरओ/आरकेएस/12/2009/एनएच-8/3डी/कोट.]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2009

S.O. 3000(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the then Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 9(E), dated the 01st January, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section -3, Sub-section (ii), and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / six -laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8 on the stretch of land from **Km 142.400 to Km 212.100 (Gurgaon-Kotputli -Jaipur Section)** in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Navjyoti**,” dated the 05th February, 2009, and “**Dainik Bhaskar**,” dated the 05th February, 2009, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 142.400 to Km 212.100 (Gurgaon-Kotputali - Jalpaur Section) of the National Highway No. 08 in the State of Rajasthan

Serial. Number	Name of the district	Name of Taluka / Tehasil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (Square Meters)	Name of the land owner / Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Jaipur	1. Virat Nagar	1. Bagabas Ahiran	88	Private	Banjar	121	Banwarilal mittal S/o shahukar mittal Mangal Sain mittal s/o Banwarilal Mittal resident Bagawas Aheran
				89	Private	Banjar 2	121	Banwarilal mittal S/o shahukar mittal Mangal Sain mittal s/o Banwarilal Mittal resident Bagawas Aheran
				118	Government	Aabadi	73	Sivaychak (Abadi)
				119	Government	Aabadi	37	Sivaychak (Abadi)
				122	Government	Gair Mumkin Sadak	25	Mahakma Public Works Department
				136	Private	Chahi	221	Chandrabhan Saini s/o Netram saini sa. Sahipura Taip 5/1 Saleemar Bag Delhi 88 hissa 207/208 Rankaran s/o Chittarnal yadav hissa 1/208 sa. Deh
				234	Government	Gair Mumkin Sadak	10	Mahakma Public Works Department
				245	Government	Charagah	65	Charagah
				246	Government	Charagah	70	Charagah
				254	Government	Charagah	66	Charagah
				255	Government	Charagah	101	Charagah
				426	Private	Gair Mumkin	110	Sugla Chhoturam Boduram Omkar s/o Ramla hissa 1/4 Chandra s/o Chhotu hissa 1/18 Govind s/o Ramnath hissa 1/9 Suvalal s/o Beeja hissa 1/6 Mu. Bhagavti Beva Suva Jagdesh Laxman Rankuvar f/o Suva hissa 1/6 sa. Deh Ramkunwar s/o Sugla Dattak s/o sadhu caste ahir sa. deh hissa 1/4
				427	Private	Barani 1	386	Sugla, Choturam, Boduram, Omkar S/o Ramla hissa 1/2 Lada S/o Jagu hissa 1/2 caste Ahir sa deh
				428	Private	Chahi 2	728	Suresh Kumar nabalg S/o Govindram sarankshika M/o Shrivandevi W/o Govindram hissa 1/9, Umrao, Harphool, Maliram, Ramsingh S/o Nathu, Gyarsi beva Nathu & Indraj S/o Moolchand, Dhamli Beva Moolchand hissa 1/9 Ahir Madanlal S/o Omkamal Saini hissa 1/9 caste Mali sa Narnaul, Aasha Agarwal W/o Balkrishan Garg caste Mahajan resident Mansarovar Jaipur Plot No. 112/217 hissa 1/3 Narayan, Ramu Hanuman S/o Kalya hissa 1/3 caste Ahir sa deh Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				470	Private	Chahi 2	786	Suresh Kumar nabalg S/o Govindram sarankshika Late M/o Shrivandevi W/o Govindram hissa 1/9, Umrao, Harphool, Maliram, Ramsingh S/o Nathu, Gyarsi beva Natu & Indraj S/o Moolchand, Dhami Beva Moolchand hissa 1/9 Ahir Madanlal S/o Omkarmal Saini hissa 1/9 caste Mali sa Namaul, Umrao S/o Nathu hissa 1/9 Indraj S/o Moolchand hissa 1/9 Harphool, ramsingh S/o Nathuram hissa 1/9 Gyarsidevi W/o Nathuram hissa 1/3 caste Ahir sa deh.
				471	Private	Chahi 2	400	Sugla, Choturam, Boduram, Omkar S/o Ramla hissa 1/2 Ramkuwar S/o Sugaram Dattak S/o Lada hissa 1/2 caste Ahir sa deh
				472	Private	Barani A	566	Narayan Harsahay Govindram S/o Ramnath hissa 3/8 Ramu Narayan S/o Bishan hissa 1/8 Umrao Harphool Ramsingh Maliram S/o Nathu hissa 21/160 Gyarsilal W/o Late Nathuram hissa 3/128 Indraj S/o Moolchand hissa 1/40 Dhami W/o Moolchand hissa 3/384 Mukesh Kumar Nabalik S/o Harsahay Saranshak S/o Harsahay S/o Ramnath hissa 3/16 chandra S/o Chotu hissa 1/8 caste Ahir sa deh.
				475	Private	Barani A	172	Choturam, Bodu, Omkar S/o Ramnath hissa 3/8 caste Ahir, Guljarilal S/o Ramprasad sharma hissa 3/8 Nathulal S/o Radhaysyam sharma hissa 1/4 caste Brahmin Ik Chittoli
				476	Private	Barani A	884	Choturam, Bodu, Omkar S/o Ramkaran hissa 3/8 caste Ahir, Guljarilal S/o Ramprasad sharma hissa 3/8 Nathulal S/o Radhaysyam sharma hissa 1/4 caste Brahmin Ik Chittoli
				477	Private	Barani A	645	Chotu, Bodu, Omkar S/o Ramla hissa 3/8 Harishchandra S/o Chiranilal sharma hissa 150/1500 Chotelal S/o Radhysyam Sharma hissa 150/1500 Bodanlal S/o Laxminarayan sharma hissa 150/1500 Babulal S/o Prabhudayal sharmahissa 100/1500 Omprakash S/o Narayan Sahay Sharma hissa 100/1500 Mangilal Santosh Kumar S/o Prabhudayal Sharma hissa 125/1500 Ravidat S/o Bhorelal Sharma hisa 62/1500 Rakesh Kumar S/o Hajarilal Caste Brahmin hissa 100/1500 resident Chittoli
				488	Private	Chahi 1	1300	Boduram s/o Narayan Chhimma Devi Beva Narayan hissa 1/4 Devisahay Hardev hissa 1/4 Omkar s/o Ramnath Mula Deva s/o Jagannath hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				489	Private	Gair Mumkin	100	Boduram s/o Narayan Chhimma Beva Narayan hissa 1/4 Devisahay Hardev hissa 1/4 Omkar s/o Ramnath Mula Deva s/o Jagannath hissa 1/2 cast yadav sa. Deh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				490	Private	Chahi 2	100	Boduram S/o Narayan Chimadevi beva Narayan hissa 1/2 Devisahay S/o Hardev hissa 1/2 caste Ahir sa deh.
				491	Private	Chahi 2	400	Boduram S/o Narayan Chimadevi beva Narayan hissa 1/2 Devisahay S/o Hardev hissa 1/2 caste Ahir sa deh.*
				492	Private	Chahi	1016	Onkar Devia s/o Jagannath caste yadav sa. Deh
				656	Government	Gair Mumkin	149	Government
				657	Private	Barani 2	885	Umrav Harphool Ramsingh Maliram s/o Nathu Gayarsi Beva Nathu Indraj s/o Mulchand Dhamli Beva Mulchand hissa 3/8 Chothuram s/o Bhagvana hissa 3/8 Chandra s/o Chotu hissa 1/4 caste yadav sa. Deh
				665	Private	Chahi 2 Banjar	983	Umrav, Harphool, Ramsingh, Maliram S/o Nathu, Gyarsi beva Nathu, Indraj S/o Moolchand, Dhamli beva Moolchand hissa 3/8 Suresh Kumar Na ba. S/o Govindram Sarankshak S/o hissa 4/5 Iqbalsingh S/o Gurumeet singh sa. 519/6 balmiki marg Rajapark, Jaipur hissa 1/5 dar hissa 3/8 caste Ahir sa deh Balkrishan S/o Gopal Lal Garg hissa 1/4 resident 112/217 Agrawal Farm Mansarovar Jaipur Khatedar
				666	Private	Banjar	136	Umrav, Harphool, Ramsingh, Maliram S/o Nathu, Gyarsi beva Nathu, Indraj S/o Moolchand, Dhamli beva Moolchand hissa 3/8, Narayani W/o Chothuram hissa 3/8 caste Ahir sa deh Balkrishan S/o Gopal Lal Garg hissa 1/4 resident 112/217 Agrawal Farm Mansarovar Jaipur Khatedar
				667	Private	Chahi 2 Banjar	697	Umrav, Harphool, Ramsingh, Maliram S/o Nathu, Gyarsi beva Nathu, Indraj S/o Moolchand, Dhamli beva Moolchand hissa 3/8 Suresh Kumar Na ba. S/o Govindram Sarankshak self Govindram hissa 3/8 caste Ahir sa deh Balkrishan S/o Gopal Lal Garg hissa 1/4 resident 112/217 Agrawal Farm Mansarovar Jaipur Khatedar
				668	Private	Barani Banjar	926	Umrav, Harphool, Ramsingh, Maliram S/o Nathu, Gyarsi beva Nathu, Indraj S/o Moolchand, Dhamli beva Moolchand hissa 3/8, Chandra S/o Chotu hissa 1/4 Narayani W/o Chothuram hissa 3/8 caste Ahir sa deh Khatedar
				692	Private	Barani 1	853	Boduram s/o Narayan Chhimma Devi Narayan 1/2 Devisahay s/o Hardev hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				693	Private	Barani 1	57	Boduram s/o Narayan Chhimma Devi Narayan 1/2 Devisahay s/o Hardev hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				694	Private	Barani 1	770	Boduram s/o Narayan Chhimma Devi Narayan 1/2 Devisahay s/o Hardev hissa 1/2 caste yadav sa. Deh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				695	Private	Barani 1	62	Boduram s/o Narayan Chhimma Devi Narayan 1/2 Dev'sahay s/o Hardev hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				696	Private	Barani 1	560	Boduram s/o Narayan Chhimma Devi Narayan 1/2 Dev'sahay s/o Hardev hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				697	Private	Barani 1	1298	Boduram s/o Narayan Chhimma Devi Narayan 1/2 Dev'sahay s/o Hardev hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
						Total	16179	
			2. Banipark	263	Private	Barani 1	120	Moolchand Arjun Moti S/o Gopal yadav Ahir sa deh
				264	Private	Barani 2	10	Moolchand Arjun Moti S/o Gopal yadav Ahir sa deh
				295	Private	Barani 1	54	Satikan singh s/o Sukhadev singh sa deh Rajput Rahin J.G.S. Bhumi Vikas Bank Limited Branch Shahpura
				299	Private	Barani 1	1366	Sultan Shimbhu Jhabru Nehru Ramnarayan Satidan s/o Sita Tiya w/o Sita Santi Sharvan Muli D/o Sita Caste yadav sa deh
				334	Private	Chahi 2	1209	Suva S/o Bhura hissa 1/4 Bhagirath Shimbhu Sonaram Phoochand S/o gangu Shrivandevi D/o Ganguram hissa 1/4 Suva Rahin District Sahakari Bhoomi Vikas Bank Shahpura Distt. Jaipur Murthin Jayram S/o Kanhaiya Sanjayadevi beva Kanhaiya Roshash S/o Prabhatilal Ganda beva Prabhti Lal hissa 1/4 Banshi Kailash S/o Bhagwana Hissa 1/6 Vilas Shankar S/o Bhagwana Hissa 1/2 Rahin Jaipur Distt. Sahakari Bhoomi Vikas Bank Ltd. Jaipur Murthin Caste Ahir sa deh.
				335	Private	Chahi 2	478	Chuna S/o Maan caste yadav sa. Deh Ahir Rahin UCO Bank branch antela murthin
				336	Private	Chahi 2	375	Sultan Shimbhu Jhabru Nehru Ramnarayan Satidan s/o Sita Tiya w/o Sita Santi Sharvan Muli D/o Sita Caste yadav
				337	Private	Banjar	69	Sultan Shimbhu Jhabru Nehru Ramnarayan Satidan s/o Sita Tiya w/o Sita Santi Sharvan Muli D/o Sita hissa 1/2 Chatra S/o Maan 1/2 Caste Ahir sa deh
				361	Private	Barani 1	1234	Prabhu s/o Jhutha 1/2 Sadara Ramprasad Jagdish s/o Ladu Ramki Soni Sundar D/o Ladu 1/2 cast Ahir sa deh Prabhu S/o Jhutha hissa 1/2 rahin UCO Bank Branch Aanteia
				365	Private	Barani 2	760	Prabhu S/o Jhutha Ahir 9/86 Lakhbindrakor W/o Mandeepa singh Jatsikh resident Luharu Farm Gram Gokulpura Hissa 7/86 dar hisa 1/2
				374	Private	Barani 1	971	Shyamla s/o Ghashi 1/2 Nathu s/o Ladu 1/2 cast Ahir sa deh Ghasi Rahin Central Bank of India Branch Paota

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				375	Private	Barani 2	717	Shyamla s/o Ghashi 1/2 Nathu s/o Ladu 1/2 cast Ahir sa deh Ghasi Rahin Central Bank of India Branch Paota
				396	Private	Chahi 2	715	Shyamla s/o Ghashi 1/2 Nathu s/o Ladu 1/2 cast Ahir sa deh Ghasi Rahin Central Bank of India Branch Paota
				397	Private	Chahi 2	848	Shyamla s/o Ghashi 1/2 Nathu s/o Ladu 1/2 cast Ahir sa deh Ghasi Rahin Central Bank of India Branch Paota
				425	Private	Chahi 2	893	Shyamla s/o Ghashi 1/2 Nathu s/o Ladu 1/2 cast Ahir sa deh Ghasi Rahin Central Bank of India Branch Paota
						Total	9819	
			3. Aantela	2946	Private	Barani 2	125	Gullaram Shivchand Purnamal s/o Ramnath sa. Deh Rahin UCO Bank Branch Aantela
				2947	Private	Barani 2	104	Gullaram Shivchand Purnamal s/o Ramnath sa. Deh Rahin UCO Bank Branch Aantela
				2950	Government	Gair Mumkin Sadak	12	Public Works Department
				2951	Government	Gair Mumkin Sadak	10	Public Works Department
				2952	Government	Gair Mumkin Sadak	13	Public Works Department
						Total	264	
			4. Hanumannagar	3544	Private	Barani 3	2097	Prahlad Arjun S/o Mahadev V.Mu. Mohra Beva Mahadev caste yadav Rahin Central Bank of India Branch Paota
				3545	Private	Barani 3	677	Prahlad Arjun S/o Mahadev V.Mu. Mohra Beva Mahadev caste yadav Rahin Central Bank of India Branch Paota
				3546	Private	Barani 3	864	Prahlad Arjun S/o Mahadev V.Mu. Mohra Beva Mahadev caste yadav Rahin Central Bank of India Branch Paota
				3732	Private	Barani 3 Banjar	3449	Kamla kanwar W/o Krapal singh Vijendra singh Shyolal signh S/o Krapal Mangu kanwar D/o Krapal singh hissa 17/19 Dhanaram s/o Bhagwan sahay hissa 2/19 dar hissa 1/2 caste Jat shahpura sa. Deh
				3738	Private	Barani 1	1132	Babulal s/o Ghisaram hissa 1/9 mali Birmla w/o Jagdish prasad hissa 1/27 Moolchand s/o Dhanna hissa 2/27 Rambabu Omprakash Ashok s/o Govardhan hissa 1/3 Kalyani Devi Birmla devi Banarsi devi Munni Devi D/o Govardhan hissa 4/9 caste mahajan sa. Deh khatedar
				3740	Private	Gair Mumkin Banjar	1411	Rambabu Omprakash Ramavatar Subhash Ashok S/o Govardhan Kalyani devi Vimal devi Banarsi devi Munni devi D/o Govardhan caste mahajan sa. Deh khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Government	Gair Mumkin Rasta	97	Sivaychak
				3752	Private	Barani 2	100	Suvaram Gaindalal Budaram S/o Ganesh Durga devi w/o Ganesh hissa 1/9 Gayarsilal Babu S/o kana hissa 2/9 Rameshwar prasad s/o Ghisaram 1/3 Mamta s/o Narayan hissa 1/3 dar hissa 2/3 Babulal s/o Ghisa hissa 1/3 caste mali sa. Deh khatedar
								Bharatmal Moujiram S/o Bhanwarlal hissa 1/27 yadav Ramkishor tarachand S/o Rameshwar prasad hissa 1/27 Caste mali Gayarsilal babu S/o kana hissa 4/27 Choti w/o Ghisa Suganchand Prahlad Shimbudayal Rameshwar S/o Ghisa Keshar Devi D/o Ghisa hissa 2/9 Bhagirath Kailash chand S/o Bhanwarlal yadav hissa 500/778 dar hissa 2/9 Babulal s/o Ghisa hissa 1/3 caste mali, sa. deh Tejendra Kankar s/o Gopaldas Kankar caste Khatri hissa 128/3500 Punjabi resident Deeng 7/7179 Basant Kunj New Delhi Sardarmal Ramswaroop S/o Bhanwarlal hissa 133/278 dar hissa 278/3500 caste mali sa. deh Mamla s/o Narayan hissa 10/3500 caste yadav
				3754	Private	Barani 2	2752	Sunita Devi w/o Rakesh kumar sharma s/o Chauthmat Sundaral s/o Chauthmat Sunaram s/o Rajesh mali Arti devi w/o Gorishankar Lalita devi w/o Hanuman sahay Gaindalal s/o Ganesh mali Gyarsilal Babu s/o kana Babulal s/o Ghisa Mamla s/o Mamla s/o Narayan Choti w/o Ghisa Suganchand Shimbudayal Rameshwar S/o Ghisa Keshri D/o Ghisa Durga w/o Rajesh mali sa. deh
				3755	Private	Barani 2	20	Sunaram Gaindalal Budharam s/o Ganesh Durga w/o Late Ganesh hissa 2/27 Gyarsilal Babulal s/o Kanaram hissa 4/27 Choti w/o Late Ghisa Suganchand Prahlad sahay Shimbudayal Rameshwar s/o Ghisa Kesri D/o Ghisa hissa 2/9 Mamla s/o Narayan hissa 2/9 Babulal s/o Ghisa hissa 1/3 caste mali sa. deh khatedar
				3765	Private	Barani 2	82	Rajesh Gyarsilal Babu s/o kana hissa 1/3 Mamla s/o Narayan hissa 1/3 Choti w/o Ghisa Suganchand Prahlad sahay Shimbudayal Rameshwar S/o Ghisa Kesri Devi D/o Ghisa mali sa. Deh
				3766	Private	Barani 2	740	Sunaram Gaindalal Budharam s/o Ganesh Durga devi w/o Late Ganesh hissa 2/27 Gyarsilal Babulal s/o kanaram hissa 4/27 Choti w/o Ghisa Suganchand Prahlad sahay Shimbudayal Rameshwar s/o Ghisa Kesri D/o Ghisa hissa 2/9 Mamla s/o Narayan hissa 2/9 Babulal s/o Ghisa hissa 1/3 caste mali sa. deh khatedar
				3768	Private	Barani 2	670	Rajesh Gyarsilal Babu s/o kana hissa 1/3 Mamla s/o Narayan hissa 1/3 Choti w/o Ghisa Suganchand Prahlad sahay Shimbudayal Rameshwar s/o Ghisa Kesri D/o Ghisa hissa 2/9 Mamla s/o Narayan hissa 2/9 Babulal s/o Ghisa hissa 1/3 caste mali sa. deh khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3769	Private	Barani 2	700	Sunaram Gaidalal Budharam s/o Ganesh Durga devi w/o Late Ganesh hissa 2/27 Gyarsilal Babulal s/o kanaram hissa 4/27 Choti w/o Ghisa Suganchand Prahlad sahay Shimbudayal Rameshwar s/o Ghisa Kesri D/o Ghisa hissa 2/9 Mamla s/o Narayan hissa 2/9 Babulal s/o Ghisa hissa 1/3 caste mali sa. deh khatedar
						Total	14791	
			5. Kerali	1540	Private	Barani 2	90	Murti Devi w/o Arjun hissa 1/8 Kamli w/o Durga hissa 1/16 Bharwan w/o Phoola hissa 1/16 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Parta Babulal S/o Bhura hissa 416/4848 Kanta Gulati w/o R.S. Gulati hissa 41/114 Nitin Gulati s/o A.S. Gulati hissa 41/144 Savita Aahuja w/o Virendrapal Aahuja hissa 16/57 dar hissa 76729/572064 caste Khatir resident A 58 B 312 Rajori Garden New Delhi Santi w/o Khayaliram hissa 1/4 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Phoola Durga S/o Chotu hissa 104/4848 caste Gurjar sa. Bajrangpura Girdhani s/o Chotu hissa 1/2 dar hissa 1347/4848 Dura s/o Ladu hissa 27/34 dar hissa 1347/9696 Santi w/o Khayaliram Gurjar hissa 7/34 Bajrangpura Sardara s/o Chanda hissa 40/4848 caste Jat Jamna devi w/o Pusaram hissa 104/4848 hissa 5/7 dar hissa 104/4848 Dhunilal s/o Suvalal Mamta d/o Jagdish hissa 2/7 dar hissa 104/4848
				1541	Private	Banjar 1	48	Murti Devi w/o Arjun hissa 1/8 Kamli w/o Durga hissa 1/16 Bharwari w/o Phoola hissa 1/16 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Parta Babulal S/o Bhura hissa 416/4848 Kanta Gulati w/o R.S. Gulati hissa 41/114 Nitin Gulati s/o A.S. Gulati hissa 41/144 Savita Aahuja w/o Virendrapal Aahuja hissa 16/57 dar hissa 76729/572064 caste Khatir resident A 58 B 312 Rajori Garden New Delhi Santi w/o Khayaliram hissa 1/4 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Phoola Durga S/o Chotu hissa 104/4848 caste Gurjar sa. Bajrangpura Girdhani s/o Chotu hissa 1/2 dar hissa 1347/4848 Dura s/o Ladu hissa 27/34 dar hissa 1347/9696 Santi w/o Khayaliram Gurjar hissa 7/34 Bajrangpura Sardara s/o Chanda hissa 40/4848 caste Jat Jamna devi w/o Pusaram hissa 104/4848 hissa 5/7 dar hissa 104/4848 Dhunilal s/o Suvalal Mamta d/o Jagdish hissa 2/7 dar hissa 104/4848

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1544	Private	Barani 1	40	Murti Devi w/o Arjun hissa 1/8 Kamli w/o Durga hissa 1/16 Bhanwar w/o Phooli hissa 1/16 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Parta Babulal S/o Bhura hissa 416/4848 Kanta Gulati w/o R.S. Gulati hissa 41/114 Nitin Gulati s/o A.S. Gulati hissa 41/144 Savita Aahuja w/o Virendrapal Aahuja hissa 16/57 dar hissa 76729/572064 caste Khatr resident A 58 B 312 Rajon Garden New Delhi Santi w/o Khayaliram hissa 1/4 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Phooli Durga S/o Chotu hissa 104/4848 caste Gurjar sa Bajrangpura Girhani s/o Chotu hissa 1/2 dar hissa 1347/4848 Dura s/o Ladu hissa 27/34 dar hissa 1347/9696 Santi w/o Khayaliram Gurjar hissa 7/34 Bajrangpura Sardara s/o Chanda hissa 40/4848 caste Jat Jamma devi w/o Pusaram hissa 104/4848 hissa 5/7 dar hissa 104/4848 Dhunilal s/o Suvalal Mantia d/o Jagdish hissa 2/7 dar hissa 104/4848
				1545	Private	Barani 1	57	Murti Devi w/o Arjun hissa 1/8 Kamli w/o Durga hissa 1/16 Bhanwar w/o Phooli hissa 1/16 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Parta Babulal S/o Bhura hissa 416/4848 Kanta Gulati w/o R.S. Gulati hissa 41/114 Nitin Gulati s/o A.S. Gulati hissa 41/144 Savita Aahuja w/o Virendrapal Aahuja hissa 16/57 dar hissa 76729/572064 caste Khatr resident A 58 B 312 Rajon Garden New Delhi Santi w/o Khayaliram hissa 1/4 dar hissa 1347/4848 caste Gurjar Phooli Durga S/o Chotu hissa 104/4848 caste Gurjar sa Bajrangpura Girhani s/o Chotu hissa 1/2 dar hissa 1347/4848 Dura s/o Ladu hissa 27/34 dar hissa 1347/9696 Santi w/o Khayaliram Gurjar hissa 7/34 Bajrangpura Sardara s/o Chanda hissa 40/4848 caste Jat Jamma devi w/o Pusaram hissa 104/4848 hissa 5/7 dar hissa 104/4848 Dhunilal s/o Suvalal Mantia d/o Jagdish hissa 2/7 dar hissa 104/4848
				3077	Private	Barani 1	92	Rameshwari w/o Bholaram suhita w/o Rameshwar Mangru w/o Ramjilal hissa 1/2 Naharsingh s/o Mangtaram yadav Dabla raod Kotputli Mahendra kumar s/o Choturam yadav 10/36 Chitrakoot Colony Ashok s/o Balwant singh yadav resident 10/4 Chitrakoot Jaipur hissa 4/5
				3078	Private	Barani 1	88	Dhuraram s/o Balya Naharsingh s/o Mangtaram yadav resident Dabla Road Mahendra kumar s/o Choturam Ashok kumar s/o Balwant singh hissa 4/5 Dhuna s/o Balu hissa 1/2 caste yadav sa Deh khatedar
				3079	Private	Barani 1	10	Dhuraram s/o Balya Naharsingh s/o Mangtaram yadav resident Dabla Road Mahendra kumar s/o Choturam Ashok kumar s/o Balwant singh hissa 4/5 Dhuna s/o Balu hissa 1/2 caste yadav sa Deh khatedar
				3080	Private	Barani 1	38	Surja s/o Jhutha hissa 1/4 Kana Babulal Kailash S/o Dhura
				3082	Private	Barani A	109	Jamnalal s/o Khanga caste Jat Mahendra kumar s/o Choturam yadav

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3225	Private	Barjar 1	10	Bhanwarlal Phoolaram Madholal Danaram hissa 2/3 Duraram Jamnaram Rugram Jat hissa 1/36 Sadhuram S/o Laxminarayan 1/36 Sonaram Jallaram S/o Narayan Sahena Beva Narayan hissa 5/18
				3226	Private	Chahi 2 Jaav 2 Barjar 2 Barani 2	226	Bhanwarlal Phoolaram Madholal Danaram S/o Ballaram caste jat sa deh khatedar
				3227	Private	Barani 2	62	Laxmi devi w/o Harichand D/o Prabhudayal caste Raigar
				3228	Private	Barani 2	57	Laxmi devi w/o Harichand D/o Prabhudayal caste Raigar
				3235	Private	Barani 2	66	Girdhari Dhura S/o Gangliya hissa 2/3 dar hissa 1010/4848 Dhuniyal s/o Suvalal Mamta D/o Jagdish hissa 228/33936 Jyana devi w/o Sundaram hissa 1368/33936 Parta Babulal S/o Bhura hissa 456/4848 caste Jat Phoola s/o Chotu Durga s/o Chotu Santi w/o Khayaliram hissa 1/2 Dhuna s/o Ladu hissa 1/2 dar hissa 3040/4848 Phoola Durga S/o Chotu hissa 114/4848 Murti devi w/o Arjun hissa 1/6 Kamli w/o Durga hissa 1/12 Bhanwari w/o Phoola hissa 1/12 dar hissa 1010/4848 caste Gurjar sa. Bajrangpura
				3236	Private	Barani 2	49	Girdhari Sunda dhuna Gara S/o Gangliya hissa 1347/4848 Jat Girdhari s/o Chotu hissa 104/4848 Girdhari s/o Chotu s/o Ladu hissa 2693/4848 caste Gurjar Suvalal Hanuman sahay S/o Nancha 208/4848 Parta Babulal S/o Pura hissa 416/4848 Sadha Sardara s/o Chanda s/o 80/4848 caste jat
				3238	Government	Barjar Dol	54	Public Works Department
				3241	Private	Barani 1	1752	Bhanwarlal Phoolaram Madholal Danaram s/o Ballaram Jamnaram s/o Narayan Saheja Beva Narayan Ramprasad Jagdish prasad yadav Dhuraram Sunaram Jallaram s/o Narayan yadav Dataram s/o Makkhanlal Gurjar
				3242	Private	Barjar 1	428	Bhanwarlal Phoolaram Madholal Danaram s/o Ballaram Jamnaram s/o Narayan Saheja Beva Narayan Ramprasad Jagdish prasad yadav Dhuraram Sunaram Jallaram s/o Narayan yadav Dataram s/o Makkhanlal Gurjar
				3243	Private	Barjar 1	13	Bhanwarlal Phoolaram Madholal Danaram s/o Ballaram Jamnaram s/o Narayan Saheja Beva Narayan Ramprasad Jagdish prasad yadav Dhuraram Sunaram Jallaram s/o Narayan yadav Dataram s/o Makkhanlal Gurjar
				3247	Government	Gair Mumkin Sadak	646	Public Works Department

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3248	Private	Barani 2	2515	Bhanwatilal Phoolaram Madholal Danaram s/o Ballaram Jannaram s/o Narayan Saheja Beva Narayan Rampasad Jagdish prasad yadav Dhuraram Sunaram Jallaram s/o Narayan yadav Dataram s/o Makkhantal Gujjar
				3249	Private	Chahi 2 Jaav 2 Barani 2	3175	Bhanwatilal Phoolaram Madhoram Danaram S/o Ballaram caste Jat
				3250	Private	Barani A	764	Khetaram s/o Gopiram Raigar
				3251	Private	Barani A	1621	Khayaliram Jayram Laxman S/o Narayan yadav sa deh khatedar
				3252	Private	Barani A	521	Babulal Kanaram s/o Dhuraram
				3253	Private	Barani A	1892	Jogendra W/o Amarsingh resideht Tilak Nagar Jaipur hissa 21/30 Hanuman s/o Bida Nathuram s/o Baluram hissa 9/30 dar hissa 1/2 Nathuram Dhunaram s/o Balya hissa 1/3 Nathu Duna s/o Balya Sagri Jari Sara devi D/o Balya hissa 1/6 caste yadav
				3254	Government	Gair Mumkin Sadak	254	Public Works Department
				3237	Private	Barani 2	38	Gopiram s/o Jutharam Seduram s/o Ghisaram caste Raigar sa deh khatedar
				3249/3906	Private	Chahi 2 Jaav 2 Barani 2	738	Ramprasad Jagdish prasad S/o Laduram hi-b-hi- caste yadav resident Bagawas Ahiran
						Total	15453	
			6. Gandhinagar	2905	Private	Barani 3	30	Bashir Ali khan s/o Bajir a hissa 1/3 Maphiya Jhambhuri D/o Bajira hissa 1/6 Sikka Arjun lai s/o Shyamlat Mali 1/2 sa. Deh khatedar
				2953	Private	Barani 3	29	Matadin s/o Suvalal hissa 380/450 caste Rai Ramkunwar yadav s/o Kaluram yadav hissa 70/450 Behroda dar hissa 3/4 Sarasvati Beva Suvalal hissa 1/4 caste Rai sa. Deh khatedar
				2954	Private	Barani 3	47	Matadin s/o Suvalal hissa 3646/3750 Rai Mahesh chand Kailash chand S/o Bhura hissa 51/3750 Rohitash s/o Ramdev hissa 53/3750 Maliram Sarasvati Beva Suvalal hissa 1/4 Rai sa. Deh khatedar
				2955	Government	Gair Mumkin Sadak	50	Public Works Department
				2956	Private	Barani 3	31	Babulal s/o Kanaram hissa 1/3 Topsingh s/o Kanaram Ramswaroop s/o Rudaram hissa 2/3 sa. Hanuman Nagar sa deh khatedar
				2957	Private	Barani 3	35	Jaisaram s/o Choturam hissa 1/2 Shimbhu s/o Chotu hissa 1/2 caste mali sa. Deh khatedar
				2958	Private	Barani 3	83	Shimbhu s/o Chotu mali sa deh khatedar
				2959	Private	Barani 3	107	Jaisaram s/o Choturam hissa 4248/4320 Khairushah s/o Bajushah caste Musalman Phakir hissa 72/4320 a deh khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2966	Private	Barani 3	10	Jagdish Bheru Ramkaran Girdhari S/o Banshidhar Mu. Mishri Beva Banshidhar Yadav sa deh khatedar Rahin Oriental Bank of Commerce Branch shahpura Murtheen
				2974	Private	Barani 3	154	Phoola s/o Dhanna yadav UCO Bank Branch Aantela sa. Deh khatedar
				2975	Private	Barani 3	114	Jagdish Bheru Ramkaran Girdhari S/o Banshidhar Mu. Mishri Beva Banshidhar yadav sa deh khatedar
				2983	Private	Barani 2	137	Anjna Sharma w/o Surya prakash sharma sa. Plot no. 7 Madhun Colony Tonk Phatak khatedar
				2984	Private	Barani 3	90	Anjna Sharma w/o Surya prakash sharma sa. Plot no. 7 Madhun Colony Tonk Phatak khatedar
				2986	Private	Barani 2	72	Santra devi w/o Jagdish caste yadav resident Kuneda tehsil Kotputli
				3005	Private	Barani 3	60	Moolchand Jagdish Ramakaran Raju S/o Sardara hissa 3/8 Banarsi Devi w/o Bhanwarial hissa 1/8 Surji devi w/o Duraram Gayarsi devi w/o Phoolaram Sarti devi w/o Shimbhudayal Manju devi w/o Ghanshyam hissa 1/4 Vijay Kapoor s/o Baldev Rajkapoor hissa 114/363 sa. deh khatedar
				3006	Private	Barani 3	132	Moolchand Jagdish Ramakaran Raju S/o Sardara hissa 3/8 Banarsi Devi w/o Bhanwarial hissa 1/8 Surji devi w/o Duraram Gayarsi devi w/o Phoolaram Sarti devi w/o Shimbhudayal Manju devi w/o Ghanshyam hissa 1/4 Vijay Kapoor s/o Baldev Rajkapoor hissa 114/363 sa. deh khatedar
				3007	Private	Barani 3	77	Moolchand Jagdish Ramakaran Raju S/o Sardara hissa 3/8 Banarsi Devi w/o Bhanwarial hissa 1/8 Surji devi w/o Duraram Gayarsi devi w/o Phoolaram Sarti devi w/o Shimbhudayal Manju devi w/o Ghanshyam hissa 1/4 Vijay Kapoor s/o Baldev Rajkapoor hissa 114/363 sa. deh khatedar
				3008	Private	Barani 3	50	Moolchand Jagdish Ramakaran Raju S/o Sardara hissa 3/8 Banarsi Devi w/o Bhanwarial hissa 1/8 Surji devi w/o Duraram Gayarsi devi w/o Phoolaram Sarti devi w/o Shimbhudayal Manju devi w/o Ghanshyam hissa 1/4 Vijay Kapoor s/o Baldev Rajkapoor hissa 114/363 sa. deh khatedar
				3009	Private	Banjar Dol	17	Jayindra kaur w/o Jayvind singh hissa 1/2 caste Jat Sikh Puranmal s/o Bhagwan sahay hissa 1/2 caste meena sa. Deh khatedar
				3010	Private	Barani 1	123	Puranmal s/o Bhagwan sahay hissa 74/173 meena Sukhpal Kaur w/o Sukhdev hissa 25/173 dar hissa 173/198 caste Jat Jayindra kaur w/o Jayvind singh hissa 74/173 caste Jat Sikh Puranmal s/o Bhagwan sahay hissa 25/198 sa. Deh khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3075	Private	Barani 2	340	Kalaram Dhudaram Pappuram Nanagram Kailash Sarbu Bhagwan sahay s/o Sedu Mu. Sundri Beva Seduram hissa 7/141 caste mali Subhash chand s/o Haripal hissa 67/141 Suresh s/o Roshanlal hissa 67/141 dar hissa 141/165 Makkhanlal Ramdev hissa 24/165
				3076	Private	Barani 2	10	Matadin Lalaram Dhudaram Pappu ram Nanagram Kailash Sarbu Bhagwan sahay s/o Seduram Mu. Sundari Beva Seduram mali sa. Deh khatedar
						Total	1798	
			7. Ramnagar	3261	Private	Barani 2	155	Nathuram s/o Baluram hissa 17/60 Dhunaram s/o Baluram hissa 11/30 Sagri Jadi Sara D/o Baluram hissa 1/10 Mula s/o Birduram hissa 1/3 Hanuman s/o Birduram hissa 1/6 caste yadav sa. Deh khatedar
				3468	Private	Barani 2	493	Narayan Geeda Hanuman s/o Kishnaram caste Jat sa. Deh Rahin UCO Bank Branch Aantela khatedar
				3469	Private	Barani 2	870	Narayan Geeda Hanuman s/o Kishnaram caste Jat sa. Deh Rahin UCO Bank Branch Aantela khatedar
				3500	Private	Barani 2	2430	Mahendra singh yadav s/o Hardev singh yadav caste yadav sa. Nanglor Najafgarh New Delhi 41 Maiiram s/o Sundaram sharma sa. Sakram cheepiata tehsil Neemka thana Shankarlal s/o Kanhaiya lal sharma sa Dhani Ragoli caste sharma Khatedar
				3501	Private	Barani 2	1290	Badri prasad s/o Boduram Hanuman s/o Badri prasad caste mali sa. Deh khatedar
				3503	Private	Barani 3	1822	A.K. Agarwal w/o L.S. Agarwal caste mahajan resident 15/1 Aasaph Ali Road New Delhi khatedar
				3504	Private	Barani 3	2012	A.K. Agarwal w/o L.S. Agarwal caste mahajan resident 15/1 Aasaph Ali Road New Delhi khatedar
				3505	Private	Barani 3	1278	A.K. Agarwal w/o L.S. Agarwal caste mahajan resident 15/1 Aasaph Ali Road New Delhi khatedar
				3506	Private	Barani 3	1442	Phoola s/o Dhanna caste yadav rahin UCO Bank Branch Aantela Murtheen sa. Deh khatedar
						Total	11792	
			8. Behdoda	344	Private	Gair Mumkin Chah	100	Suman Kanta w/o Ratan kumar caste yadav resident 129 Surajnagar Poorv Civil Lines khatedar Vanijiyk Prayojnarth
				345	Private	Commercial	4128	Umraov s/o Bhanaram yadav resident Surajnagar Purav Civil Lines Jaipur Vanijiyk Prayojnarth
				346	Private	Gair Mumkin Chah	700	Onkar s/o Ramdhan hissa 1/5 Bhanwarlal Kalu s/o Keshu Sedu s/o Jaman hissa 7/10 Chitar s/o Bodu hissa 1/20 Manni Gothi Asha Surji D/o Bhuraram hissa 1/20 caste Yadav sa. Deh khatedar
				350	Government	Nala	1093	Sivaychak
				352	Private	Barjar 1	997	Onkar s/o Ramdhan yadav sa. Deh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				370	Private	Barani 3	1270	Bihari Lal Surja s/o Prabhat Bhagil Beva Prabhat caste mali Sa. Deh Khatedar
				372	Private	Barani 3	631	Ishwar s/o Ladu caste Mali sa. Deh Khatedar
				373	Private	Barani 3	1105	Ishwar s/o Ladu caste Mali sa. Deh Khatedar
				376	Government	Charagah	71	Charagah
				378	Private	Barani 3	1184	Mahesh Kumar Anil Kumar s/o Budhram hissa 2/3 Pista Devi w/o Ratanlal hissa 1/3 caste Mahajan sa. Deh
				380	Private	Barani 2 Chahi 1	299	Sedu s/o Jamna yadav sa. Deh
				381	Private	Jaav 1	216	Bhanwra Kalu S/o Kesha hi. ba. cast yadav sa. Deh
				382	Private	Barani 2	640	Rameshwar s/o Mangla hissa 1/4 Girdhari Banwari S/o Mangla s/o Ganga W/o Mangla hissa 3/4 caste yadav sa. Deh
				385	Private	Barani 2	288	Surja S/o Moti Girdhari s/o Surja hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				386	Private	Barani 2	233	Devaram Motiram Ramkishan Chhajulal s/o Prabhu Gayarsi w/o Late Prabhu caste Mali sa. Deh Khatedar
				387	Private	Barani 3 Jaav 2	720	Devaram Motiram Ramkishan Chhajulal s/o Prabhu Gayarsi w/o Late Prabhu caste Mali sa. Deh Khatedar
				389	Government	Aabadi	603	Sivaychak
				390	Private	Barani 3	642	Bhanwra Kalu s/o Kesha hissa 1/2 caste Yadav Devaram Motiram Ramkishan Chhajulal s/o Prabhu Gayarsi w/o Late Prabhu hissa 1/2 caste Mali sa. Deh Khatedar
				386/580	Private	Barani 2	303	Devaram Motiram Ramkishan Chhajulal s/o Prabhu Gayarsi w/o Late Prabhu caste Mali sa. Deh
						Total	15223	
			9. Dhani Gekan	20	Private	Barani	234	Babulal s/o Budhram caste Kashyap hissa 1/3, 45/1 Kirtinagar Delhi Pratapsingh s/o Yadram hissa 2/3 caste Jat sa. Deh
				21	Private	Chahi Jaav Banjar	157	Temple Shree Raghunath Ji Khatedar
				23	Private	Barani	63	Temple Shree Raghunath Ji Khatedar
				24	Private	Chahi	62	Temple Shree Raghunath Ji Khatedar
				35	Private	Chahi	10	Temple Shree Raghunath Ji Khatedar
				36	Private	Chahi Jaav	31	Temple Shree Raghunath Ji Khatedar
				37	Government	Nala	10	Shivachak Bila Lagani
				38	Government	Nala	10	Shivachak Bila Lagani
				39	Private	Chahi A	93	Babulal s/o Chokharam Mamta devi w/o Girdhari Lal caste Meena hi-ba- sa. Chhadra Devta tehsil Kotputli Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				43	Private	Chahi A	105	Ruda s/o Chandra hissa 1/4 Nanchi Beva Bhagwana Badri s/o Bhagwana Meva L/o Bhagwana hissa 1/4 Mamraj Rajkanwar s/o Prabhu Kani Beva Prabhu hissa 1/4 cast Mali Shambhu Mukesh S/o Bhagirth Hanuman s/o Ramchandra Kailash Mahesh S/o Jankilal Madanlal s/o Mulchand hissa 1/4 caste Sharma sa. deh
				44	Private	Chahi A	51	Garpat s/o Nanga caste Mali sa. Deh khatedar
				47	Private	Chahi A	46	Phoola s/o Nanga caste Mali
				48	Private	Chahi A	43	Surja s/o Nanga caste Mali sa. Deh
				49	Private	Chahi A	53	Mangu s/o Nanga caste Mali
				65	Government	Aabadi	10	Shivachak Bila Lagani
				66	Private	Chahi A	71	Moharli Devi Beva Gopiram hissa 1/3 Meva devi w/o Bheruram sharma hissa 2/3 caste sharma
				67	Private	Chahi A	92	Nanchi Beva Bhagwana Meva d/o Bhagwana hissa 1/6 Badri s/o Bhagwana hissa 282/340 caste Mali Jagish s/o Shriram caste yadav hissa 58/340 Dar hissa 1/12 Ruda s/o chanda hissa 1/4 Mamraj Ramkavar S/o Prabhu Kani Beva Prabhu hissa 1/4 caste Mali Shambhu Mukesh S/o Bhagirath Hanuman s/o Ramchandra Kailash Mahesh S/o Jankilal Madanlal s/o Moolchand hissa 1/4 caste sharma
				72	Govt-	Gair Mumkin Rasta	11	Sivaychak
				76	Private	Gair Mumkin Chah	199	Kailash Mahesh chand s/o Jankilal Manoj s/o Mu- Radhaysayam Baburam s/o Bhuraram Shimbhu Mukesh s/o Bhagirath Ghisalal s/o Hanuman Madan s/o Moolchand hissa 4 Aana Bhanilal Rajendra kumar Anil kumar S/o Prabhudayal Gaudi Beva Prabhudayal hissa 2 Aana Rameshwar s/o Shyoshay hissa 2 Aana Mohari Beva Gopiram Barphi Devi Beva Gulachand Kamlesh kumar s/o Gulabchand Birmla Beva Prahlad Suresh chand s/o Prahlad Chameli beva Jagdish Bheru prasad Satyanarayan Ramakant s/o Jagdish prasad hissa 2 Aana caste Sharma
				77	Private	Chahi Aliif	862	Ramkuwar s/o Mahadev hisaa 1/2 Chotu s/o Sevla hissa 1/2 caste Balai
				83	Private	Chahi Aliif	889	Prahlad sahay s/o Rameshwar caste sharma
				84	Private	Chahi Aliif	948	Kailash Mahesh chand s/o Jankilal caste Sharma
				94	Private	Chahi Aliif	1126	Rajendra Prasad s/o Daluram caste Jat hissa 29/40 Rajeshwar prasad sharma s/o Shivanandan sharma hissa 11/40 caste sharma
				95	Private	Chahi Aliif	1055	Lokesh kumar s/o Mukesh kumar sharma caste sharma

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				96	Private	Chahi Aliif	808	Hanuman Kajod s/o Bhura Mu. Badami Beva Bhura caste Jat 217/27-11-04 Bidami Beva Bhura ke Bajay Hanuman kajod s/o Bhura Ka Ankan Savakar Hua.
				97	Private	Gair Mumkin Chah	120	Shyama s/o Baburam caste sharma
				98	Private	Chahi Aliif	420	Mamraj Bihani lai Seduram s/o Manguram caste Jat sa. Deh
				101	Private	Chahi A	766	Temple Shree Raghunath Ji
				103	Private	Chahi A	781	Phooli w/o Late Narsa hissa 1/4 Shambhudayal Purnamal s/o Narsa hissa 3/4 caste Jat
				104	Private	Gair Mumkin Chah	200	Vijaylal s/o Chunnilal hissa 1/2 Bhagwan datt Bihari Basanrat kumar s/o Rudmal hissa 1/2 caste sharma
				106	Private	Chahi A	452	Soni lai s/o Ramlal hissa 8/27 Kalu s/o Ruda hissa 19/27 dar hissa 3/4 cast Jat Mangalram s/o Seduram yadav resident Khelna
				107	Private	Chahi A	200	Kalu s/o Ruda caste Jat
				108	Private	Chahi A	400	Sultan Sohiya s/o Bhura caste Dhanka
				109	Private	Chahi Aliif	93	Phooli w/o Late Narsa hissa 1/4 Shambhudayal Purnamal s/o Narsa hissa 3/4 caste Jat
				110	Private	Chahi Aliif	763	Temple Shri Raghunath ji khatedar
				119	Private	Barani Soyam	348	Temple Shri Raghunath ji khatedar
				120	Private	Barani Soyam	26	Temple Shri Raghunath ji khatedar
				121	Government	Gair Mumkin Sadak	1061	Public Works Department (Road)
				521	Government	Gair Mumkin Rasta	90	Sivaychak Lagani
				522	Private	Barani A	725	Arun Dev Builders Limited 612 New Delhi Rajeshwar Prasad Sharma s/o Shivanandan sharma
				524	Private	Barani Aliif	457	Arun Dev Builders Limited Jariye Managing Director Manoj Bhardwaj s/o Ramratan sharma Registered Office 612 New Delhi
				525	Private	Barani Awwal	324	Dayakor w/o Dharampal caste Jat Shilapuri Teh. Chidava Dist. Jhunjunu
				537	Government	Gair Mumkin Nehar.	116	Sichai Vibhag
				621	Private	Barani A	10	Dayakor w/o Dharampal caste Jat Shilapuri Teh. Chidava Dist. Jhunjunu
				622	Private	Barani A	170	Dayakor w/o Dharampal singh Choudhary hissa 295/324 Pradeep s/o Ramsingh hissa 29/234 caste yadav sa. Deh
				623	Private	Barani A	220	Dayakor w/o Dharampal caste Jat Shilapuri Teh. Chidava Dist. Jhunjunu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				625	Private	Barani A	227	Arun Dev Builders Private Limited 612 New Delhi Jariye Managing Director Manoj Bhardwaj s/o Ramratan, sharma Registered Office 612 New Delhi hissa 1/5 Boduram Dattak s/o Surja hissa 1/5 Hemraj Boduram s/o Prabhat Gyarsi w/o Late Prabhat hissa 1/5 Richhpal Shimbhu s/o Lada hissa 2/5 caste mali sa den Khatedar
				626	Private	Barani A	202	Arun Dev Builders Private Limited Jariye Managing Director Manoj Bhardwaj s/o Ramratan sharma Registered Office 612 New Delhi.
				627	Private	Barani A	230	Arun Dev Builders Private Limited Jariye Managing Director Manoj Bhardwaj s/o Ramratan sharma Registered Office. 612 New Delhi.
				633	Private	Chahi Jaav	555	Rameshwar Benja S/o Bhura Mungi Surji Phooli Geeta D/o Bhura hissa 6/7 Rukma w/o Chittar Sajna D/o Chittar Jagdish s/o Chittar hissa 1/7 caste Mali
				634	Private	Chahi Jaav	581	Prahlad Sahay s/o Bhanwalal caste Jat sa. Shahpura hissa 25/26 Nathi w/o Late Chotu Govardhan Guljhari Babulal s/o Chotu Gheesi Kamla Dhula Chotu hissa 1/26 caste Mali
				646	Private	Chahi Jaav Banjar	538	Bheem singh Bhati s/o Sunhari singh Bhati caste Gurjar resident Village. Mohammadpur Teh. Gurgaon Haryana
				647	Private	Chahi 1 Awwai	1214	Prabhu s/o Deva hissa 1/3 Bheemsingh Bhati s/o Sunhari Bhati caste Gurjar hissa 2/2 s/o Bhat Mohanmadpur Teh Gurgaon Haryana
				649	Government	Gair Mumkin Nehar	73	Sachai Votrag
				657	Private	Barani 1	346	Sagri Devi w/o Choithu Surghani Jayram Lalchand Mahendra s/o Choithu hissa 1/5 Kali Devi w/o Babulal Gurjar hissa 1/5 Mojram s/o Prabhat Gyarsi D/o Prabhat Geeta beva Prabhat hissa 1/5 caste Mali Hansraj s/o Shyoram hissa 2/5 caste Jat sa. Deh
				625/4432	Private	Barani Uttam	211	Dayakor w/o Dharmal caste Jat Shilarpuri teh. Chidawa District Jhunjhunu
				66/4543	Government	Aabadi	12	Sivaychak Bila Lagani
				103/4436	Private	Chahi A Jaav A	618	Vijaylal s/o Chunnialal hissa 1/2 Bhagwandatt Bhan Basnat kumar s/o Roodmal hissa 1/2 caste sharma
						Total	19588	
				335	Private	Chahi Jaav	161	Jaynarayan s/o Patram yadav
				10. Neelka				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				256	Private	Barani 2	17	Shriram s/o Kikar hissa 1/10 Umrav Prabhudayal s/o Richpal 1/20 Jaynarayan Ganesh s/o Patram hissa 1/10 Ramkaran Mamchand Madanlal s/o Ramanand Chhimil w/o Ramanand hissa 3/40 Ishwar Lal s/o Shivanarayan urf Shyonarayan hissa 3/40 Surja Kavar Singh Matadeen Kaluram Khushiram s/o Chunnilal Sari Beva Chunnilal hissa 1/10 caste yadav Puranmal s/o Bhagwanshay caste Meena hissa 1/2 sa. deh. Atela
				257	Private	Barani 2	103	Subhash chand s/o Mamraj Saini Ni. Buchahera Mohalla Kasba Kotputli
				258	Government	Barani 2	13	Sivaychak
				260	Private	Barani 2	41	Surja kavar singh Matadeen kaluram khushiram s/o Chunnilal Sari Beva Chunnilal caste yadav sa- deh
				276	Govr.	Gair Mumkin Nahar	10	Sivaychak
				282	Private	Barani 3 Banjar 1	58	Shriram s/o kikar caste yadav Rahin UCO Bank Branch Atela sa. Deh.
				283	Private	Barani	57	Jaynarayan s/o Patram yadav Rahin Jaipur Nagaur Anchlik Gramin Bank Branch Bhabhru sa. Deh
				287	Private	Banjar 1	58	Ramkaran Mamchand Madanlal s/o Ramannad yadav Chhimil Beva Ramannad Ishwar Lal s/o Shivanarayan caste yadav Gowardhan Choudhary s/o Udairam hissa 1/3 caste Jat
				288	Private	Barani	94	Sari Beva Chunnilal caste yadav sa. Deh khatedar Surja Kawarsingh Matadeen Kaluram Khushiram s/o Chunnilal sa. Deh
				320	Private	Barani 2	10	Budda s/o Khuba ram caste yadav sa. Deh khatedar
				321	Private	Barani 2	103	Sawla s/o Khubaram caste yadav sa. Deh khatedar
				322	Private	Barani 2	105	Shriram s/o Phakir yadav Rahin UCO Bank Branch Atela sa. Deh
				323	Private	Gair Mumkin Aabadi	10	Shriram s/o Phakir hissa 1/5 Umrav Prabhudayal s/o Richpal hissa 1/10 Jaynarayan Ganesh s/o Partaram hissa 3/10 Ramkaran Mamchand Madanlal s/o Ramannad Chhimil w/o Ramannad Ishwar Shivanarayan Urf Shyonarayan hissa 3/10 Surja Kavar Singh Matadeen Kaluram Khushiram s/o Chunnilal Mu. Sari Beva Chunnilal hissa 1/5 caste yadav Sa. Deh
				335	Private	Barani 2	136	Jaynarayan s/o Patram yadav sa. deh
				336	Private	Barani 2	57	Ishwar s/o Shivanarayan Urf Shyonarayan caste yadav Sa. Deh
				337	Private	Barani 2	82	Ramkaran Mamchand Madanlal s/o Ramannad Chhimil w/o Ramannad caste yadav Jaipur Nagaur anchlik gramin Bank Branch Bhabhru Sa. Deh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				275/579	Private	Banjar 1	34	Saroj devi w/o Satyendra singh hissa 1/2 caste Jat Gyano devi w/o Arjun singh hissa 1/2 caste Jat Sa. Deh
				275/560	Private	Banjar 1	28	Saroj devi w/o Satyendra singh hissa 1/2 caste Jat Gyano devi w/o Arjun singh hissa 1/2 caste Jat sa. Deh
				275/561	Private	Banjar 1	68	Ishwar lal s/o Shivrarnayan Urf shyonarayan caste yadav sa. Deh khatedar
				275/562	Private	Banjar 1	30	Umrav Prabhudayal s/o Richhpai caste yadav Rahin Jaipur Thar Gramin Bank Branch Bhabhu Sa. Deh
				275/563	Private	Banjar 1	28	Somprakash s/o Mahaveer prasad Mahajan Sa. Phirajkhana Narnaul Distt. Mahendragarh Haryana sa. Deh
				264	Private	Banjar 1	44	Sawla kuay s/o ray caste yadav sa. Deh khatedar
						Total	1347	
			11. Bhabharu	658	Private	Chahi 1 Jaav 1	1355	Kana s/o Ghasee cast Jat
				660	Private	Chahi 1 Jaav 1	438	Kana s/o Ghasee cast Jat
				663	Private	Chahi 1 Jaav 1	646	Kansingh s/o Harchand singh cast Rajput sa. Deh khatedar Rahin Jaipur Nagaur Aanchlik Gramin Branch Bhabhu Murtheen
				664	Private	Jaav 2	632	Devisingh s/o Onkar singh Mu. Anoop Kavar Beva Onkar singh Rajput Rahin Jaipur Nagaur Aanchlik Gramin Branch Bhabhu Murtheen
				665	Private	Chahi 2 Jaav 2	550	Devisingh s/o Onkar singh Mu. Anoop Kavar Beva Onkar singh Rajput
				667	Government	Gair Mumkin Nala	285	Sivaychak
				668	Private	Chahi 1 Jaav 1	582	Sanjay d/o Thansingh Jatav Ni. 81/90 Neeigiri Marg Mansarovar Jaipur
				669	Private	Chahi 1 Jaav 1	818	Sanjay d/o Thansingh Jatav Ni. 81/90 Neeigiri Marg Mansarovar Jaipur
				670	Government	Gair Mumkin Nala	75	Sivaychak
				891	Private	Chahi A Jaav A	290	Vijay Chandrawat s/o Makkhan lal Meena Ni. Plat No. 185 Sector Chitrakoot Jaipur
				892	Private	Chahi A Jaav A	374	Rajpala w/o Ramu Maneesh s/o Ramu yadav sa. Sitapur
				893	Private	Chahi A Jaav A	25	Babulal s/o Onkar Jat sa. Deh
				894	Private	Barani A Jaav A	119	Arjun s/o Seva hissa 1/4 Onkar s/o Seva hissa 3/4 caste Jat sa. Deh Rahin Jaipur Nagaur Aanchlik Gramin Branch Bhabhu Murtheen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				921	Private	Chahi A Jaav A	1016	Madan singh Gopalisingh Narpatisingh Jasvant singh s/o Ramchand singh Sumer Kavar Beva Ramchandra singh Rajendra singh Nand singh Lalsingh Mukesh singh s/o Kishori singh Mu. Santosh Kavar Beva Kishori singh Ishwar singh s/o Kalyansingh Shyam Kavar w/o Kalyansingh Mohan singh Raghuveer singh s/o Bhanwar singh Suman kanwar Beva Bachan singh Roshan Kavar w/o Jaypalsingh Birju singh s/o Jaypalsingh Krashana Kavar Maneesha kavar Beva Jaypalsingh Dharmendra singh Na-Ba- s/o Jaypal singh Mitlesh kavar Rekha kavar na ba. d/o Jaypalsingh (Sanrakhak) Mata Roshan kavar w/o Jaypalsingh caste Rajpoot sa deh khatedar Harisingh Kirodi singh Babusingh s/o Chhitar singh Omkanwar Beva Chhitar singh hissa 1/2 Rajput Badri Hanuman Bhagvana Sardara Suva Shyamal Hajari Parta Jamna Beva Parta hissa 1/2 caste Jat sa. deh khatedar
				922	Private	Chahi A Jaav A	1092	Bhagvana s/o Parta hissa 3/4 gujarmal dattak dhoomal banarshi devi geeta devi santosh devi gindodi devi anchi devi mooli devi d/o dhoomal hissa 1/4 caste mahajan
				923	Private	Banjar Dol	177	Naroda Devi w/o Ramchandra hissa 1/12 Meena Omkar Arjun Phoola Jagdish s/o Mahadev hissa 1/6 Magiya s/o Gangliya hissa 1/4 Parta Prabhu Teja hissa 1/2 Mangla s/o Gangliya hissa 1/2 Lali Devi w/o Arjun hissa 1/12 cast Jat sa. Deh
				924	Private	Chahi A Jaav A	321	Chhitar Jagdeesh s/o Mahadev hissa 1/3 Arjun s/o Mahadev hissa 1/12 Mangla s/o Gangliya hissa 1/2 Lali Devi w/o Arjun hissa 1/12 caste Jat sa. Deh khatedar
				925	Private	Chahi A	312	Naroda Devi w/o Ramchandra Meeya hissa 1/3 Jagdeesh Chhitar s/o Mahadev hissa 2/3 Jat
				926	Government	Gair Mumkin Rasta	168	Sivaychak
				1081	Private	Banjar Dol Chahi 1	1211	Narayan s/o Jhutha caste Jat
				1082	Private	Chahi A	340	Narayan s/o Jhutha caste Jat
				1083	Private	Banjar Dol	148	Narayan s/o Jhutha caste Jat Batiya s/o Ruda jat
				1084	Private	Chahi A	500	Murari lai s/o Chhaju caste Sunar
				1085	Private	Chahi A	389	Murari lai s/o Chhaju caste Sunar
				1092	Private	Chahi A	172	Narayan s/o Jhutha caste Jat
				1093	Private	Banjar 2	400	Omkar s/o Mahadev caste Khati sa. Deh khatedar
				1094	Private	Banjar 2	266	Omkar s/o Mahadev caste Khati sa. Deh khatedar
				1095	Private	Chahi 1 Jaav A Banjar	495	Meera Joje Banshidhar caste khati sa. Deh khatedar
				1096	Private	Chahi A Jaav A	234	Hajari lai Babulal s/o Rameshwar prasad Dhanduram s/o Mangilal Shyamsundar s/o Chotelal sa. Deh khatedar
				1097	Private	Chahi A	182	Ramgopal Bhupendra s/o Sunar caste sharma sa. Deh khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1106	Government	Gair Mumkin Rasta	55	Sivaychak
				1138	Government	Gair Mumkin Rasta	30	Sivaychak
				1140	Private	Chahi 1 Jaav 1	10	Krishan kumar Deendayal caste Punjabi resident Ramnagar (Bheewani)
				1141	Private	Gair Mumkin Chah	10	Vijaypal s/o Devisayah Mahajan hissa 1/4 Pratapsingh s/o Sultan singh hissa 1/4 Suraj Kanwar Beva Bhanwar singh Pralad singh Dayasingh s/o Bhanwarsingh Kansingh s/o Hamathsingh Raghuveer singh Kalyansingh Kabulsingh Amarsingh s/o Madhosingh caste Rajput hissa 1/2
				1142	Private	Jaav 2	154	Rajesh Chouhan s/o Ramsingh Chouhan Rajput sa. Koleela (Sanga) Behror
				1143	Government	Gair Mumkin Nala	10	Sivaychak
				1144	Government	Gair Mumkin Nala	11	Sivaychak
				1145	Private	Chahi 1 Jaav 1	57	Pradeep Kumar s/o Amarsingh cast Raiger sa. Bidanpura Gali No. 31 Makan No. 3192 Karol Bag New Delhi
				1146	Private	Jaav 1	11	Pradeep Kumar s/o Amarsingh cast Raiger sa. Bidanpura Gali No. 31 Makan No. 3192 Karol Bag New Delhi
				1147	Private	Jaav 1	38	Pradeep Kumar s/o Amarsingh cast Raiger sa. Bidanpura Gali No. 31 Makan No. 3192 Karol Bag New Delhi
				1148	Government	Gair Mumkin Rasta	10	Sivaychak
				1149	Private	Chahi A Jaav A	18	Kailash s/o Chittar Meeya sa. Deh khaleedar
				1150	Private	Jaav A	66	Bhagirath Phoolchand Surajmal s/o Girdhari hissa 3/4 Rameshwar Jagdish Sedmal Chauthmal s/o Prabhat hissa 1/4 Dar hissa 1/2 Sunda s/o Balla hissa 1/2 Jat
				1151	Private	Banjar Dol	10	Bhagirath Phoolchand Surajmal s/o Girdhari hissa 3/4 Rameshwar Jagdish Sedmal Chauthmal s/o Prabhat hissa 1/4 Dar hissa 1/2 Sunda s/o Balla hissa 1/2 Jat
				1153	Private	Chahi A Jaav A	39	Bheru s/o Prabhat caste Jat Rahin Jaipur Nagaur Gramin Aanchlik bank Branch shahpura
				1154	Private	Barani	35	Jamburi Devi w/o Kailash chand meena
				1155	Private	Barani	62	Yasin s/o Abdul Rahman caste Musalman sa. Deh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1156	Government	Gair Mumkin Chah	43	Sivaychak
				1157	Private	Chahi 1 Jaav 1	11	Yasin s/o Abdul Rahman Luhar Mangla s/o Jeevan caste Jat Mahadev s/o Khanga Mangiya s/o Gangiya Omkar s/o Seva Prabhat s/o Seva jat Gurjmal s/o Ramdayal Muralilal s/o Bodilal Badri prasad Dhurmal s/o khayali ram caste mahajan sa. Deh Gair khatedar
				1158	Private	Chahi A Jaav A	231	Gurjar mal s/o Ramdayal Murali lai s/o Bodi lai Haridwari lai Babulal Late Roopkishan Mohan lai s/o Badri prasad Gurjmal s/o Dhurmal Banarsi Devi Geeta Devi Santo Devi Gindori Devi Anchki Devi Munni Devi D/o Dhurmal Mahajan
				1159	Private	Banjar Dol	20	Ramli Devi w/o Rudmal sa. Seetapur Soni Devi w/o Mularam resident Bad Nagar hissa 1/3 Omkar Anju Phoola Jagdish s/o Mahadev hissa 1/6 Parta s/o Teja Jat Harjan Phoola s/o Mahadev hissa 1/6 Jagdish s/o Mahadev hissa 1/6 Ramli Devi w/o Roodmal sa. Sitapur Sani Devi w/o Phoolaram resident Bad Nagar yadav hissa 1/3
				1160	Private	Chahi A Jaav A	43	Arun Phoola s/o Mahadev hissa 12/6 Jagdish s/o Mahadev hissa 1/6 Ramli devi w/o Rudmal hissa Sitapur Soni devi w/o Phoolaram resident Bad Nagar caste yadav hissa 2/3 Khatedar
				1161	Private	Chahi A	30	Ramli devi w/o Rudmal resident Sitapur Soni Devi w/o Mularam sa. Bad Nagar yadav
				1162	Government	Gair Mumkin Rasta	12	Sivaychak
				1222	Private	Chahi A Banjar Dol	122	Nirmala Mittal w/o Suresh chand Mittal Mahajan sa. Shahpura
				1224	Government	Gair Mumkin Rasta	13	Sivaychak
				1225	Government	Gair Mumkin Chatari	36	Sivaychak
				1226	Private	Chahi A	87	Kuldeep Aatre s/o Suresh chand Aatre hissa 128/775 Pushpa Devi w/o Jayshankar hissa 129/3100 Muralilal s/o Omkar hissa 55/658 Dar hissa 137/775 Chandra s/o Hardev hissa 446/658 Soni Devi w/o Late Omkar hissa 97/658 Chandrakala Beva Rameshwar hissa 80/658 Prabhati Devi w/o Sugla Urif Suganchand hissa 154/341 Dar hissa 161/165 Roodmal Banwarilal s/o Prabhudayal hissa 4/165 Dar hissa 75/155 Yadav Tophli devi W/o Hajarilal hissa 411/3100 caste sharma
				1230	Private	Chahi A Jaav A Banjar	54	Babu khan s/o Ameer khan Yakub khan s/o Rasul khan caste Luhar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1231	Private	Chahi A Jaav A Banjar Dol	74	Prahlad singh s/o Bhanwar singh hissa 2478/3400 Rajput Hemraj s/o Bihari lal hissa 28/3400 Prahlad sahay s/o Badri prasad hissa 165/3400 sa Kedarsingh s/o Bhoomsingh hissa 208/3400 Rajput Babul s/o Guljarlal hissa 250/3400 Rajbala w/o Moolchand hissa 23/3400 Kailash chand s/o Bodi lal 23/3400 Radhaysyam s/o Omkar khati hissa 225/3400 Brijmohan Omkar khati 58/4080 Gyanchand s/o Bheruram yadav hissa 50/4080 Sedumal s/o Choturam hissa 27/4080 Leelaram Bhagwan sahay s/o Gopiram hissa 3020/34000 caste khatik
				1233	Private	Banjar Dol	36	Bidami d/o Nanchu w/o Arjun resident Daira Jagdish Rameshwar Jaysingh Birda s/o Nanchu hissa 1/2 Gheesa s/o Shyonath hissa 1/2 caste Gurjar
				1234	Private	Jaav 1	50	Jagdish Rameshwar Jaysingh Birdaram s/o Nanchu Bidami d/o Nanchu w/o Arjun resident Daira caste Gurjar
				1235	Private	Chahi A Jaav A	42	Jagdish Rameshwar Jaysingh Birdaram s/o Nanchu Bidami d/o Nanchu w/o Arjun resident Daira caste Gurjar
				1236	Private	Chahi A	71	Jagdish Rameshwar Jaysingh Birdaram s/o Nanchu Bidami d/o Nanchu w/o Arjun resident Daira caste Gurjar
				1245	Private	Chahi A	149	Jagnath singh Amarsingh s/o Gora singh hissa 2/3 hissa Barabar Prem Kanwar w/o Kabulsingh Kishansingh Vikramsingh s/o Keshav singh Mantla Kanwar Manesha Kanwar d/o Kabulsingh hissa 1/15 Prahlad singh s/o Sanwatsingh hissa 1/15 Bannaram s/o Chittar hissa 7/510 Meena Mansingh Leelusingh Shersingh s/o Harisingh Soni d/o Harisingh Laxmi Devi Beva Harisingh hissa 1/15 Gokulsingh s/o Sanwatsingh hissa 1/25 Rajput Ramprakash s/o Banshidhar Pareek Ka hissa 1/75 Prem Devi Bannaram 1/75 Caste Meena
				1246	Private	Gair Mumkin Chah	23	Bairang singh Mohansingh Hanumansingh s/o Chittar singh Lad Kanwar Sohan Kanwar D/o Chittar Singh hissa 1/2 Jagnath singh Amarsingh s/o Jora hissa 1/3 Harisingh Kabulsingh Prahlad singh Gokulsingh Pappusingh s/o Sanwat singh hissa 1/6 Rajput
				1247	Private	Gair Mumkin Chah	15	Bairang singh Mohansingh Hanumansingh s/o Chittar singh Lad Kanwar Sohan Kanwar D/o Chittar Singh hissa 1/2 Jagnath singh Amarsingh s/o Jora hissa 1/3 Harisingh Kabulsingh Prahlad singh Gokulsingh Pappusingh s/o Sanwat singh hissa 1/6 Rajput

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1248	Private	Chahi A	123	Lad Kanwar Soni Kanwar d/o Chittar singh Bajrang singh Mohansingh Hanuman singh s/o Chittar singh Rajput
				1251	Government	Gair Mumkin Aabadi	100	Sivaychak
				1258	Private	Chahi A Jaav A	446	Sundari Beva Mula Hanuman Jagdish Rameshwar Sugla Rohitash Mula hissa 11/13 Jat Randhir s/o Meharchand Jat Maan singh s/o Bhimsingh Meena hissa 2/13
				1260	Government	Gair Mumkin Aabadi	258	Sivaychak
				1261	Government	Barani 2	21	Sivaychak
				1262	Private	Barani 3	23	Tara devi w/o Tarachand hissa 97214/130000 Bidami devi w/o Late Bharatmal hissa 32789/130000 caste Raigar
				1254	Private	Barani Dol	12	Sundri Beva Mula Hanuman Jagdish Rameshwar Sugla s/o Mula hissa 5/6 Rohitash Mula hissa 1/6 Jat
				1263	Private	Barani 3	16	Tara devi w/o Tarachand hissa 97214/130000 Bidami devi w/o Late Bharatmal hissa 32789/130000 caste Raigar
				1264	Private	Barani 3	16	Nathu s/o Gheesa Nath Jogi
				1265	Private	Barani 3	30	Jagdish Prasad s/o Heeralal Raigar
				1266	Private	Barani 3	63	Jagdish Prasad s/o Heeralal Raigar
				1267	Government	Barani 2	85	Sivaychak
				1268	Government	Barani 2	430	Sivaychak
				1269	Government	Gair Mumkin Sadak	158	Public Works Department (Road)
				1274	Government	Gair Mumkin Rasta	75	Public Works Department (Road)
				1275	Private	Chahi 1	114	Sultan Richhpal Phoolaram Sardara s/o Debu Jadav Beva Debu Meena
				1276	Government	Barani 2	55	Sivaychak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1277	Private	Banjar Dol Chahi 1	48	<p>Hanuman s/o Chand hissa 1/2 Ramjilal Ramkuwar Hari Girdhan s/o Hardev Sujree d/o Baliya Banarsi w/o Bhanwra Mallam</p> <p>Sujyani Umrao Pappu Prakash s/o Bhanwra Kamli Manni Geeta Sumitra d/o Bhanwra Gheesa d/o Nanga Sultan Richhpai</p> <p>Phoolaram Sardamal s/o Debu Jadav Devi Beva Debu meena Sugla s/o Gopal Gulabi w/o Late Gheesa Banshi Leelaram</p> <p>Sureshchand Pappu Bodu s/o Gheesa Kamli Devi Meera Devi d/o Gheesa Gora Devi Dadi Devi d/o Bhura Gairdi Devi w/o Habula Dhuda Mannu Sedu Suresh s/o Habula Santi Devi Koyli Devi</p> <p>Rameshi Devi Panchi Devi d/o Habula Phooli w/o Nathu Soni Devi d/o Nathuram Ramkaran Savta s/o Nanchu panchi w/o Sugna Prem chand s/o Sugna Banarsi Devi w/o Richhpai Dinesh Mallam</p> <p>Narendra s/o Richhpai Bhagwana s/o Ruda Moharsingh Ramivash Meharchand s/o Panchu Anoph Santi Roshni d/o Panchu Sharvan Beva Panchu Ramsingh Harisingh Mahesh chand s/o Shyodan Mishri Beva Shyodan Gulab chand Jagdish Babulal s/o Chotu Surendra Vikram Puran s/o Prabhu Meena</p>
				2002	Private	Chani 2 Jaav 2	85	<p>Hanuman s/o Chand hissa 1/2 Ramjilal Ramkuwar Hari Girdhan s/o Hardev Sujree d/o Baliya Banarsi w/o Bhanwra Mallam</p> <p>Sujyani Umrao Pappu Prakash s/o Bhanwra Kamli Manni Geeta Sumitra d/o Bhanwra Gheesa d/o Nanga Sultan Richhpai</p> <p>Phoolaram Sardamal s/o Debu Jadav Devi Beva Debu meena Sugla s/o Gopal Gulabi w/o Late Gheesa Banshi Leelaram</p> <p>Sureshchand Pappu Bodu s/o Gheesa Kamli Devi Meera Devi d/o Gheesa Gora Devi Dadi Devi d/o Bhura Gairdi Devi w/o Habula Dhuda Mannu Sedu Suresh s/o Habula Santi Devi Koyli Devi</p> <p>Rameshi Devi Panchi Devi d/o Habula Phooli w/o Nathu Soni Devi d/o Nathuram Ramkaran Savta s/o Nanchu panchi w/o Sugna Prem chand s/o Sugna Banarsi Devi w/o Richhpai Dinesh Mallam</p> <p>Narendra s/o Richhpai Bhagwana s/o Ruda Moharsingh Ramivash Meharchand s/o Panchu Anoph Santi Roshni d/o Panchu Sharvan Beva Panchu Ramsingh Harisingh Mahesh chand s/o Shyodan Mishri Beva Shyodan Gulab chand Jagdish Babulal s/o Chotu Surendra Vikram Puran s/o Prabhu Meena</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2007	Private	Chahi 2 Jaav 2	57	<p>Topthi devi w/o Ramjeelal Antar devi w/o Ramkuwar Kaushiya devi w/o Hareeram lelee d'vi w/o Girdharilal hissa 1/2 Ramjeelal Ramkuwar Hari Girdhari s/o Hardev Surji D/o Baiya w/o Banarsi w/o Bhanwra Maliram Surgyani Umrao Pappu Prakash s/o Bhanwra Kamli Manni Geeta Sumitra d/o Bhanwra Ramjeelal Ramkuwar Hari Girdhari s/o Hardev hissa 1/8 Sultan Richhpai Phoolaram Sardarmal s/o Debu Jadav Devi Beva Debu meena Sugla s/o Gopal Gulabi w/o Late Gheesa Banshi Leelaram Suresh chand Pappu Bodu Gheesa s/o Gheesa Kamli devi Meera devi d/o Gheesa Gora devi d/o Bhura Gandi devi w/o Habula Dhuda Mannu Sedu Suresh S/o Habula Phooli w/o Devi Koyali Devi Rameshi Devi Panchi Devi D/o Habula Phooli w/o Nathu Sini devi w/o Nathuram Ramkaran sawta s/o Nanchu Panchi w/o Sugna Prem chand s/o Sugna Banarsi devi w/o Richhpai Dinesh Maliram Narendra s/o Richhpai Bhagwana s/o Ruda Moharsingh Ramniwas Meharchand s/o Panchu Anoph Santi Roshni d/o Panchu Sarvan beva Panchu Ramsingh Harisingh Mahesh chand s/o Shyodan Misri beva shyodan Gulab chand Jagdeesh Babulal s/o Chhotu Surendra Vikram Puran s/o Prabhu meena</p>
				1278	Private	Barani 2	26	<p>Haruman s/o Chand hissa 1/2 Ranjilal Ramkuwar Hari Girdhari s/o Hardev Sujree d/o Baiya Banarsi w/o Bhanwra Maliram Surgyani Umrao Pappu Prakash s/o Bhanwra Kamli Manni Geeta Sumitra d/o Bhanwra Gheesa d/o Nanga Sultan Richhpai Phoolaram Sardarmal s/o Debu Jadav Devi Beva Debu meena Sugla s/o Gopal Gulabi w/o Late Gheesa Banshi Leelaram Sureshchand Pappu Bodu s/o Gheesa Kamli Devi Meera Devi d/o Gheesa Gora Devi Daddi Devi d/o Bhura Gairdhi Devi w/o Habula Dhuda Mannu Sedu Suresh s/o Habula Santi Devi Koyli Devi Rameshi Devi Panchi Devi d/o Habula Phooli w/o Nathu Sini Devi d/o Nathuram Ramkaran Sawta s/o Nanchu Panchi w/o Sugna Prem chand s/o Sugna Banarsi Devi w/o Richhpai Dinesh Maliram Narendra s/o Richhpai Bhagwana s/o Ruda Moharsingh Ramniwas Meharchand s/o Panchu Anoph Santi Roshni d/o Panchu Sarvan Beva Panchu Ramsingh Harisingh Mahesh chand s/o Shyodan Mishri Beva Shyodan Gulab chand Jagdish Babulal s/o Chotu Surendra Vikram Puran s/o Prabhu Meena</p>
				1279	Government	Gair Mumkin Dhani	12	Sivaychak
				1283	Private	Chahi A Banjar Dol	386	<p>Jagannath singh Amarsingh s/o Joravar singh hissa 2/3 Prem Kanwar w/o Kabulsingh Kishan singh Vikram singh S/o Kabulsingh Mamta Kanwar Manisha Kanwar d/o Kabul hissa 1/15 Prahlad singh Gokalsingh Pappu singh S/o Sanwat singh hissa 1/5 Maansingh Leelu singh Sher singh S/o Hari singh Sonu D/o Hari singh Laxmi Devi Beva Hari singh 1/15 Rajput</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1284	Private	Chahi A Jaav A	596	Prahlad singh Ramsingh s/o Bhanwar singh Maktul kanwar Pepkanwar Saroj kanwar Jagroop kanwar Vimla kanwar d/o Bhanwarsingh hissa 1/3 Prahlad singh Ramsingh s/o Bhanwarsingh hissa 2/3 caste Rajput
				1285	Private	Chahi A Jaav A	754	Gheesa s/o Shyonath Gurjar
				1286	Private	Chahi 1 Jaav 1	394	Gheesa s/o Shyonath Gurjar
				1287	Private	Chahi A Jaav A	89	Jagdish Rameshwar Jaysingh Birda s/o Nathu Bidami d/o Nathu w/o Arjun resident Daira caste Gurjar
				1323	Government	Gair Mumkin Rasta	84	Sivaychak
				1324	Private	Chahi A	652	Kaushiya devi w/o Kailash chand Agrawal resident Chitoli Kalpa w/o Mahendra kumar Agrawal resident Neemuchana teh. Bansur
				1354	Private	Chahi A	199	Jagannath singh Amarsingh s/o Joravar singh hissa 2/3 Prem Kanwar w/o Kabulsingh Kishan singh Vikram singh S/o Kabulsingh Mamta kanwar Manisha kanwar d/o Kabul hissa 1/15 Prahlad singh Gokalsingh Pappu singh S/o Sanwat singh hissa 1/5 Maarsingh Leelu singh Sher singh S/o Hari singh Sonu D/o Hari singh Laxmi Devi Beva Hari singh 1/15 Rajput
				1355	Private	Chahi A	397	Banwari s/o Prabhu Urf Prabhat Raigar
				1356	Private	Chahi A Jaav 1	15	Raghuveer singh Kabulsingh Amarsingh s/o Madhosingh hissa 3/4 Bila Rehan Mangej kanwar w/o Late Kalyansingh Arjun Bheemsingh s/o Kalyansingh Rajput Rahin Jaipur Gramin Aanchlik Bank Branch Bhabhu Murtheen hissa 1/4
				1358	Government	Gair Mumkin Rasta	360	Sivaychak
				1359	Private	Chahi A Jaav A	983	Kanta devi w/o Rajesh Bhat resident Kumrod teh. Rewari
				1361	Private	Chahi A Jaav A Banjar A	592	Sundri Beva Mula Hanuman Jagdish Rameshwar Sugna s/o Mula hissa 5/6 Rohitash s/o Mula hissa 1/6 caste Jat
				1369	Private	Chahi A Jaav A	627	Sundri Beva Mula Hanuman Jagdish Rameshwar Sugna s/o Mula hissa 5/6 Rohitash s/o Mula hissa 1/6 caste Jat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1370	Private	Barani 3	101	Sundi Beva Mula Hanuman Jagdish Rameshwar Sugna s/o Mula hissa 5/6 Rohitash s/o Mula hissa 1/6 caste Jat
				1373	Government	Barani	1022	Sivaychak
				1374	Private	Barani 3	538	Jadi devi w/o Late Ramjeelal Pooja Rekha Annu d/o Ramjeelal Vikas Badal s/o Ramjeelal caste Raigar
				1377	Private	Barani 3 Banjar Dol	376	Jadi devi w/o Late Ramjeelal Pooja Rekha Annu d/o Ramjeelal Vikas Badal s/o Ramjeelal caste Raigar hissa 20/57 caste Raigar Kanta Devi w/o Vinay Nagpal khatri Ram Gali Raja Park Jaipur hissa 37/57
				1378	Private	Barani 3	555	Kanta w/o Vinay Nagpal khatri
				1379	Private	Barani 2	435	Raja Devi w/o Phoolanath Nath Sitaram Ominath Jagdish Nath Ramnivas s/o Phoolanath Kamli Kali Sugna d/o Phoolanath hissa 9/16 Jogi Kanta w/o Vinay Nagpal khatri hissa 7/16
				1380	Private	Barani 2	189	Raja Devi w/o Phoolanath Nath Sitaram Ominath Jagdish Nath Ramnivas s/o Phoolanath Kamli Kali Sugna d/o Phoolanath
				1386	Private	Chahi 1	364	Raja Devi w/o Phoolanath Nath Sitaram Ominath Jagdish Nath Ramnivas s/o Phoolanath Kamli Kali Sugna d/o Phoolanath
				1387	Private	Barani 2	905	Raja Devi w/o Phoolanath Nath Sitaram Ominath Jagdish Nath Ramnivas s/o Phoolanath Kamli Kali Sugna d/o Phoolanath
				1397	Private	Chahi 1 Jaav 1	455	Gopiram s/o Ranjeet Meena resident Chatarpura Khatedar
				1398	Private	Chahi 1	400	Rampratap s/o Bheruram hissa 1/2 Meena resident 14 Nursuary Tonk Road Jaipur Hanuman s/o Mu. Chandra hissa 1/8 Banarsi Bhauriya Maliram Surgyani Umrao Pappu Prakash Rampal s/o Bhauriya Kamla Manni Geeta Sumitra Yogiya Surji Balya Gheesa Nanga Sultan Richhpal Phoolaram Sardarmal s/o Debu Jadav Beva Debu 1/2 sa. deh
				1399	Private	Chahi 1	100	Dayala s/o Prabhat hissa 2 Aana 3 Pai Hanuman s/o Mu. Chandra Banarsi w/o Late Bhura Maliram Surkyani Pappu Prakash Rampal s/o Bhauriya kamla manni geeta Sumitra d/o Bhauriya Surji w/o Balya Ramjeelal Ramkuwar Hariram Girdhari s/o Hardev Manbharti d/o Hardev Birdi beva Hardev Gheesa d/o Nanga hissa 12 Aana 1 Pai caste meena sa deh khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1400	Private	Gair Mumkin Chah	96	Dayala s/o Prabhat hissa 2 Aana 3 Pai Hanuman s/o Mu. Chandra Banarsi w/o Late Bhura Maliram Surkyani Pappu Prakhash Rampal s/o Bhauriya kamla manni geeta Sumitra d/o Bhauriya Suji w/o Balya Ramjeelal Ramkuwar Hariram Girdhari s/o Hardev Manbhari d/o Hardev Birdi beva Hardev Gheesa d/o Nanga hissa 12 Aana 1 Pai caste meena sa deh khatedar
				1401	Private	Chahi A	417	Hanuman s/o Mu. Chandra Meena
				1402	Private	Chahi 1	693	Dayaram s/o Prabhat Meena
				1406	Private	Banjar Dol Chahi 1	286	Gopiram s/o Ranjeet Meena resident Chatarpura Khatedar
				1407	Private	Chahi 1 Jaav 1	412	Chimna Kalya Ramsha s/o Dhudha caste Meena
				1408	Private	Chahi 1 Jaav 1	385	Gopiram s/o Ranjeet Meena resident Chatarpura Khatedar
				1426	Private	Chahi 1 Jaav 1	242	Chimna Kalya Ramsha s/o Dhudha caste Meena
				1427	Private	Chahi 1 Jaav 1	447	Narbda Devi w/o Ramchandra 1/6 Gulli Devi w/o suvalal 1/100 jaisa Hajari s/o Suva 1/50 Bheru Omi s/o Sardara Muli Uganta Sita d/o Sardara 1/100 Kaushya d/o Suva 1/100 Sonilal s/o Gorya 1/4 Shanti Beva Chittar Gangadhar Banna Kailash s/o Chittar 1/5 Rabda Sona s/o Hardev 1/3 Meena
				1434	Private	Chahi 1 Jaav 1	22	Sugla s/o Gopal Gulabi w/o Gheesa Banshi Leelaram Sureshchand Pappu Bodu s/o Gheesa Kamli Devi Meera Devi d/o Gheesa Gora Devi Dadki Devi d/o Bhura Gairdi Devi w/o Habula Dhura Mannu Sedu Suresh s/o Habula Santi Devi Koyali Devi Rameshi Devi Panchi Devi d/o Habula Phooli w/o Nathu Soni Devi d/o Nathuram Ramkaran Savla s/o Nanchu panchi w/o Sugna Prem chand s/o Sugna Banarsi Devi w/o Richhpai Dinesh Maliram Narendra s/o Richhpai Bhagwana s/o Ruda Moharsingh Ramniwas Meharchand s/o Panchu Anoph Santi Roshni d/o Panchu Sharvan Beva Panchu Harisingh Maheshchand s/o Shyodan Mishri Beva Shyodan Gulab chand Jagdish Babulal s/o Chotu Surendra Vikram Puran s/o Prabhu Meena
				1435	Private	Chahi 1 Jaav 1	500	Gori devi d/o Bhura Santi Devi d/o Habula Rampratap Meena s/o Bheruram Meena resident P 14 Meena Nursuary Tonk Road Jaipur
				1436	Private	Chahi 1	450	Gori devi d/o Bhura Santi Devi d/o Habula Rampratap Meena s/o Bheruram Meena resident P 14 Meena Nursuary Tonk Road Jaipur
				1437	Private	Chahi 1 Jaav 1	383	Matadeen s/o Nanu Meena
				1438	Private	Chahi 1	227	Matadeen s/o Nanu Meena

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1439	Private	Chahi 1 Jaav 1	120	Rampratap s/o Bheruram resident 14 Meena Nursuary Tonk Road Jaipur Gori devi d/o Bhura Santi Devi d/o Habula Meena
				1440	Government	Barani 3	398	Public Works Department
				1441	Private	Barani 3	11	Rampratap s/o Bheruram resident 14 Meena Nursuary Tonk Road Jaipur Gori devi d/o Bhura Santi Devi d/o Habula Meena
				1442	Private	Barani 3	611	Hanuman s/o Chanda caste Meena
				1477	Private	Barani 3	20	Hanuman s/o Mu. Chandra hissa 9 Aana 4 Pai+Hissa 1/2. dar hissa 3 Aana 4 Pai Banarsi w/o Bhaura Maliram Surgyani Umrao Pappu Prakash Rampal s/o Bhanwra Karnia Manni Geeta Sumitra d/o Bhaura Surji d/o Balya hissa 1/2 dar hissa 3 Aana 4 Pai Sultan Richhpai Phoolaram Sardamal s/o Debu Jadav beva Debu hissa 1 Aana 4 Pai dar hissa 12 Aana 2 Pai Dayala s/o Prabhat hissa 2 Aana caste meena a .deh khatedar
				1478	Private	Barani 3	1103	Rampratap meena s/o Bheruram resident 14 Meena Nursuary Tonk Road Jaipur hissa 1272 Prahlad Hajari Rajendra Suresh s/o Hanuman hissa 6072 caste Meena
				1480	Private	Barani 3	360	Hanuman s/o Chandra hissa 3/4 Sultan Richhpai Phoolaram Sardamal s/o Debu Jadav Devi Beva Debu hissa 1/4 caste Meena
				1481	Private	Banjar Dol	876	Hanuman s/o Chandra Binla Devi W/o Mularam Meera devi w/o Muralil Sanju devi Shubhash hissa 3/16 Ramesh s/o Richhpai hissa 1/16 Gheesa Habula s/o Bhura Lichhman s/o Gangu Kanhaiyalal Surjan Ramkaran s/o Mula Jora Sarbati Chameli Saroj d/o Mula Ramkishor Ashok Shubhash Sohanlal s/o Bhageerath Muresh Hanso d/o Bhageerath Ramsi d/o Dhundha Matadeen Rohitash Gopal s/o Prabhu Geeta devi Shushila devi d/o Pabhu Meena

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1482	Private	Banjar Dol	3433	Rajendra s/o Sultan hissa 1/5 sa. Gram Mehda Jatowas teh. Khetri Vimla devi w/o Mularam Meera devi w/o Murarilal Sanju devi w/o Shubhash hissa 3/16 Ramesh s/o Richhpal hissa 1/16 Gulab devi w/o Gheesa Banshi Leelaram Susharam Chandaram Pappuram Boduram S/o Gheesa Kamli Meera d/o Gheesa Gandi devi w/o Habura Dhuraram Mulchand Suresh Sedaram s/o Habura Koyali Shanti devi Ramesh singh Panchi Prem d/o Habura Licchman s/o Gangu Kanhaiyalal Surajmal Ramkaran s/o Mula Ramkishor Ashok Shubhash Sohanlal s/o Bhageerath Munesh Hanso d/o Bhageerat Revti beva Bhageerth Jora Sarbat Chameli Saroj d/o Mula Ramshi D/o Dhunda Rohitash Matadeen Gopal s/o Prabhu Geeta devi Sushila devi d/o Prabhu caste Meena
				1519	Government	Gair Mumkin Nala	564	Sivaychak
				1639	Private	Barani 2	26	Suresh chand Prakash chand s/o Banshidhar Caste yadav
				1685	Private	Chahi 2 Jaav 2	63	Suresh chand Prakash chand s/o Banshidhar Caste yadav
				1686	Private	Chahi 2 Jaav 2	41	Suresh chand Prakash chand s/o Banshidhar Caste yadav
				1687	Private	Chahi 2	31	Ramkuwar Ramnivas Bheeva s/o Mula , Sanya Beva Mula caste Gurjar
				1688	Private	Banjar 1	80	Mamraj Girchari Gheesa s/o Hamanda Prabhudayal Rohitash Kalvan sahay s/o Arjun Gurjar
				1692	Private	Barani 3	19	Pagrist Wallist Developers Private Limited janiye Authorized Signatory Sunil Kumar Mittal s/o Hukam chand Mittal resident 283 A.G.C.R. Enclave Kankad Daduma Delhi
				1709	Private	Barani 3	161	Jayram s/o Ganpat hissa 1/3 Keshri Devi w/o Govindram Ganpat Govindram Richhpal s/o Nathu caste Gurjar sa. Deh hissa 2/3
				1710	Private	Barani 3	24	Ganpat Govindram Richhpal s/o Nathu caste Gurjar sa. Deh
				1989	Private	Barani 2	66	Prabhati Devi w/o Late Dhunaram Sharvan Devi w/o Harnath Kamli Devi w/o Arjun Bhanwan devi w/o Badri hissa 1/3 Gaiindi devi w/o Bhomaram Sharvan devi w/o Chheetar hissa 1/3 Dhundha devi w/o Mukanda Koyali devi Panchuram hissa 1/3 der hissa 1/2 Jagdeesh Banshi s/o Chhaju Rudi Beva Chhaju hissa 1/2 caste Gurjar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1990	Private	Barani 2	129	Hanath s/o Dhanna hissa 1/8 Rahin Jaipur Aanchlik Gramin Bank Branch Bhabhru Murtheen Dhunai am Badri s/o Dhanna hissa 1/4 Kamli w/o Ramkuwar Sadhuram Beerbal s/o Arjun Patasi Keeri Meena Hansa d/o Arjun hissa 1/8 Jagdeesh Banshi s/o Chhaju Rudi Beva Chhaju hissa 1/2 caste Gurjar sa deh khatedar
				1991	Private	Barani 2	14	Hanath s/o Dhanna hissa 1/8 Rahin Jaipur Aanchlik Gramin Bank Branch Bhabhru Murtheen Dhunaram Badri s/o Dhanna hissa 1/4 Kamli w/o Ramkuwar Sadhuram Beerbal s/o Arjun Patasi Keeri Meena Hansa d/o Arjun hissa 1/8 Jagdeesh Banshi s/o Chhaju Rudi Beva Chhaju hissa 1/2 caste Gurjar sa deh khatedar
				1999	Private	Barani 2	116	Ranjeelal Ramkuwar Hariram Girdhari s/o Hardev Meena caste Meena
				2009	Private	Jaav 2	90	Naroda Devi w/o Ramchandra caste Meena
				2010	Private	Chahi 2	52	Naroda Devi w/o Ramchandra caste Meena
				2017	Government	Gair Mumkin Nadi	364	Sivaychak
				2018	Government	Gair Mumkin Nadi	47	Sivaychak
				2019	Private	Barjar 1	89	Kakuram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari lai hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun lai Lakhanlal Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2024	Private	Barani 3	32	Kakuram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari lai hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun lai Lakhanlal Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2025	Private	Barani 3	88	Kakuram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari lai hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun lai Lakhanlal Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2026	Private	Barani 2	142	Kakuram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari lai hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun lai Lakhanlal Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2029	Private	Barani 2	148	Kakuram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari lai hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun lai Lakhanlal Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2032	Private	Barani 2 Banjar 1	70	Kaloram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari Lal hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun Lal Lakhnail Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2033	Private	Barani	78	Kaloram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari Lal hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun Lal Lakhnail Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2035	Private	Barani	181	Kaloram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari Lal hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun Lal Lakhnail Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2036	Private	Barani	45	Kaloram Bheruram Jagdeesh Prasad s/o Govinda hissa 1/2 Bodi Devi w/o Late Girdhari Lal hissa 1/22 Banshidhar Bhagwansahay Arjun Lal Lakhnail Prahlad sahay Pokharmal s/o Girdhari hissa 5/11 caste Gurjar
				2047	Government	Gair Mumkin Rasta	25	Sivaychak
				2048	Private	Barani	52	Mohendra singh s/o Sardar Makkhan singh caste Jat Sikh resident A. 13/1 Basant Bihar New Delhi
				2049	Private	Barani	147	Hanuman Richpal s/o Bhagwana hissa 2/3 Sharvan Beva Leelaram Rakesh Mukesh s/o Leelaram hissa 1/3 caste Gurjar
				2050	Private	Barani	133	Hanuman Richpal s/o Bhagwana caste Gurjar
				2051	Private	Barani	105	Nanagram s/o Natthuram hissa 1/4 Hariram Gadaram s/o Nathuram hissa 1/2 Chittarmal Purnamal Sundarlal s/o Boduram hissa 7/32 Surji Devi Geeta Devi Sush Devi d/o Boduram hissa 1/32 caste Gurjar
				2054	Private	Barani	104	Nanagram s/o Natthuram hissa 1/4 Hariram Gadaram s/o Nathuram hissa 1/2 Chittarmal Purnamal Sundarlal s/o Boduram hissa 7/32 Surji Devi Geeta Devi Sush Devi d/o Boduram hissa 1/32 caste Gurjar
				2133	Private	Barani	10	Prabhat s/o Umda caste Gurjar
				2138	Private	Barani	43	Nanagram s/o Natthuram hissa 1/4 Hariram Gadaram s/o Nathuram hissa 1/2 Chittarmal Purnamal Sundarlal s/o Boduram hissa 7/32 Surji Devi Geeta Devi Sush Devi d/o Boduram hissa 1/32 caste Gurjar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2139	Private	Barani	95	Nanagram s/o Natthuram hissa 1/4 Hariram Gadaram s/o Natthuram hissa 1/2 Chittamal Purnamal Sundarlal s/o Boduram hissa 7/32 Surji Devi Geeta Devi Sushil Devi d/o Boduram hissa 1/32 caste Gurjar
				2140	Private	Barani	144	Nanagram s/o Natthuram hissa 1/4 Hariram Gadaram s/o Natthuram hissa 1/2 Chittamal Purnamal Sundarlal s/o Boduram hissa 7/32 Surji Devi Geeta Devi Sushil Devi d/o Boduram hissa 1/32 caste Gurjar
				1092/4423	Private	Chahi	56	Narayan s/o Jhutha Caste Jat
				1222/4395	Private	Banjar	12	Shyosahay s/o Balla hissa 1/5 Ganga Devi w/o Moolchand hissa 4/5 caste Jat
				1232/4389	Government	Gair Mumkin Sadak	12	Sivaychak
				1251/4541	Private	Banjar Dol	10	Jagannath singh Amarsingh s/o Jorasingh hissa 2/3 Prem Kanwar W/o Kabul singh Kushan singh S/o Kabul Singh Manta Kanwar Manisha Kanwar D/o Kabul singh hissa 1/15 Prahlad singh Gokal singh Pappu singh S/o Sarwat singh hissa 1/5 Maan singh Leelu singh Sher singh S/o Hari singh Sonu D/o Hari singh Laxmi Devi Beva Hari singh hissa 1/15 caste Rajput sa deh Khatedar
				1482/4556	Government	Gair Mumkin Chah	125	Sivaychak
				1630/4461	Private	Barani	93	Hamath s/o Dhanna hissa 1/8 Rahin Jaipur Nagaur Aanchlik Bank Branch Bhabru Murtheen Dhunaram Badri s/o Dhanna hissa 1/4 Kamli w/o Ramkuwar Sadhuram Beerbal s/o Arjun Patasi Kesri Meena Hansa d/o Arjun hissa 1/8 Jagdish Banshi s/o Chhaju Rudi Beva Chhaju hissa 1/2 caste Gurjar
				1635/4559	Private	Banjar	111	Tejaram S/o Khargaram hissa 11/31 caste meena Sedi devi W/o Ganesh Gyansilal S/o Ganesh hissa 20/31 caste meena
				1630/4310	Private	Barani	136	Mamraj Girdhari Gheesa s/o Hamanda Prabhudayal Rohitash Kalyansahay s/o Arjun Rudi w/o Arjun caste meena
				1708/4562	Government	Gair Mumkin Nala	20	Sivaychak
				2133/4307	Private	Barani	20	Hanuman Richhpai s/o Bhagwana caste Gurjar
				893/4337	Private	Barani	300	Babulal s/o Omkar Caste Jat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Total	45224	
			12. Khatolai	900	Private	Barani 2	25	Siman kanwar Beva Bane singh Ugarn kanwar Madhu kanwar Jaykanwar d/o Narayansingh Lalita kanwar w/o Bherusingh Anju kanwar Seema kanwar d/o Bherusingh Shaktisingh Bajrang singh s/o Bheru singh Bhagwan singh s/o Banasingh Phoolkanwar Beva w/o Harisingh Bhageerath singh Ramsingh Madansingh s/o Harisingh caste Rajput sa. deh
				901	Private	Chahi 2	36	Siman kanwar Beva Bane singh Ugarn kanwar Madhu kanwar Jaykanwar d/o Narayansingh Lalita kanwar w/o Bherusingh Anju kanwar Seema kanwar d/o Bherusingh Shaktisingh Bajrang singh s/o Bheru singh Bhagwan singh s/o Banasingh Phoolkanwar Beva w/o Harisingh Bhageerath singh Ramsingh Madansingh s/o Harisingh caste Rajput sa. deh
				903	Government	Gair Mumkin Rasta	14	Sivaychak Bila Lagani
				908	Private	Barani 1	164	Mohra w/o Rameshwar Prasad Jat sa. Deh khatedar
				909	Private	Barani 1	165	Nathi w/o Motiram caste Jat sa. Deh khatedar
				910	Private	Barani 1	224	Balbir singh Bijar singh s/o Hajari singh Kanta kanwar Manish kanwar d/o Hajarsingh Shushila w/o Hajari singh caste Rajput sa. Deh
				913	Private	Barani 1	207	Prag Mehta Alok Mehta s/o Surendra kumar Mehra caste Mahajan resident Gurgaon Haryana
				914	Private	Barani 1	176	Prag Mehta Alok Mehta s/o Surendra kumar Mehra caste Mahajan resident Gurgaon Haryana
				919	Private	Chahi 2	75	Rashmi Jain w/o Ramesh kumar Jain resident Satya vihar colony Lalkoti Jaipur
				920	Private	Chahi 2	40	Ramesh kumar Jain s/o Ugarn Raj Jain resident Satya vihar Colony Lal Koti Jaipur
				921	Private	Barani 2	34	Rishal singh s/o Sultan singh caste Rajput sa. Deh khatedar
				923	Private	Barani 2	36	Rishal singh s/o Sultan singh caste Rajput sa. Deh khatedar
				924	Private	Barani 2	33	Moolsingh s/o Sultan singh caste Rajput sa. Deh khatedar
				927	Private	Barani 2	29	Moolsingh s/o Sultan singh caste Rajput sa. Deh khatedar
				1020	Private	Barani 2	292	Umrao singh Bherusingh s/o Bhanwarsingh hissa 1/4 Indar singh s/o Kansingh hissa 1/4 Prem singh s/o Gopal singh hissa 1/16 Rangopal s/o Rameshwar prasad Sharma hissa 7/16 sa. Deh Khatedar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1021	Private	Barani 2	1171	Bagam s/o Mularam hissa 144/276 Shubhash chand s/o Govindram, hissa 132/278 Sujar sa. Deh
				1022	Private	Barani 2	646	Umrao singh Bherusingh s/o Bhanwarsingh hissa 1/4 Inder singh s/o Kansingh hissa 1/4 Ramgopal s/o Rameshwar prasad sharam hissa 1/2 sa- deh
				1023	Private	Barani 3	620	Umrao singh Bherusingh s/o Bhanwarsingh hissa 1/4 Inder singh s/o Kansingh hissa 1/4 Ramgopal s/o Rameshwar prasad sharam hissa 1/2 sa- deh
				1024	Private	Barani 3	926	Umrao singh Bherusingh s/o Bhanwarsingh hissa 1/4 Inder singh s/o Kansingh hissa 1/4 Ramgopal s/o Rameshwar prasad sharam hissa 1/2 sa- deh
				1032	Private	Chahi 2	273	Umrao singh Bherusingh s/o Bhanwarsingh hissa 1/4 Inder singh s/o Kansingh hissa 1/4 Ramgopal s/o Rameshwar prasad sharam hissa 1/2 sa- deh
				1033	Private	Barani 1	902	Umrao singh Bherusingh s/o Bhanwarsingh hissa 1/4 Inder singh s/o Kansingh hissa 1/4 Ramgopal s/o Rameshwar prasad sharam hissa 1/2 sa- deh
				1034	Private	Barani 1	611	Chaganlal s/o Seduram caste Jat
				1037	Private	Chahi 1	56	Mohan w/o Rameshwar Prasad 1/3 Nathi w/o Motiram 1/3 Gansb w/o Purnamal 1/3 Jat resident Kehorpur
				1126	Government	Barani 1	1145	Keshar singh s/o Sardar singh caste Rajput
				1127	Government	Barani 1	42	Sivaychak Legani
				709/2224	Government	Barani 3	20	Sivaychak Legani
						Total	7002	Charesah
				483	Government	Barani 1	140	
			13. Soorpura	494	Government	Barani 1	20	Van Vibhag
				500	Government	Barani 3	40	Van Vibhag
						Total	200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			14. Lilo Ka Vas	444	Private	Barani 3	20	Sundri Beva Bhura Maliram s/o Bhura caste Jat sa. Deh Khatedar
				450	Private	Barani 3	100	Kaloram s/o Rugga hissa 1/6 Chima s/o Bhagwaniya hissa 1/6 Bhanvniya s/o Rupla hissa 1/6 Gokal chand s/o Jeevanram caste Bhand resident Gathwadi teh Jamvarangarh hissa 1/18 Kajodmal S/o Sohanlal hissa 1/9 caste Balai resident Madho ka bass Teh. Shahpura Lakkha s/o Ladu hissa 1/6 Rajendra prasad s/o Gangaram Bairwa caste Balai resident Mangalpur palam Delhi 45 hissa 31/205 Prabhat s/o Panna hissa 1/18 Chittamal s/o Panna hissa 1/18 Maliram s/o Panna hissa 1/18 dar hissa 19/1230 caste Raigar
				452	Private	Barani 3	90	Kaloram s/o Rugga hissa 1/6 Chima s/o Bhagwaniya hissa 1/6 Bhanvniya s/o Rupla hissa 1/6 Gokal chand s/o Jeevanram caste Bhand resident Gathwadi teh Jamvarangarh hissa 1/18 Kajodmal S/o Sohanlal hissa 1/9 caste Balai resident Madho ka bass Teh. Shahpura Lakkha s/o Ladu hissa 1/6 Rajendra prasad s/o Gangaram Bairwa caste Balai resident Mangalpur palam Delhi 45 hissa 31/205 Prabhat s/o Panna hissa 1/18 Chittamal s/o Panna hissa 1/18 Maliram s/o Panna hissa 1/18 dar hissa 19/1230 caste Raigar
				453	Private	Barani 3	50	Kaloram s/o Rugga hissa 1/6 Chima s/o Bhagwaniya hissa 1/6 Bhanvniya s/o Rupla hissa 1/6 Gokal chand s/o Jeevanram caste Bhand resident Gathwadi teh Jamvarangarh hissa 1/18 Kajodmal S/o Sohanlal hissa 1/9 caste Balai resident Madho ka bass Teh. Shahpura Lakkha s/o Ladu hissa 1/6 Rajendra prasad s/o Gangaram Bairwa caste Balai resident Mangalpur palam Delhi 45 hissa 31/205 Prabhat s/o Panna hissa 1/18 Chittamal s/o Panna hissa 1/18 Maliram s/o Panna hissa 1/18 dar hissa 19/1230 caste Raigar
				454	Private	Barani 3	40	Kaloram s/o Rugga hissa 1/6 Chima s/o Bhagwaniya hissa 1/6 Bhanvniya s/o Rupla hissa 1/6 Gokal chand s/o Jeevanram caste Bhand resident Gathwadi teh Jamvarangarh hissa 1/18 Kajodmal S/o Sohanlal hissa 1/9 caste Balai resident Madho ka bass Teh. Shahpura Lakkha s/o Ladu hissa 1/6 Rajendra prasad s/o Gangaram Bairwa caste Balai resident Mangalpur palam Delhi 45 hissa 31/205 Prabhat s/o Panna hissa 1/18 Chittamal s/o Panna hissa 1/18 Maliram s/o Panna hissa 1/18 dar hissa 19/1230 caste Raigar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				455	Private	Barani 3	25	Kalluram s/o Rugga hissa 1/6 Chima s/o Bhagwanji hissa 1/6 Bhanvariya s/o Rupia hissa 1/6 Gokal chand s/o Jeevanram caste Bhand resident Galthedi teh Jamwarangam hissa 1/18 Kajodmal S/o Sohanlal hissa 1/9 caste Balai resident Madho ka bas Teh. Shahpura Lakhta s/o Ladu hissa 1/6 Rajendra prasad s/o Gangaram Balwa caste Balai resident Mangalpur palam Delhi 45 hissa 31/205 Prabhat s/o Panna hissa 1/18 Chittamal s/o Panna hissa 1/18 Mallam s/o Panna hissa 1/18 dar hissa 19/1230 caste Raigar
						Total	325	
					Government	Asahi	303	Barani S/o Bhura hissa 1/3 caste Lal Jagdish S/o Ladu Mu. Prabhu Balu Ladu hissa 227 Kaseem S/o Lohram hissa 1/64 Lohram Girdhar Father Kulu hissa 2/8 caste Gujar sa. Manoharpur Sadhram S/o Ghose Ram Rahn Oriental Bank of Commerce Branch Shahpura muslim hissa 1/6 caste Ahr sa. Manoharpur Khaleder
					Private	Barani A	10	Abdul Sayeed S/o Nigjar Kureshi caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	30	Ladha W/o Koyan hissa 1/2 caste Musalman Lohram Bhanu Father Bhura hissa 1/3 Naregram Jagdish Father Ladu. Prabhu Balu Ladu hissa 1/9 Lohram Girdhar Father Kulu hissa 2/8 Naregram sahy Lohram Heeral Chhoturam Father Bhagvina hissa 1/3 dar hissa 1/2 caste Gujar sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	02	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	90	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	94	Sahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	118	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	98	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	153	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	19	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	360	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	422	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	647	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	112	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	208	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	223	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	90	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	470	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	534	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	236	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	146	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	61	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder
					Private	Barani 1	76	Shahpura Balu Ramji hissa 1/6 caste Musalman sa. Deh Khaleder

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1546	Private	Jan 1	135	Misram s/o Kalyan caste Gujar sa. Deh khatedar
				1547	Private	Chahi 1	344	Channa s/o Ganesh caste Gujar sa. deh khatedar 1547/77 Raikba 0.01 Malram s/o Kalyan Gujar 1547/72 Raikba 0.08
				1548	Private	Chahi 1 Jan 1	194	Muri Prabh s/o Kala hissa 1/2 Dhanra s/o Ganesh hissa 1/2 caste Gujar sa. Deh khatedar
				1549	Private	Gair Mumkin Chan	34	Chhajal S/o Mu. Harinarayan hissa 1/4 Chhajal Mohanlal Arjunlal S/o Kanhaiyalal hissa 1/4 Mohanlal s/o Badri Narayan s/o Shyochand Bhourlal s/o Murlidhar hissa 1/4 Swachak hissa 1/4
				1550	Private	Chahi 1 Jan 1	20	Leel kumar Mukesh kumar S/o Nand kishor Shuena D/o Nand kishor Suresh w/o Lax Nandkishor hissa 217/325 caste Brahmin sa. A. 1338. Uram Nagar Delhi Ramavatar s/o Sitaran Mital caste Mahajan sa. deh hissa 6325 Lachhura s/o Govardhan caste Kanger sa. deh hissa 6325 Bidi devi w/o Saramdai caste Gujar sa. Lekher Tehal Amber hissa 57/325 Sitaran s/o Saduram hissa 6/325 caste yadav resident Burenpura Richpal s/o Hajanlal yadav hissa 6/325 sa. Chimanpura Omprakash s/o Phoolchand Dobi hissa 5325 Hanuman s/o Phoolchand dobi hissa 4/325 Rukman devi w/o Suresh kumar mahajan hissa 6/325 Mangi devi D/o Ramchand w/o Shivpal Gujar sa. Lekher Tehal Amber hissa 6/325 khatedar 1550/1 Raikba 0.13 Ayer Gangaram s/o Chatur yadav resident Dhanl Tulswali 1550/2 Raikba 0.05 Gair Mumkin Aabadi
				1576	Private	Barani 1	22	Dashrath singh s/o Kanti Singh hissa 732 caste Rapul sa. Pando post Bhamod Tehal Vratnagar Negar Negar Katta s/o Chhitar Katta hissa 732 caste Mahajan sa. Baba Harishchandra Marg Chandpol Bazar Japur dar hissa 7/16 Laxman Bheru S/o Bhura hissa 1/3 Nanagram Jagdish S/o Laddu Mu. Prabhali Bera Laddu hissa 1/6 Lichman s/o Kaku hissa 1/6 Saduram Sharvan S/o Girdhar hissa 1/6 Kalyan Lakhantlal Heeralal Chhotu Ram S/o Bhagvra hissa 1/3 dar hissa 9/16 caste Gujar sa. deh
				1577	Private	Barani 1	86	Laxman Bheru S/o Bhura hissa 1/3 dar Nanagram Jagdish s/o Laddu Mu. Prabhali Sadhu ram Sharvan S/o Girdhar hissa 1/3 caste Gujar sa. Deh. Lichman s/o Kaku hissa 1/6 Kalyan sahay Lakhantlal Heeral Chhotu ram S/o Bhagvra hissa 1/3 caste Gujar sa. Deh khatedar
				1578	Private	Barani 1	52	Laxman Bheru S/o Bhura hissa 1/3 dar Nanagram Jagdish s/o Laddu Mu. Prabhali Sadhu ram Sharvan S/o Girdhar hissa 1/3 caste Gujar sa. Deh. Lichman s/o Kaku hissa 1/6 Kalyan sahay Lakhantlal Heeral Chhotu ram S/o Bhagvra hissa 1/3 caste Gujar sa. Deh khatedar
				1579	Private	Barani 1	300	Sandosh Devi Khaliya w/o Satpal Khaliya caste Jat resident 118 Lane No. 4 Guru Jambhavar Nagar - A Gandhi pathi Queens road Japur
				1581	Private	Barani 1	219	Prabhu Dayal s/o Bindram caste Kumar 1581 Raikba 0.17, 1581/1 Raikba 0.20 Gair Mumkin Aabadi
				1582	Private	Barani 2	48	Vikash chand Subhash chand Jayprakash Damodar S/o Ramdayal caste Brahmin Mistre sa. Deh khatedar
				1583	Private	Barani 1	343	Vikash chand Subhash chand Jayprakash Damodar S/o Ramdayal caste Brahmin Mistre sa. Deh khatedar
				1584	Private	Barani 1	650	Rashid Ahmed s/o Faten Mohammad caste Kaym Khani sa. Deh khatedar
				1614	Private	Barani 1	207	Karhaiya Lal Sandamal S/o Narayan rahin S B B J Branch Shahpura Murthin hissa 3/4 Meena Sarvalal Babulal S/o Balu S/o Narayan Jagdish s/o Omprakash hissa 1/32 caste Brahmin sa. Deh khatedar Rameshwar s/o Rudaram hissa 1/4 Babulal Bheru Lal hissa 1/4 dar hissa 1/4 Brahmin sa. deh khatedar
				1615	Private	Chahi 1	95	Kanhaiya Lal Sandamal S/o Narayan rahin S B B J Branch Shahpura Murthin hissa 3/4 Meena Sarvalal Babulal S/o Balu S/o Narayan Jagdish s/o Omprakash hissa 1/32 caste Brahmin sa. Deh khatedar Rameshwar s/o Rudaram hissa 1/4 Babulal Bheru Lal hissa 1/4 dar hissa 1/4 Brahmin sa. deh khatedar
				1616	Private	Barani 1	105	Kanhaiya Lal Sandamal S/o Narayan rahin S B B J Branch Shahpura Murthin hissa 3/4 Meena Sarvalal Babulal S/o Balu S/o Narayan Jagdish s/o Omprakash hissa 1/32 caste Brahmin sa. Deh khatedar Rameshwar s/o Rudaram hissa 1/4 Babulal Bheru Lal hissa 1/4 dar hissa 1/4 Brahmin sa. deh khatedar
				1631	Government	Police Station Barani 3	2487	Charagah 1631/1 Raikba 0.10. Police Thana Manoharpur Avdi 30 years 1631/2 Raikba 9.93 Charagah
				1632	Government	Charagah	1071	Charagah 1633 Raikba 0.17, 1633/2 Raikba 0.15 Bhu Abhieth Ninkshak Bhawan Manoharpur 99 years Lease Pkr
				1633	Government	Charagah Barani 3	734	Govt. Selterite Hospital Manoharpur Ke Lye Aushadhi 1635/2 Raikba 1.00 Hect..
				1635	Government	Gair Mumkin Hospital	402	Mahatma Sarjanik Nirman Vibhag Sarfan
				1636	Government	Gair Mumkin Rasta	15	Temple Shri Ramdevara khatedar
				5350	Government	Barani A	771	Relanias s/o Ramnath Dobi sa. Deh khatedar 5351/1 Raikba 0.07. Sarjay Aawal s/o Murlidhar Aawal Khalk 5351/2
				5351	Private	Barani A	576	Jameel Harid s/o Nijamdeen caste Musalman sa. Deh khatedar 5352/1 Raikba 0.1580 Gair Mumkin Aabadi 5352/2 Raikba 0.2140
				5352	Private	Barani 1	561	Prabhat Devi Bera Bhagwan sahay caste Khalk sa. Deh khatedar
				5373	Private	Barani 1	728	Prabhat Devi Bera Bhagwan sahay caste Khalk sa. Deh khatedar
				5374	Private	Barani 1	327	Prabhat Devi Bera Bhagwan sahay caste Khalk sa. Deh khatedar
				5375	Private	Barani 1	593	Kaushalya Devi w/o K.C. Gupta resident 862/6 Maholi New Delhi

427161/09-13

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1945	Government	Gair Mumkin Nala	246	Shivachak Gair Mumkin Nala
				1947	Government	Gair Mumkin Nala	22	Public Works Department Sadek
				1948	Private	Barani Pools	197	Bharu Baku S/o Bharu 2/3 Choti Devi w/o Bakram 1/3 Ahr sa. Deh
				1949	Private	Barani 2	44	Chittamel s/o Baraman Jet resident Dehli Teh. Amber
				1955	Private	Barani Pools	422	Chittamel s/o Baraman Jet resident Dehli 5002900 Tehal Amber Sathu Narayan S/o Ramnath 14332900 Teja w/o Laxman Hanuman Ajan Gopal S/o Laxman 9672900 yadav sa. Deh
				1956	Private	Barani 2	200	Bharu s/o Bharu 2/3 Baku s/o Bharu 1/3 Ahr sa. Deh
				1975	Private	Barani 2	47	Kaushalya w/o Moti Ramendra Prakash Subhash S/o Moti 14673500 Bharu s/o Bharu 9692500 Baku s/o Bharu 11873500 Ahr sa. Deh
				1976	Private	Barani 1	297	Sadhu Narayan S/o Ramnath 2/3 Hanuman Ajan Gopal S/o Laxman 1/3 yadav sa. Deh
				1977	Private	Barani	153	Sadhu Narayan S/o Ramnath 2/3 Hanuman Ajan Gopal S/o Laxman 1/3 yadav sa. Deh
				1979	Private	Barani 1	159	Prabhat Barani Kajor S/o Shyamsu Mu. W/o Saral Rameshwar Girdhar prabhat S/o Rameshwar Manita D/o Rameshwar Nasa 1/4 Bharu Baku S/o Bharu Kaushalya w/o Moti Ramendra Prakash Subhash S/o Moti Nasa 1/4 Hanuman Ajan Gopal S/o Laxman Sadhu Narayan S/o Ramnath Nasa 1/2 yadav sa. Deh
				1980	Private	Barani 1	1301	Prabhat Barani Kajor S/o Shyamsu Mu. Saral W/o Rameshwar Girdhar prabhat S/o Rameshwar Manita D/o Rameshwar Nasa 1/4 sa deh Rathi Ram Land Developers Director Mukesh Kumar Chila s/o Rudhayan Chila Nasa 1/4 resident House No. 3994 B Nahargar Road Purat Basal Japur Nasa 1/4 Hanuman Ajan Gopal S/o Laxman Sadhu Narayan S/o Ramnath Nasa 1/2 Ahr Sa. Deh
				1981	Private	Barani 1	835	Prabhu s/o Triloka 1/3 Hanu. Ramu S/o Jivha Manish Bava Jivha 1/3 Phoolchand Manojchand Manojchand Mahadev S/o Chanda Tejan sa Birkchand Tolani Bava Birkchand Ruma D/o Birkchand prabhat Dhepa Rameshwar Sathia D/o Chanda Nishi Baku Durga 1/2 yadav sa. Deh
				2009	Private	Chart 2 Jan 2 Barani 1	14	Ramchandra Rudaram Jagan Nath Gopal S/o Sadhu 1/3 Sadhu S/o Manju 1/3 Kana s/o Mangal Nasa 1/12 yadav sa. Deh Chanda s/o Birkchand yadav resident Moti 1/12 1/4 Ahr
				2010	Private	Chart 2 Jan 2 Barani 1	131	Gulla s/o Thekara 1/6 Bury Mat s/o Lach 1/3 Puri Siva Shankar Rajesh S/o Ganesh Sathu s/o Ganesh 1/2 yadav sa. Deh
				2011	Private	Barani 2 Barani Pools	20	Sadhu Narayan S/o Ramnath Nasa 1/3 Hanuman Ajan Gopal S/o Laxman Nasa 1/3 Bharu Baku S/o Bharu Nasa 1/3 Rajendra Prakash Subhash S/o Moti Kaushalya w/o Moti Nasa 1/3 yadav sa. Deh Khilash
				2045	Private	Barani	54	Bharu Baku s/o Bharu 2/3 Rajendra Prakash Subhash S/o Moti Kaushalya w/o Moti 1/3 yadav sa. Deh
				2046	Private	Barani	39	Bharu Baku s/o Bharu 2/3 Rajendra Prakash Subhash S/o Moti Kaushalya w/o Moti 1/3 yadav sa. Deh
						Total	7274	
				5421	Government	Barani 1	509	Shivachak
				5458	Private	Barani 1	1005	Sitaran Ajmera s/o Rameshwar prasad Ajmera caste Mahajan resident Plot No. 23 Khatian, near Mathurda Patta ka Nasa Baramaul 5458/3 Ratta 0.04
				5460	Government	Gair Mumkin Nasa	343	Shivachak
				5461	Private	Barani 1	782	5461/1 Dail Devi w/o Bhagshah Anand Gyanta-devi w/o Mahesh Anand Nasa 8/27 N. B. N. caste khaki resident Shiv colony Manchhapur Vinde devi w/o Ramkaran Ghanshyam Mahesh Mahendra S/o Ramkaran Saroj Manju Sathia Gudi d/o Ramkaran Nasa 1/81 caste Rajgar Sharan Ramdayal S/o Bhudha 281 Kaku Chima Deva S/o Pothar Nasa 1/3 Marti Lasa Lami S/o Bharu Nasa 1/3 Rajgar Bhadwar Rahin Oriental Bank of Commerce Branch sharpura Murthin Nasa 1/8 Kaku s/o Pothar
				5462	Private	Barani 1	72	Anand Kumar Agrawal s/o Late Ramdayal Agrawal Nasa 208/25200 caste Mahajan sa. Manchhapur Manoj Choudhary s/o Sahaynagar Nasa 142/132520 caste Mahajan sa. Manchhapur Shrinidu dayal khat sa Chittamel Nasa 110/480 caste Mahajan sa. Revdhar Singh Colony Manchhapur Kashi Kumar Agrawal s/o Lala prasad Nasa 22/480 caste Mahajan resident 3 Dulan Dhar ka beigi Japur Choti devi w/o Suresh yadav caste yadav Nasa 44/480 resident Rajpura Manoj Kumar Choudhary s/o Sahaynagar Nasa 22/480 caste Mahajan resident Choudhary Mohalla. Manchhapur Bhagwati devi w/o Badi prasad jet Nasa 40/480 caste jet resident Dhani Chhandal Aranya khat Amber Japur Nasa 40/480 caste jet resident Dhani Chhandal Mahajan sa. Manchhapur Shash Bhadrach Singh s/o Dhanraj Bala
				5473	Private	Barani 1	186	5461/1 Dail Devi w/o Bhagshah Anand Gyanta-devi w/o Mahesh Anand Nasa 8/27 N. B. N. caste khaki resident Shiv colony Manchhapur Vinde devi w/o Ramkaran Ghanshyam Mahesh Mahendra S/o Ramkaran Saroj Manju Sathia Gudi d/o Ramkaran Nasa 1/81 caste Rajgar Sharan Ramdayal S/o Bhudha 281 Kaku Chima Deva S/o Pothar Nasa 1/3 Marti Lasa Lami S/o Bharu Nasa 1/3 Rajgar Bhadwar Rahin Oriental Bank of Commerce Branch sharpura Murthin Nasa 1/8 Kaku s/o Pothar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				8050	Private	Chart 2 Jan 2	348	Sentram a/o Madho caste Meena sa. Deh khander
				7824 / 8008	C. Jernment	Barjer	500	Shaychak
						Total	26473	
				2024	Private	Barani 2 Barjer	95	Temple Shree Thakur ji khander
				2025	Private	Barjer 1	80	Temple Shree Thakur ji khander
				2026	Private	Barani 2	203	Mohamed Shephard Abdul Khalil a/o Mohammed Nasa 119/73457/50 caste musliman Abdul Samad a/o Aghaz Huj Nasa 337/771457/50 der Nasa 1/16 Musliman sa. 848 Bas Badarpura Japur Jagdish prasad yadav a/o Onkar yadav sa. Deh Nasa 1/48 Narayan Boda Mohan Jagdish S/o Onkar Sarjga Beva Onkar Nasa 1/12 Hardev Ghases S/o Rude Nasa 2/12 ba-ha-ba Baleshwar Prasad Bheeram a/o Chaina Nasa 3/26 Bhagwan a/o Chaina Nasa 2/26 Bhagwan Prasad Bheeram a/o Chaina Nasa 1/28 Leetan a/o Khanga Nasa 1/6 Bala Rahn Bhole ram Mahan Mahaveer Prasad Anichen S/o Sana Beva sona Nasa 1/6 Rahn Japur Nagaur Anochak Gamin Bank of Manoharpur Murteen Ramdayal Kauram Saram S/o Suraram Nasa 1/10 Ranjali Jagdish prasad Ramchitpal S/o Bhagwan shya yadav caste yadav Nasa 27/182 resident sherpura h-ba-ha-ah. Sherpura Ramchitpal a/o Bhagwanshah yadav caste yadav resident sherpura Subehsingh yadav a/o Bhagwan shya caste yadav Nasa 1/28 Ashok turner Park a/o Durga Bakas park sa. sherpura Nasa 1/8 Godaram a/o Banshidhar Jet sa. Chimerpura Nasa 1/4 Sadhuran a/o Ghesearam yadav Nasa 1/20 Banshidhar a/o Bhagwanshah sa. deh Nasa 1/28 Uday Singh a/o Durgaram yadav sa. deh Nasa 1/14 Ramtumar a/o Sadhuran sa. deh Nasa 1/40 Murali a/o Sadhuran sa. deh Nasa 1/24 Chitara S/o Ghisa Nasa 1/59 Gyensal Duralal a/o Ramnath caste yadav sa. Nathwale Nasa 1/65 der Nasa 1/15 khander
				2030	Private	Barani 2	60	Mohamed Shephard Abdul Khalil a/o Mohammed Nasa 119/73457/50 caste musliman Abdul Samad a/o Aghaz Huj Nasa 337/771457/50 der Nasa 1/16 Musliman sa. 848 Bas Badarpura Japur Jagdish prasad yadav a/o Onkar yadav sa. Deh Nasa 1/48 Narayan Boda Mohan Jagdish S/o Onkar Sarjga Beva Onkar Nasa 1/12 Hardev Ghases S/o Rude Nasa 2/12 ba-ha-ba Baleshwar Prasad Bheeram a/o Chaina Nasa 3/26 Bhagwan a/o Chaina Nasa 2/26 Bhagwan Prasad Bheeram a/o Chaina Nasa 1/28 Leetan a/o Khanga Nasa 1/6 Bala Rahn Bhole ram Mahan Mahaveer Prasad Anichen S/o Sana Beva sona Nasa 1/6 Rahn Japur Nagaur Anochak Gamin Bank of Manoharpur Murteen Ramdayal Kauram Saram S/o Suraram Nasa 1/10 Ranjali Jagdish prasad Ramchitpal S/o Bhagwan shya yadav caste yadav Nasa 27/182 resident sherpura h-ba-ha-ah. Sherpura Ramchitpal a/o Bhagwanshah yadav caste yadav resident sherpura Subehsingh yadav a/o Bhagwan shya caste yadav Nasa 1/28 Ashok turner Park a/o Durga Bakas park sa. sherpura Nasa 1/8 Godaram a/o Banshidhar Jet sa. Chimerpura Nasa 1/4 Sadhuran a/o Ghesearam yadav Nasa 1/20 Banshidhar a/o Bhagwanshah sa. deh Nasa 1/28 Uday Singh a/o Durgaram yadav sa. deh Nasa 1/14 Ramtumar a/o Sadhuran sa. deh Nasa 1/40 Murali a/o Sadhuran sa. deh Nasa 1/24 Chitara S/o Ghisa Nasa 1/59 Gyensal Duralal a/o Ramnath caste yadav sa. Nathwale Nasa 1/65 der Nasa 1/15 khander

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2031	Private	Barani 2	47	Kanaram Ramkar Bodum S/o Bholuram Dakha Devi Bava Bholuram Manglamram : o Madania Kaushalya w/o Madanlal Ramnarayan Dattak s/o Godaram hissa 141/225 dar hissa 1/12 caste yadav Mohanmad shahli Abdul khali S/o Mohammed Yaseen hissa 83/225 jagdish prasad yadav s/o Omkar yadav sa deh hissa 21/225 dar hissa 1/12 Narayan Bodu Mohan Jagdish S/o Omkar Sanjay Bava Omkar hissa 112 Bhagwan Ghisa S/o Rupa hissa 21/2 Balesahay Prasad Bhawan S/o Chana hissa 12 Bhagwan sahay s/o Chana hissa 1/3 Bhagwan sahay Palad Bhawan S/o Chana hissa 1/6 dar hissa 1/6 Laxman s/o Khanga hissa 1/6 Bala ram Bholuram Mainar Manaveer prasad An chand S/o Sona Sarfa Bava Sona hissa 1/8 Rami Bholuram Mainar Manaveer prasad Bank Branch Manoharprasad Ramnarayan Ramdayal Kaluram Sitaran s/o Sutaran hissa 1/10 Ramjela Jagdish prasad Ramchopal S/o Bhagwansahay caste yadav sa Sherpura hissa 27/182 dar hissa 1/15 Ramchopal s/o Bhagwan sahay yadav sa Sherpura Subhasingh s/o Bhagwan sahay yadav caste Aahir sa Ghazipur 11-ba hi-47240 dar hissa 1/15 Madanlal s/o Dularam yadav sa-Pratapnura hissa 1/28 Aahok kumar park s/o Durga Baks Parik sa- shahpura hissa 1/9 Godram s/o Beshdar jat sa Chimanpura hissa 1/4 Saduram yadav s/o Ghiesaram yadav Pratapura hissa 1/20 Banahdhar s/o Bhagwansahay sa- Manoharprad hissa 1/28 Uday Singh s/o Durgaram yadav sa- deh hissa 1/14 Ramkur s/o Saduram yadav sa- Manoharprad hissa 1/40 Murari s/o Saduram yadav Sa- Manoharprad hissa 1/24 Chitar s/o Ghiesah hissa 1/58 sa- Manoharprad Gyarlal Dullal s/o Ramnath caste yadav sa- Nathewala hissa 1/65 dar hissa 1/15 sa- deh khatedar
				2053	Government	Barani 1	352	Sivaychak
				2054	Private	Barani 2	124	Mohania s/o Omkar 11/20 Hadev s/o Ruda hissa 1/4 Narayan Jagdish s/o Omkar Sanjaya Bava Omkar hissa 3/20 Hissa Barabar caste yadav Kedamam Agarwal s/o Jagdish prasad Agarwal hissa 1/20 sa- deh khatedar
				2056	Private	Barani 2	81	Omkar Sadhu s/o Gangaram caste yadav sa Kalyanpura lan Manoharprad khatedar
				2063	Private	Barani 2	125	Laxman s/o Lodu hissa 1/2 Bhagwan w/o Laxman hissa 1/2 Rahin caste yadav sa- deh khatedar 2063/1 Rakba 51 Muliher s/o Kana yadav 2063/2 Rakba 26
				2064	Private	Barani 2	153	Bhagwan w/o Laxman hissa 1/2 Dayaram s/o Laxman hissa 1/2 Rahin Japur Thar Gramin Bank Branch Manoharprad 2064/1 Rakba 1.4 Meera w/o Mangia hissa 78/480 Omkar s/o Mahadev yadav sa- Bisangan hissa 40/480 Shrawan s/o Bheru yadav hissa 77/480 Ramkurwar Nathu S/o Suraj yadav 78/480 Subhash s/o Phoolchand yadav hissa Kawai sikar hissa 39/480 Kanta w/o Badri prasad yadav hissa 39/480 sa- Bisangan Bhagwan w/o Laxman Dayaram s/o Laxman yadav 129/480
				2065	Private	Chahi 2 Jaar 2	153	Temple Shree Ramowara khatedar
				2066	Private	Chahi 2 Jaar 2	150	Temple Shree Ramdwara khatedar
				2065	Government	Barani 2	115	Sivaychak
				2066	Government	Barani 2	64	Sivaychak
						Total	1762	
	5. Kalyanpura			2098	Private	Barani 1	698	Trilok s/o Gopi caste Yadav sa deh khatedar Meys w/o Bhagratihmal yadav caste Aahir resident Manoharprad Rameshwar dev w/o Jagannath prasad yadav caste Aahir resident Sunder ka bas teh Amber khatedar hissa 23/42 Ramu s/o Gopi hissa 19/42 caste yadav sa- deh khatedar
				2099	Private	Barani 1	666	Bodu s/o Gopi caste yadav sa- deh khatedar
				2147	Private	Barani 1	73	Bherulal s/o Manoharam hissa 1/3 Rahin Japur Nagar Aanchik Gramin Bank Branch Manoharprad Trilok s/o Gopi hissa 1/9 Boduram Ramu S/o Gopi hissa 2/8 Badri Seetaram Chauram Omprakash Arjun S/o Chodhu Na Ba- Saranahuk Meys Mungi w/o Chodhu hissa 1/3 caste yadav sa- deh khatedar
				2148	Private	Barani 1	711	Badri Sitaran Chauram Omprakash Arjun S/o Chodhu Mungi w/o Chodhu hissa 1/3 caste yadav sa- deh khatedar
				2149	Private	Barani 1	1083	Badri Sitaran Chauram Omprakash Arjun S/o Chodhu Mungi w/o Chodhu hissa 1/3 caste yadav sa- deh khatedar
				2150	Private	Chahi 2	1459	Bherulal s/o Manoharam caste yadav
				2220	Private	Barani 1	40	Badri s/o Mahadev Manas s/o Mahadev caste yadav sa- deh
				2248	Private	Barani 1	2181	Jyoti Gupta w/o Vivek Agarwal caste Mahajan resident Achary Kapran Road Jyoti School Ka Pass Adarah Nagar Delhi Lokendra Singh Rawat s/o Vijay Singh Rawat caste Gurjar sa- Sangarner dist. Japur khatedar Ramsehar s/o Chotu caste yadav sa- deh khatedar Rahit C.B.C. Bank Branch Khatpura Marhahan
				2249	Private	Barani 1	1013	Sukh Devi s/o Govinda Urf Gopal caste yadav sa- deh khatedar
				2250	Government	Gair Mumkin Rasta	202	Gair Mumkin Sivaychak

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2251	Private	Barani 1	15	<p>Jagdish Prasad yadav s/o Omkar resident Dheni Antawala Tin Manchapur Nasa 1/48 Irfan Khan s/o Abdul Saleem Khan caste Musliman resident Manchapur Nasa 3/48 Narsyan Bodu Mohan Jagdish s/o Omkar Sarjya beva Omkar Nasa 1/12 Hardev Gheesa s/o Rude Nasa 2/12 b.n.b. Balshay s/o Chana Nasa 1/28 Bhargwan sahy s/o Chana Nasa 1/38 caste yadav Pratihad Bhargwan sahy Bhawan s/o Chana Nasa 1/6 Laxman s/o Khanga Nasa 1/6 Bholaaram Malaram Mahaveer prasad Anichand s/o Bora Sona Sarva beva Sona Nasa 1/6 Ramdayal Katuram Saram s/o Satharam Nasa 3/30 Ramjesh Jagdish prasad Ramchitpal s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Sherpura N.b.N Nasa 27/182 dar Nasa 1/15 Ramchitpal s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Sherpura Subhahgh yadav s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Gheapura N.b.N 47/240 dar Nasa 1/15 Moden lai s/o Durgababst resident Pratappur Manchapur Nasa 1/28 Aahok kumar Pareek s/o Durgababst Pareek resident Shalpur Nasa 1/9 Godaram s/o Gharam yadav resident Pratappur Manchapur Chinapura Nasa 1/4 Sadharam s/o Gharam yadav resident Manchapur Nasa 1/28 Udayyagh s/o Durgaram yadav resident Pratappur Manchapur Nasa 1/14 Ramkumar s/o Sadharam yadav resident Manchapur Nasa 1/40 Murali s/o Sadharam yadav resident Manchapur Nasa 1/24 dar Nasa 1/15 Chhewar s/o Gheesa resident Manchapur Nasa 1/68 Gyeralal Churial S/o Ramnath yadav resident village Nathwala Nasa 1/65 dar Nasa 1/15 khaleder</p>
				2252	Private	Barani 1	364	<p>Jagdish Prasad yadav s/o Omkar resident Dheni Antawala Tin Manchapur Nasa 1/48 Irfan Khan s/o Abdul Saleem Khan caste Musliman resident Manchapur Nasa 3/48 Narsyan Bodu Mohan Jagdish s/o Omkar Sarjya beva Omkar Nasa 1/12 Hardev Gheesa s/o Rude Nasa 2/12 b.n.b. Balshay s/o Chana Nasa 1/28 Bhargwan sahy s/o Chana Nasa 1/38 caste yadav Pratihad Bhargwan sahy Bhawan s/o Chana Nasa 1/6 Laxman Khanga Nasa 1/6 Bholaaram Malaram Mahaveer prasad Anichand s/o Bora Sona Sarva beva Sona Nasa 1/6 Ramdayal Katuram Saram s/o Satharam Nasa 3/30 Ramjesh Jagdish prasad Ramchitpal s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Sherpura N.b.N Nasa 27/182 dar Nasa 1/15 Ramchitpal s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Sherpura Subhahgh yadav s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Gheapura N.b.N 47/240 dar Nasa 1/15 Moden lai s/o Durgababst resident Pratappur Manchapur Nasa 1/28 Aahok kumar Pareek s/o Durgababst Pareek resident Shalpur Nasa 1/9 Godaram s/o Gharam yadav resident Pratappur Manchapur Chinapura Nasa 1/4 Sadharam s/o Gharam yadav resident Pratappur Manchapur Nasa 1/20 Banahidhar s/o Bhargwan sahy resident Manchapur Nasa 1/14 Ramkumar s/o Sadharam yadav resident Manchapur Nasa 1/40 Murali s/o Sadharam yadav resident Manchapur Nasa 1/24 dar Nasa 1/15 Chhewar s/o Gheesa resident Manchapur Nasa 1/68 Gyeralal Churial S/o Ramnath yadav resident village Nathwala Nasa 1/65 dar Nasa 1/15 khaleder</p>
				2253	Private	Barani 1	390	<p>Jagdish Prasad yadav s/o Omkar resident Dheni Antawala Tin Manchapur Nasa 1/48 Irfan Khan s/o Abdul Saleem Khan caste Musliman resident Manchapur Nasa 3/48 Narsyan Bodu Mohan Jagdish s/o Omkar Sarjya beva Omkar Nasa 1/12 Hardev Gheesa s/o Rude Nasa 2/12 b.n.b. Balshay s/o Chana Nasa 1/28 Bhargwan sahy s/o Chana Nasa 1/38 caste yadav Pratihad Bhargwan sahy Bhawan s/o Chana Nasa 1/6 Laxman Khanga Nasa 1/6 Bholaaram Malaram Mahaveer prasad Anichand s/o Bora Sona Sarva beva Sona Nasa 1/6 Ramdayal Katuram Saram s/o Satharam Nasa 3/30 Ramjesh Jagdish prasad Ramchitpal s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Sherpura N.b.N Nasa 27/182 dar Nasa 1/15 Ramchitpal s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Sherpura Subhahgh yadav s/o Bhargwan sahy yadav caste yadav resident Gheapura N.b.N 47/240 dar Nasa 1/15 Moden lai s/o Durgababst resident Pratappur Manchapur Nasa 1/28 Aahok kumar Pareek s/o Durgababst Pareek resident Shalpur Nasa 1/9 Godaram s/o Gharam yadav resident Pratappur Manchapur Chinapura Nasa 1/4 Sadharam s/o Gharam yadav resident Pratappur Manchapur Nasa 1/20 Banahidhar s/o Bhargwan sahy resident Manchapur Nasa 1/28 Udayyagh s/o Durgaram yadav resident Pratappur Manchapur Nasa 1/14 Ramkumar s/o Sadharam yadav resident Manchapur Nasa 1/40 Murali s/o Sadharam yadav resident Manchapur Nasa 1/24 dar Nasa 1/15 Chhewar s/o Gheesa resident Manchapur Nasa 1/68 Gyeralal Churial S/o Ramnath yadav resident village Nathwala Nasa 1/65 dar Nasa 1/15 khaleder</p>
				2255	Private	Barani 1	34	<p>Premlata Malpant w/o Balishor Malpant caste mahajan resident Village Hamada Nasa 2/5 Anand Malpant w/o Anil Malpant caste mahajan Nasa 1/8 resident Hamada w/o Anil Laxman s/o Khanga Nasa 1/28 Pratihad s/o Chana Nasa 363/2600 caste yadav sa. Dph</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Total	8919	
					Private	Barani Banjar	672	Shwar s/o Sodu hissa 4 Aana Hardev s/o Ruda hissa 1/4 Narayan Mohan J. godai s/o Omkar Sanjya Beva Omkar hissa 1/5 hissa Barabar caste Yadav Kedarnath Agarwal s/o Jagdish prasad Agarwal hissa 1/20 Debu s/o Hardev hissa 1/4 caste yadav sa. deh khatedar
	6. Udwala			2260	Private	Barani Pratham	1095	Shiran s/o Hardev hissa 1/2 Kanhaiyalal s/o Hardev hissa 1/2 caste yadav sa. deh khatedar
				2265	Private	Barani Pratham	332	Shwar s/o Sodu hissa 2 Aana Narayan Bodu Mohan s/o Omkar Sanjya Beva Omkar Hardev s/o Ruda Giridhar s/o Debu hissa 6 Aana Debu s/o Hardev 8 Aana hissa Barabar caste yadav sa. Deh. Khatedar
				2266	Private	Barani Pratham	323	Shwar s/o Sodu hissa 2 Aana Narayan Bodu Mohan s/o Omkar Sanjya Beva Omkar Hardev s/o Sunda Giridhar s/o Debu hissa 8 Aana hissa barabar Debu S/o Hardev hissa 8 Aana hissa barabar caste Aahli sa khatedar
				2269	Government	Gair Mumkin Rasta	84	8 Aana hissa barabar caste Aahli sa khatedar Gair Mumkin Rasta Sivaychak
				2275	Private	Barani Pratham	373	Bharwar Prabhat Banna Narayan Hanuman s/o Shyornath Mu. Nathi Beva Bhagwan sahay Suresh kumar s/o Bhagwan sahay hissa 1/3 Ramchandra Jaynarayan Maliram Jagdish s/o Gopi Mu. Shyopuri Beva Gopi hissa 1/3 Nathu Mohan Murti Ramnarayan Sadhuram Kailash s/o Ballu Mu. Surji Beva Ballu hissa 1/3 Dar hissa 4/5 Prashad Bhagwan Bheewa s/o Chaina Nathee Prem Dio Chaina hissa 1/5 caste yadav sa. deh khatedar
				2278	Private	Barani Pratham	307	Bharwar Prabhat Banna Narayan Hanuman s/o Shyornath Mu. Nathi Beva Bhagwan sahay Suresh kumar s/o Bhagwan sahay hissa 1/3 Ramchandra Jaynarayan Maliram Jagdish s/o Gopi Mu. Shyopuri Beva Gopi hissa 1/3 Nathu Mohan Murti Ramnarayan Sadhuram Kailash s/o Ballu Mu. Surji Beva Ballu hissa 1/3 Dar hissa 4/5 Prashad Bhagwan Bheewa s/o Chaina Nathee Prem Dio Chaina hissa 1/5 caste yadav sa. deh khatedar
				2283	Private	Barani Pratham	170	Bharwar Prabhat Banna Narayan Hanuman s/o Shyornath Mu. Nathi Beva Bhagwan sahay Suresh kumar s/o Bhagwan sahay hissa 1/3 Ramchandra Jaynarayan Maliram Jagdish s/o Gopi Mu. Shyopuri Beva Gopi hissa 1/3 Nathu Mohan Murti Ramnarayan Sadhuram Kailash s/o Ballu Mu. Surji Beva Ballu hissa 1/3 Dar hissa 4/5 Prashad Bhagwan Bheewa s/o Chaina Nathee Prem Dio Chaina hissa 1/5 caste yadav sa. deh khatedar
				2284	Private	Barani 1	166	Bharwar Prabhat Banna Narayan Hanuman s/o Shyornath Mu. Nathi Beva Bhagwan sahay Suresh kumar s/o Bhagwan sahay hissa 1/3 Ramchandra Jaynarayan Maliram Jagdish s/o Gopi Mu. Shyopuri Beva Gopi hissa 1/3 Nathu Mohan Murti Ramnarayan Sadhuram Kailash s/o Ballu Mu. Surji Beva Ballu hissa 1/3 Dar hissa 4/5 Prashad Bhagwan Bheewa s/o Chaina Nathee Prem Dio Chaina hissa 1/5 caste yadav sa. deh khatedar
				2288	Private	Barani Pratham	203	Meva Dev w/o Suresh kumar Prajapat caste Kumhar resident ward No. 30 Manchapur
				2389	Private	Barani 1 Barani	295	Ramdayal Kaluram Sitaran Gangapal s/o Sunaram hissa 1/2 Bholaram Maliram Mahaveer Prasad Amchand s/o Sona Mu. Sarsa Beva Sona hissa 1/2 caste yadav sa. Aharada Khatedar
				2413	Private	Chahi Uttam Jaav	62	Seema singh Rawat w/o Sanjay singh Rawat caste Gurjar sa. C. I. S. Bas Standed ke Pass Sandangan Jalpur Khatedar
				2414	Private	Chahi 2 Jeav 2	18	Laxman s/o Khanga caste yadav sa. Deh khatedar
				2420	Government	Gair Mumkin Rasta	15	Gair Mumkin Rasta Sivaychak
				2421	Private	Barani 1	134	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2427	Private	Chahi 1	75	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2428	Private	Chahi 1	44	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2429	Private	Chahi 1	43	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2430	Private	Chahi 1	108	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2433	Private	Chahi 1	110	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2435	Private	Chahi 1	126	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2436	Private	Chahi 1	85	Temple Shri Jugali Sthan deh khatedar
				2476	Private	Chahi 1	265	Temple Shri Devji khatedar
				2477	Private	Chahi 1	84	Temple Shri Devji khatedar
				2478	Private	Chahi 1	61	Temple Shri Devji khatedar
				2485	Private	Chahi 1	26	Temple Shri Gopinath ji khatedar
				2486	Private	Chahi 1	101	Temple Shri Gopinath ji khatedar
				2488	Private	Chahi 1	26	Temple Shri Gopinath ji khatedar
				2490	Private	Chahi 1	390	Temple Shri Gopinath ji khatedar
				2531	Private	Chahi 1	85	Ramrath Satri s/o K.R Satri caste Mail resident C. 15 Vikashpur New Delhi -16
				2499 / 8751	Private	Chahi 1	263	Temple Shri Gopinath ji khatedar
						Total	8900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7. Kholawala	141	Private	Chait 1 Janv 1	189	Keshvi Bava Murti Jeevanam s/o Murti Nasa 1/2 caste Gujar sa. Der Suresh Kumar s/o Bhajendra Gada Gujar sa. Shalipura Nasa 1/2
				143	Private	Chait 1 Janv 1	157	Musi Bava Sultan Baharam Jeevanam s/o Sultan Ahuja s/o Dula Chitaji s/o D. a Bher. s/o Dula Gada Gujar sa. Doh
				150	Private	Chait 1 Janv 1	143	Geesa Bhagwanta s/o Ramnath Gujar sa. Doh Kheddar
				153	Private	Chait 1 Janv 1	123	Deshak Khanna s/o Shrinam Kanna caste Purbhi Multidile resident 9 Vohyash Road Varanasi U.P.
				154	Private	Barani A Commercial	97	Rajeev Singh s/o Jagmohan Singh caste Rajput P. No. 14 Kalash Sukh Nagar Civil Lines Jaipur
				155	Private	Barani A	96	Moderai Gupta s/o Purnima Gupta caste Vasthya resident 9 Keshvi Nagar Awar Mahesh Kumar Jain s/o Ratan Chand Jain caste Vasthya resident 23 Aray Nagar Awar Hoshiyart karta Ramchand Jain Hibu Sampat Panwar Medarai Agawal s/o Radheshyam Agawal Rajesh Bansi s/o Vasdev Agawal caste Vasthya
				156	Private	Barani A	81	Chiraju Shenu s/o Dula Musli Bava Sultan Baharam Jeevanam s/o Sultan caste Gujar sa. Doh
				157	Private	Barani A	83	Ravi Khanna s/o Bhawendra Khanna caste Gujar sa. Shalipura
				412	Private	Barani A	99	Khemchand s/o Bhura caste yadav sa. Doh Kheddar
				413	Private	Chait 2 Janv 3	144	Durgaram s/o Lakshman Ghosia s/o Ruda yadav sa. Doh
				415	Private	Chait 2 Janv 3	171	Khemchand s/o Bhura caste yadav sa. Doh Kheddar
				424	Private	Chait 2 Janv 3	178	Khemchand s/o Bhura caste yadav sa. Doh Kheddar
				425	Private	Barani 1	122	Sugi Bava Bhura Khemchand s/o Bhura yadav sa. Doh Kheddar
				440	Private	Barani 1	13	Reference Communication Pvt. Ltd. Main Office Andhash House III Floor Pitam Nagar I Shopi Ala Bridge Ahmedabad Gujar Pradeshak. Kanya 301/304 Laxmi Complex M.I. Jodpur. Jyoti Bhatnagar, J.N. Shree Nasa.
				494	Private	Barani 1	131	Sushila Agawal w/o Lechand Agawal caste Mahajan sa. 123 Kabi Mang Bari Park Jaipur
				495	Private	Barani 1	157	Sushila Agawal w/o Lechand Agawal caste Mahajan sa. 123 Kabi Mang Bari Park Jaipur
				522	Private	Barani 1	170	Bharam Rastel s/o Bhura Murti Bava Bhura Nasa 1/4 Hanuman s/o Ruda Nasa 1/4 Sugi Doh w/o Kulu Ramnagar Ramnagar Ghosia s/o Kulu Nasa 1/4 Ditchand Meharan s/o Hardev Ummed Ball s/o Hardev N. B. Jary Mata Kari Bava Hardev Nasa 1/4 caste yadav sa. Doh Kheddar
				523	Private	Barani 1	170	Bharam Rastel s/o Bhura Murti Bava Bhura Nasa 1/4 Hanuman s/o Ruda Nasa 1/4 Sugi Doh w/o Kulu Ramnagar Ramnagar Ghosia s/o Kulu Nasa 1/4 Ditchand Meharan s/o Hardev Ummed Ball s/o Hardev N. B. Jary Mata Kari Bava Hardev Nasa 1/4 caste yadav sa. Doh Kheddar
						Total	2215	
			8. Barani K. Dhar	616	Private	Barani 3	26	Susheel Sunderlal s/o Sukram caste khali sa. Doh Kheddar
				817	Government	Gair Mumkin	41	Sreyash Legan
				619	Private	Gair Mumkin	13	Rav Rajendra Singh s/o Ramdhar Singh sa. Shalipura
				625	Private	Barani 1	133	Sardarm s/o Guleram caste Meena sa. Uderwala tin Manchharpur
				626	Private	Barani A	96	Laxmi Devi W/o Hardev Khedda Devi Bhagwat Devi Murti Devi Gada Doh Doh Hardev 678/680 Laxmiharyan s/o Agamal caste yadav Nasa 678/680 sa. Doh Kheddar
				629	Private	Gair Mumkin Rasta	22	Mati Temple Shri Dev wali Shalipura kheddar
				632	Private	Chait 2 Janv 2	112	Rudmal Prabhakar Khanna Radheshyam Bhagwanshy Staram Omprakash Raksh s/o Bodu Doga Bava Bodu Nasa 1/2 Ranpyat Bava Mohanlal Umli Doh Mohanlal Rambabu Ramnath (Baru) s/o Mohanlal Radheshyam Kalash Sonanlal s/o Gopi Gula Doh w/o Gopi Nasa 1/2 caste shama
				674	Private	Chait 1 Janv 1	180	Ramdas s/o Gangashay caste shama 002 Mohanlal s/o Radheshyam Mahajan sa. Shalipura D. 14 Nasa
				877	Private	Chait 1	20	Rudmal Prabhakar Khanna Radheshyam Bhagwanshy Staram Omprakash Raksh s/o Bodu Doga Bava Bodu Nasa 1/2 Ranpyat Bava Mohanlal Umli Doh Mohanlal Rambabu Ramnath (Baru) s/o Mohanlal Radheshyam Kalash Sonanlal s/o Gopi Gula Doh w/o Gopi Nasa 1/2 caste shama
				879	Private	Chait 2 Janv 2	132	Pran Devi w/o Chandermal caste shama sa. Doh Kheddar
				886	Private	Chait 3	43	Jagdish s/o Mahender caste Brahmin sa. Doh Kheddar
				752	Private	Chait 2 Janv 2	145	Radheshyam Bhagwanshy s/o Mangal M. Mohli Bava Mangal caste Brahmin sa. Doh Kheddar
				753	Private	Gair Mumkin Sakak	58	Radheshyam Murtidar Medaral s/o Chandra M. Suri Bava Chandra Nasa 1/2 Murtidar Medaral s/o Chandra M. Suri Bava Chandra Nasa 1/2 Caste Brahmin sa. Doh Kheddar
				754	Private	Chait 2 Janv 2	591	Radheshyam Murtidar Medaral s/o Chandra M. Suri Bava Chandra Nasa 1/2 Murtidar Medaral s/o Chandra M. Suri Bava Chandra Nasa 1/2 Caste Brahmin sa. Doh Kheddar

4271/GI/09-14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				765	Private	Chah 2 Jav 2	880	Snyoden s/o Jagannath hissa 1/2 Rameshwar Prasad s/o Choudam sa Khajawa hissa 1/2 caste Bhatia
				628/1047	Private	Barani A	58	Randias s/o Gangadhar caste Brahmin sa Deh Khaddar
						Total	2820	
				516	Private	Barani A Commercial Peto Pulp	96	Subhash Pannu s/o Mohan Pannu s/o Subhash Pannu C 26 Hact Puanima s/o Choudam yadav caste yadav C 30 Hact
				572	Private	Chah 1 Jav 1	42	Ghorel Kanhaya s/o Menga 1/4 Nasta s/o Ramnath 1/4 Suria Bhagla s/o Ramnath hissa 1/2 caste Meena hissa 1/2 La Chand s/o Surjan Sach s/o Barani hissa 3/4
9. Grasipura						Total	138	
				361	Government	Gair Mumkin Sadak	115	Savjanik Numan Vibhag
10. Bidara				362	Private	Barani 3	43	Chotmal s/o Prabhudayal Mishra sa Radewas hai Nt Shahpura
				363	Private	Barani 3	98	Chotmal s/o Prabhudayal Mishra sa Radewas hai Nt Shahpura
				364	Private	Barani 3	376	Kalash Narayan Shyamundar s/o Harman caste Manjan sa Hamday tah.
				365	Government	Gair Mumkin Rasta	143	Neemkappara tal Rangol distal Dehli
				387	Government	Gair Mumkin Nala	23	P.W.D.
								Sreyachak Bala Lagan Gair Mumkin Nala
				369	Private	Barani 3	386	Kularam Prabhu Hareeram Seetaram s/o Devaram Nahi Beva Devaram Nathuran Jagdish s/o Ganga Baisa hissa 620/1197 Nagaralka shahpura hissa 577/1197 de hissa 1/2 Jhuanam s/o Devnaks yodav Nt Rajpura hissa 378/1197 Chikar s/o Janan caste yadav hissa 399/1197 sa Rajpura Nagaralka shahpura hissa 420/1197 de hissa 1/2/23 Sacharam Bhagpranham s/o Bhagpranham caste Baisa sa Rajpura hissa 823
				370	Government	Barani 1	98	Malikam Mukesh s/o Deva Mu Bhagwati Beva Deva hissa 2/5 Harpal Ramsewarup Rakash s/o Bhodu hissa 3/5 caste Meena
				372	Private	Barani A	16	Arjun Savant uli Harasay s/o Chanda Meena
				373	Private	Barani A	63	Gyarsal s/o Kanhayyal agawal Nt Shahpura 235 Sq Yard vaniyak pariyogantah Meesh kumar s/o Gyarsal hissa 1/3 Mahaveer prasad s/o Gyarsal hissa 1/3 Sureth Kumar Charetham s/o om prakash hissa 1/3 caste manjan Nt Shahpura 2396 Sq yard
				374	Private	Jav 1	50	Avastha Prayodantah
				375	Private	Chah 1	47	Gyarsal s/o Kanhayyal agawal Nt Shahpura 235 Sq Yard vaniyak pariyogantah Meesh kumar s/o Gyarsal hissa 1/3 Mahaveer prasad s/o Gyarsal hissa 1/3 Sureth Kumar Charetham s/o om prakash hissa 1/3 caste manjan Nt Shahpura 2396 Sq yard
				376	Private	Chah 1	41	Rampool s/o Banashahar sharma caste Brahmin sa Nihara Hi 1/2 Tikraj shama s/o Babbar shama Kalloni shama s/o Tikraj shama Ritu Pande s/o Narayan Pande Hindubala s/o Sahayayen shama hissa 1/2 b-h-b caste shama Nt 1922 Khejo ka Pato Tikamrai ka Gair Chandipol Bapur Japur 138 Sq yard Vaniyak 1952 Sq yard
				377	Private	Chah 1	54	Avastha Prayodantah
				378	Private	Chah 1	259	Rampool Ramsewarup Rakash s/o Bhora hissa 2/10940 Nagaralka shahpura hissa 620/1197 caste Meena sa Deh
				379	Government	Barani 1	80	Bhanuprasad Kallish chand Amarchand s/o Girdhar tal caste Jat Nt Rajpura hissa 1/2 Sati Devi s/o Kharan Jat sa Shahpura hissa 1/2 Khaddar
				440	Private	Gair Mumkin Sadak	83	Public Works Department
				728	Private	Barani 1	397	Ramnath s/o Chandaram caste Jat hissa 1/2 Pawan kumar s/o Parneshvali hissa 1/2 Chah 1/2 Bap shahpura Khaddar
				728	Private	Chah 1 Jav 1	245	Bhawan singh Jasingh s/o Rupasingh caste Rajpoot sa Deh
				730	Private	Chah 1 Jav 1	470	Bhawan singh Jasingh s/o Rupasingh hissa 1/2 caste Rajpoot Hanuman Chitkar s/o Jodha Roshni Beva Bhatu Girdhar Mohan Barwari Manesh Rakash Keshan s/o Bhatu hissa 1/2
				731	Government	Chah 1 Jav 1	208	Bidam devi s/o Badi prasad yadav sa Shahpura hissa 1/6 Karpal s/o Mahadev prasad Nt Chikol Vrinagar Malram s/o Mangaram Jat Nt Rajpura hissa 1/3 Rajesh s/o Rameshwar caste Meena Nt Khori leh shahpura hissa 1/6 Launi devi s/o Rambaksh Ashok Rajendra Ramnasky s/o lete Ramsewarup Puntia s/o Ramsewarup hissa 1/3 caste Meena Khaddar
				780	Private	Barani 1	871	Public Works Department
				781	Private	Chah 1 Jav 1	559	Nagaralka shahpura hissa 1801/2790 Gyarsal Prabhudayal s/o Kularam Jat Nt Rajpura hissa 4402/780 Mohet s/o Ghanshi Umar s/o Purnamal Hanuman s/o Nathuran caste Bunker Nt Rajpura hissa 6562/780 Gair Mumkin Ashad Sampantit Hanuman Chitkar s/o Jodha Meena hissa 101/658 Kalyanshah Jagdish Prasad s/o Bakaram Jat Nt Ramchandrapura hissa 1/2 Chikol Bhatu Malrama s/o Sahayayen Agawal Nt Shahpura hissa 1/2 Ushan Bhag 557/658 Gair Mumkin Ashad de hissa 1/2 Roshni Beva Bhatu Girdhar Mohan Barwari Manesh Rakash Keshan s/o Bhatu caste Meena sa deh Khaddar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
787					Private	Chair 1	1228	Provided s/o Kalar caste Meena N. Govil Tan Basi leh. Thiruppal Amer Nasa 427 Sq yard Kashi Bhumi Gaj in Prasad s/o Richpal caste Jat N. Bhappura Nasa 1/2 Mehendra Kumar s/o Garpalli caste Sharma N. Deven Nasa 1/2 der Nasa 194/1901 M.uchand s/o Nanagan yadav N. Vetringer Nasa 43/1901 Haran s/o Devenan yadav N. Rajpura Nasa 55/1901 Haro wo Haran yadav N. Rajpura Nasa 227/1901 Babul s/o Ramkishor Goyal caste Mehajan N. Kiori Nasa 119/1901 Jagdish prasad s/o Bhavendra yadav N. Vastnagar Nasa 119/1901 Mahesh chand shanile s/o Chandraji sharma N. Rajpura Nasa 73/2040 Bajranglal s/o Surval caste Sharma Nasa 238/2040 N. Rajpura Aaravaye Prayojanarth Pativaran
788					Private	Jasv 1	282	Harpal Ramwroop Rakesh s/o Bhahu caste Meena
789					Government	Chair 1 Jasv 1	784	Sanyuk Niman Vahag.
794					Private	Chair 1 Jasv 1	113	Para Kau Suragan Bhagwanth Ramkaran s/o Richpal M. Gulab Beva Richpal caste Meena B. Deh.
796					Private	Chair 1	287	Harman sahay s/o Ghosest meena st. Doh
797					Private	Chair 1	204	Kalish s/o Babu Nasa 1/2 Meena st. Doh Mohal s/o Bhakul meena Nasa 1/2 der Nasa 153/4200 Jagdish prasad s/o Muchand Nasa 198/19200 M. Baghwan Choral der Nasa 1/2 Jara Phool s/o Mohanda N. N. 1/2 caste Meena st. dth khastar
799					Private	Barani 1	294	Kalish s/o Babu Bodu s/o Mahanda Nasa 1/2 Jara Gulla s/o Mahanda Nasa 198/17400 caste Meena st. Doh Kumbharan s/o Muchand Nasa 251/33420 der Nasa 1/2 Catta Jarna N. Bhawanesh Choral khastar
900					Private	Barani 3	1609	Kakuran Prabhu Harman Sharan s/o Devenan M. Neel Beva Bevanan Ghoseeran Nathuran Surajpal Jagdish s/o Gangabata Chhimeral Dhuranan Ramkaran Shydamam Gopalan s/o Jamnan Mangli Beva Jamnan Nasa 17/23 Sadharan Bhagwanth ram s/o Bhagwanth Nasa 523 caste Bati st. Rajpura khastar
901					Private	Chair 1 Barani 1	590	Babul s/o Garpali M. Mohendra s/o Kanaram caste Jat N. Shapuram khastar
902					Private	Barani 3	563	Bhagwanth s/o Mangaram Burkar M. Rajpura khastar
904					Private	Barani 3	2536	Jaram s/o Ramwroop Surpal s/o Sunderan caste Jat N. Shapuram Nasa khastar
907					Private	Barani 3	1091	Babul s/o Garpali M. Mohendra s/o Kanaram caste Jat N. Shapuram khastar
908					Private	Barani 3	1609	Tegs devi wo Sadharan yadav caste yadav N. Rajpura Nasa 57/1934 Ashok Kumar Mehta s/o Purushottam M. mehta caste khast N. New Dahi Nasa 13/1934 Gahan mehta s/o Narendra mehta caste khast N. 36/1 East Patel Nager New Dahi. Tejendra Khar s/o Gopal das Khar caste khast N. D. 7/7176 Basant Kunt New Dahi Nasa 27/87 N. N. khastar
910					Private	Barani 3	36	Harraj Dahi Gyani Dahi s/o Soti caste Sharma st. Doh khastar
911					Private	Barani 3	497	Barani s/o Ganesh sharma Nasa 10/170 Shubhash chand s/o Gharhi Vardhesh s/o Gharhi Nasa 1/4 Suraj s/o Ramnayan Gurjar Nasa 1/4 Badi prasad s/o Mangal Dahi Nasa 1/4 Gharhi s/o Gopal Jat Nasa 1/4 der Nasa 180/170
913					Private	Barani 3	61	Hundesh s/o Chhimeral caste Jangir Brahmin M. Pat No. 24 Karna colony Rajpura Nasa 1/4 Deepak Bhil Nager s/o Rajendranwroop Bhil Nager M. 22 Gopal Bhil Jangir Nasa 1/4 Shapuram Nasa 1/4 Sanyopal Bhil s/o Jivender Bhil caste Pundri M. 79/15 Bhawaner Jalpur Nasa 1/4 Soderan wo Kartari M. 10/793 Jangir Kunt Dahi Nasa 1/4 Nasa 2058/4950 Nagarpalas shapuram Nasa 22/4950 der Nasa 1/192 Dewashay s/o Ruparam caste Jat N. Japahale Nasa 1/12
914					Private	Chair 1 Barani 3	57	Rich Singh Jangir Nasa 1/4 Director Vijay Kumar s/o Ashok Kumar 608 valhar Chandra Vaidh Nager Nager Nasa 21/100 Mahesh chand s/o Harman sahay caste Nasa 1/4 Nasa 4/193 Ramkaran s/o Sodu Nasa 3/16 caste khast st. Doh Shyama Kaver Chandra wo Chandra Singh Solanki caste Rajput N. Shapuram Nasa 9/16 khastar Ramkaran s/o Sodu Nasa 1/4 Babul s/o Babu Nasa 1/2 caste khast Rajas 05 Sanyu Kumar yadav s/o Ramdhar yadav N. Pat No. 127 Rakhone Nager Vaidh Nager Jaur Babu 17
915					Private	Barani 3	27	Khas shyam infirmit India Lip Director Vijay Kumar s/o Ashok Kumar 608 valhar Complex Vaidh Nager Jalpur Nasa 21/100 Mahesh chand s/o Harman sahay caste khast Nasa 4/100 Ramkaran s/o Sodu Nasa 3/16 caste khast st. Doh Shyama Kaver Chandra wo Chandra Singh Solanki caste Rajput N. Shapuram Nasa 9/16 khastar Ramkaran s/o Sodu Nasa 1/4 Babul s/o Babu Nasa 1/2 caste khast Rajas 06 Sanyu Kumar yadav s/o Ramdhar yadav N. Pat No. 127 Rakhone Nager Vaidh Nager Jaur Babu 17
916					Private	Barani 3	10	Surajpal Harman Barchhhar Bhavpal Gharhi Babul s/o Rata Nasa 6/32 Surajpal s/o Rata rath S.B.B.J. Branch shapuram murli Nasa 4/22 Ramal Gulab chand Garpuran Ramangh Shandhudeyal s/o kanaram Phool Beva kanaram Nasa 1/32 Gulabchand s/o kanaram Nasa 1/16 Shandhudeyal s/o kanaram Nasa 1/38 Murshid Ramdhar s/o Gopal Nasa 1/24 Nandhu Devi wo Gopal Nasa 1/16 Ghendhal Subhash Dighat wo Dhurmal Barani Devi wo Dhurmal Nasa 1/16 Chhilar s/o Ruda Gopendral Barchhhar Kati Gyralal Laburan s/o Prashat Nasa 1/2 caste moli st. dth khastar

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				841	Private	Barani 3	22	Arvi Gurbu s/o M. L. Gupta caste Mahajan Ni. Purana Rajendra Nagar New Dehi Hissa 1/3 Sukhyar singh hida s/o Sheringh caste Had. Ni. C. 93 III floor indrapuri New Dehi Hissa 1/3 Tejendra Katar s/o Gopa caste Katar caste khat Ni. 7/17 Barani Kuni New Dehi Hissa 1/3 dar hissa 7670/9600 Geeta Devi w/o Gokul chand Jangir Hissa 25/9600 caste khat Ni. shahpura Chaudhmal s/o Prabhudayal Mahta hissa 90/9600 sa. Radawas Manaschand s/o P. anuman shahy caste khat hissa 100/9640 Kailash Chand s/o Rangshay Ni. Leikabas Prakash chand s/o Hiralal caste Jat Ni. shahpura Baccaram s/o Narashev caste Jat Ni. Devan hissa 378/9640 khatedar
				844	Private	Barani 3	21	Kerpu Devi w/o Narayanlal caste Mai hissa 25235 Kalyanshahy s/o Nathu mali hissa 36/235 Narayan s/o Nathu mali hissa 36/235 Piku w/o Anjula hissa 12/19 Babulal s/o Nathu hissa 7/19 dar hissa 19/235 Mohan s/o Nathu hissa 36/235 Rudaram s/o Nathu hissa 19/235 Suwal s/o Nathu hissa 44/235 Rudaram Suwalat Narayan Babulal Kalyanshahy Mahanlal s/o Nathu hissa 10/235 caste Mai
				861	Private	Barani 1	103	Narayan s/o Chokhla hissa 1/10 Koshiya Devi w/o Gyalisil Mahajan Ni. Khori Rahin Uko Bank shahpura hissa 1/2 dar hissa 26/37 Badri prasad s/o khubaram jat Ni. Jajekla hissa 11/37 dar hissa 1/10 Bidami Beva Gyalisil hissa 1/20 Ashok kumar s/o Gyalisil hissa 3/20 Kaluram s/o Bakaram Bunkar caste Balai Ni. Plat No. 10 Ganesh Nagar III Muripura Scheme Jaipur Barwari s/o Mangru Barji Beva Mangru caste Balai hissa 1/3 dar hissa 1/5 caste Balai sa. Barwanil s/o Ramchandra Sambhanya caste khat hissa 1/3 dar hissa 1/5 Ni. Jaipur Sharda devi w/o Omprakash Jeengar caste Balai Ni. III Riyal City Ambabari Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 Jagdeesh prasad Ramesh chand s/o Chooluram hissa 1/5 dar hissa 1/5 Brijesh kumar s/o Totaram caste Walmiki Harijan Plat No. 763 Bapu colony Moti Lal Akal Road shir sagar Hotel Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 khatedar
				862	Private	Barani 1	60	Narayan s/o Chokhla hissa 1/10 Koshiya Devi w/o Gyalisil Mahajan Ni. Khori Rahin Uko Bank shahpura hissa 1/2 dar hissa 26/37 Badri prasad s/o khubaram jat Ni. Jajekla hissa 11/37 dar hissa 1/10 Bidami Beva Gyalisil hissa 1/20 Ashok kumar s/o Gyalisil hissa 3/20 Kaluram s/o Bakaram Bunkar caste Balai Ni. Plat No. 10 Ganesh Nagar II Muripura Scheme Jaipur Barwari s/o Mangru Barji Beva Mangru caste Balai hissa 1/3 dar hissa 1/5 sa. Barwanil s/o Ramchandra Sambhanya caste khat hissa 1/3 dar hissa 1/5 Ni. Jaipur Shirdi devi w/o Omprakash Jeengar caste Balai Ni. III Riyal City Ambabari Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 Jagdeesh prasad Ramesh chand s/o Chooluram hissa 1/5 dar hissa 1/5 Brijesh kumar s/o Totaram caste Walmiki Harijan Plat No. 763 Bapu colony Moti Lal Akal Road kshir sagar Hotel Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 khatedar
				865	Private	Barani 1	68	Narayan s/o Chokhla hissa 1/10 Koshiya Devi w/o Gyalisil Mahajan Ni. Khori Rahin Uko Bank shahpura hissa 1/2 dar hissa 26/37 Badri prasad s/o khubaram jat Ni. Jajekla hissa 11/37 dar hissa 1/10 Bidami Beva Gyalisil hissa 1/20 Ashok kumar s/o Gyalisil hissa 3/20 Kaluram s/o Bakaram Bunkar caste Balai Ni. Plat No. 10 Ganesh Nagar III Muripura Scheme Jaipur Barwari s/o Mangru Barji Beva Mangru caste Balai hissa 1/3 dar hissa 1/5 sa. Barwanil s/o Ramchandra Sambhanya caste khat hissa 1/3 dar hissa 1/5 Ni. Jaipur Sharda devi w/o Omprakash Jeengar caste Balai Ni. III Riyal City Ambabari Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 Jagdeesh prasad Ramesh chand s/o Chooluram hissa 1/5 dar hissa 1/5 Brijesh kumar s/o Totaram caste Walmiki Harijan Plat No. 763 Bapu colony Moti Lal Akal Road kshir sagar Hotel Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 khatedar
				866	Private	Barani 1	52	Narayan s/o Chokhla hissa 1/10 Koshiya Devi w/o Gyalisil Mahajan Ni. Khori Rahin Uko Bank shahpura hissa 1/2 dar hissa 26/37 Badri prasad s/o khubaram jat Ni. Jajekla hissa 11/37 dar hissa 1/10 Bidami Beva Gyalisil hissa 1/20 Ashok kumar s/o Gyalisil hissa 3/20 Kaluram s/o Bakaram Bunkar caste Balai Ni. Plat No. 10 Ganesh Nagar III Muripura Scheme Jaipur Barwari s/o Mangru Barji Beva Mangru caste Balai hissa 1/3 dar hissa 1/5 sa. Barwanil s/o Ramchandra Sambhanya caste khat hissa 1/3 dar hissa 1/5 Ni. Jaipur Sharda devi w/o Omprakash Jeengar caste Balai Ni. III Riyal City Ambabari Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 Jagdeesh prasad Ramesh chand s/o Chooluram hissa 1/5 dar hissa 1/5 Brijesh kumar s/o Totaram caste Walmiki Harijan Plat No. 763 Bapu colony Moti Lal Akal Road kshir sagar Hotel Jaipur hissa 1/5 dar hissa 1/5 khatedar
				867	Private	Barani 3	332	Ishwar s/o Udamani Salini Ni. Shahpura hissa 1/24 Sugyani s/o Rudaram hissa 26/900 Yadev Ni. Bidara Sewarnal shama s/o Bidi chand shama Ni. Shahpura hissa 372/900 dar hissa 1/2 Hagar ram s/o Danaram Jat Ni. Jaipura teh. Chomu Hissa 1/24 Kanaram s/o Prachar s/o Ganesh hissa 63/900 caste yadev Chandrakala Devi w/o Chiranjali caste Mahajan Ni. shahpura hissa 27/900 Rajulal yadev s/o Bhagrat yadev Dhani Dhanawa Sherpur Bhaurat Bhaurat s/o Benatali yadev Ni. Chhapra khurd hissa 7/8 Rangopal s/o Heera hissa 1/16 Vinod kumar shama s/o Ramgopal shama hissa 3/8 Ni. Khateri Mas. shahpura Ramesh chand s/o Ganesh m. Mahajan Ni. khon hissa 3/8 Gulab chand s/o Prapo yadev Ni. Bidara hissa 14 dar hissa 1/16 Mani Beva Prabu yadev hissa 1/16 Ramdhan s/o Heera hissa 4/16 Guilaram s/o Parman hissa 3/16 Chhapra s/o Shyosahy hissa 1/22 Tophani Beva Shyosahy hissa 1/22 caste shir sa deh khatedar
				869	Private	Barani 3	32	Rameshwar Omprakash Lalatal Sanyasany s/o Rameswar. Murti Devi Beva Rameshwar shama 26. Doh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				885	Private	Barani 3	179	Vishnu Sharma s/o Barani lal Sharma Ni. Main Chopar, shahpura Ashok Gupta s/o Nandkishore C. jeta niveshi anarwar dandesh shahpura Hissa 524 Bhakul Kalia h. chand Anandchand s/o Girdhari lal jeta Ni. Rajpura Hissa 124 Jagdish s/o Bakram yadav Sidara Hissa 157760 Ramgopal s/o Hara Hissa 1/16 Ramdhan s/o Hara Hissa 1/16 Topani Beva Shyashay Hissa 132 Badri Narayan Prabhu Mann Beva Prabhu Hissa 1/16 Chakul s/o Shyashay Hissa 132 Kamla Devi w/o Omprakash Palaniya Shew Singh s/o Omprakash Anita Priyika D/o Omprakash Palaniya Hissa 35/487 Gulabam s/o Pararam Hissa 1/4 caste yadav sa. deh Khadar
				918	Government	Gair Mumkin Talab	30	Shaychak Bala Lagani Gair Mumkin Nala
				924	Private	Barani 3	452	Jagdish prasad Ramdhar s/o Surkhal caste Sharma Hissa 339/12 Ayar Madan lal s/o Ramdhar prasad Sharma caste Sharma Hissa 4/12 Ayar 550 Sq yard
				983	Private	Barani 2	219	Arwar s/o Ramdev Hissa 12 Seetaram s/o Balu Hissa 73/170 caste yadav sa. Deh Ashok kumar s/o B.R. Meena Hissa 12/170 Ni. Plot No. 118 Kamnagar, Jhorewar Japur
				984	Private	Barani 3	144	Muni s/o Bhura caste Rajur sa. Deh
				984.1	Private	Barani 3	80	Parwa kumar singhal s/o Boduram caste harjan Ni. Chhotnoi w/o Khetri Muri s/o Bhura caste opar sa. Deh
				988	Private	Barani 3		Ramgopal Prabhudayal Devashay Ramdhar s/o Kajor caste yadav
				987	Private	Barani 3	254	Arun Ramdhar s/o Chandaram Mu. Khatni Beva Chandaram Hissa 1/6 Khatni ram s/o Sona Hissa 3/18 Surval s/o Sona Raha S.B.B.J. Bank Brnce shahpura Hissa 3/18 Ishwar Muri s/o Ramdev Rahin U.T. Bank of Japur mumkin Hissa 1/6 Balu s/o Ramdev Hissa 12 Balu s/o Verna Hissa 1/4 caste yadav sa. deh Mu. Khadar
				989	Private	Barani 3	97	Chasram Beshchhar Laxman s/o Narayan caste yadav Hissa 1/2 Bidani Beva Chothu Hissa 1/3 Pura s/o Hardev Phoola s/o Sura Hissa 2/3 der Hissa 1/2 caste yadav
				990	Private	Barani 3	102	Chasram Beshchhar Laxman s/o Narayan caste yadav Hissa 23/50 Bidani Beva Chothu Hissa 1/3 Pura s/o Hardev Phoola s/o Sura Hissa 2/3 der Hissa 1/2 caste yadav
				1084	Private	Gair Mumkin Petrol Pump Barani 3	209	Pratima Pradip s/o jeta nival Poddar Hissa 65/131 Marjan Agarwal Ni. D.P. 22 Phampur Dahi Kucham deni Elagoyis s/o pavan kumar Bhagoraya Hissa 65/131 sa. Deh
				1085	Government	Gair Mumkin Rasta	15	Shaychak Bala Lagani Gair Mumkin Rasta
				1086	Private	Chahi 1 Jaav 1	108	Kalaram Sandaram s/o Nahu 1/4 Marjan Kallish s/o Bhora jeta Beva Bhora Hissa 1/4 Dask Ramdhar s/o Shyashay Hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				1183	Private	Chahi 1 Jaav 1	53	Kalaram Sandaram s/o Nahu 1/4 Marjan Kallish s/o Bhora jeta Beva Bhora Hissa 1/4 Dask Ramdhar s/o Shyashay Hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				1194	Private	Chahi 1 Jaav 1	93	Modi Sharan Ramdhar Ramdas Ramdhar s/o Chaturu caste yadav Ni. Bidara
				1196	Private	Chahi 1	89	Ramu s/o Hardev Hissa 1/3 Padma w/o Biduram caste yadav Hissa 2/3 sa. Deh Khadar
				1197	Private	Jaav 1	41	Ramu s/o Hardev Hissa 1/3 Padma w/o Biduram caste yadav Hissa 2/3 sa. Deh Khadar
				1199	Government	Gair Mumkin Rasta	12	Shaychak Bala Lagani Gair Mumkin Rasta
				1208	Private	Barani A	79	Ramu Pura s/o Hardev Hissa 2/3 Phoola s/o Sura Hissa 1/3 caste yadav sa. Deh
				1209	Private	Barani A	89	Ladi Mangi s/o karia jeta Ni. Bidara
				1211	Private	Barani A	32	Ladi Mangi s/o karia jeta Ni. Bidara
				1212	Private	Barani A	93	Ladi Mangi s/o karia jeta Ni. Bidara
				1218	Private	Barani A	10	Ramu s/o Hardev Hissa 1/3 Padma w/o Biduram caste yadav Hissa 2/3 sa. Deh Khadar
				1219	Private	Chahi 2 Jaav 2	60	Kalaram Sandaram s/o Nahu 1/4 Marjan Kallish s/o Bhora jeta Beva Bhora Hissa 1/4 Dask Ramdhar s/o Shyashay Hissa 1/2 caste yadav sa. Deh
				1281	Private	Barani 3	18	Ramgopal Prabhudayal Devashay Ramdhar s/o Kajor caste yadav
				1282	Private	Barani 3	131	Arun Ramdhar s/o Chandaram Khatni Beva Chandaram Hissa 1/4 Khatnam Hanuman s/o Sona Hissa 1/2 Sura s/o Sona Hissa 1/4 caste yadav sa. Deh Hissa 19/20 Balu s/o Khona Hissa 1/20 yadav
				1283	Private	Barani 3	319	Balu s/o Khona caste yadav sa. Deh
				1320	Private	Barani 3	10	Arun Ramdhar s/o Chandaram Mu. Khatni Beva Chandaram Hissa 1/4 Khatnam Hanuman s/o Sona Hissa 1/2 Sura s/o Sona Hissa 1/4 caste yadav sa. Deh Khadar
				1321	Private	Barani 3	464	Ishwar Muri s/o Ramdev Hissa 2/3 Babul s/o Ramdev Hissa 1/3 der Hissa 16/21 Arun Ramdhar s/o Chandaram Khatni Beva Chandaram Hissa 1/4 Khatnam Hanuman s/o Sona Hissa 1/2 Sura s/o Sona Hissa 1/4 caste yadav sa. Deh
				1322	Private	Barani 3	187	Arun Ramdhar s/o Chandaram Mu. Khatni Beva Chandaram Hissa 1/6 Khatnam s/o Sona Hissa 3/18 Surval s/o Sona Hissa 3/18 Ishwar Muri s/o Ramdev Hissa 1/6 Babul s/o Ramdev Hissa 1/2 Balu s/o Khona Hissa 1/4 caste yadav sa. Deh
				1323	Private	Barani 3	58	Chasram s/o Hardev Onkar s/o Hardev hi ba Ni. Caste yadav sa. Deh

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1:24	Private	Barani 3	190	Madanlal s/o Seetaram hissa 6/76 caste Mahajan. Kelash chand Shimbhodayal s/o Banwari lai hissa 27/76 mahajan Ni. Sh-yapur Amer Road Jaipur Ghesaram s/o Harde hissa Omkar s/o Hardev 23/76 yadav b h b a deh Surajmal s/o Seetaram hissa 20/76 Mahanai s/o gnb
				1329	Private	Barani 3	299	Prem Devi s/o Seetaram w/o Bebutai hissa 6/57 caste Mahajan s/o. Dori Surajmal s/o Seetaram hissa 6/57 Shah: devi d/o Seetaram w/o Prabhat Raay hissa 20/57 Ni. Jaipur. Madanlal s/o Seetaram hissa 12/57 Abhinandan Vinai Kumar s/o Gajendra Vidha devi Malayapal Sonji d/o Gajendra hissa 13/57 caste mahajan Ni. Vinahagar
				1330	Private	Barani 3	825	Arjun Ramshay s/o Chandaram Kishu. Beva Chandram hissa 1/4 Kishu-gam Hec-man s/o Sona hissa 1/2 Sura s/o Sona hissa 1/4 3335 3388 sa. Deh. Surajmal Hanuman Banskidhar Bhavai Girdhari Babul s/o Balu hissa 6/32 Ramial Gulchand Gopindram Randhish Shimbhodayal s/o Kanaram Pooi Beva Kanaram s/o hissa 1/32 Surajal s/o Balu hissa 1/32 Nandhu Devi w/o Gopi Munshilal Rameshwar s/o Gopi hissa 3/16 Shankar Subhash Dinesh s/o Dhuri lai Banarsi Devi w/o Dhunilal hissa 1/16 Chinar s/o Rude Gajendra Sardarmal Kalu Gyarsi lai Laduram s/o Prabhat hi ba hi 3/2 caste mata sa. Deh khatedar
				1331/1665	Private	Barani 3	75	Surajmal Hanuman Sivalal Hanuman Banskidhar Bhavai lai Girdhari Babul s/o Balu hissa 1/3 Nandhu Devi w/o Gopi Dhunilal Munshilal Rameshwar s/o Gopi hissa 1/3 Nandhu Godeh s/o Sona hissa 1/3 caste mata sa. Deh
				794/1613	Private	Barani A	25	Parla Kalu Suryan Bhageerath Ramkaran s/o Richhpal M. Guab Beva Richhpal caste mgana sa. Deh
				797/1593	Private	Barani 1	387	Malram Mukesh s/o Deva M. Bhagavi Beva Harpal Ramswrup Rakesh s/o Bhora Adur Savitzi s/o Chanda caste mgana sa. Deh
				810/1599	Private	Gair Mumkin Nala	46	Narangal Devi Gyarsi Devi d/o Soti caste sharma sa. Deh khatedar
				810/1318	Private	Barani 3	14	Khatu shyam Inphrotek India Li. Dindor Vijay Kumar s/o Ashok Kumar 908 Vaidhav Compax Washali Nagar Jaipur hissa 1/4 Ramliwash s/o Sedu hissa 1/4 Babul s/o Balu hissa 1/2 caste khatu Rakha 0-08 Hact. Sanikumar yadav s/o Rankumar yadav Ni. Plot No. 127 Ramore Nagar Washali Nagar Jaipur Rakha D-07 Hact. - khatedar
				860/1682	Private	Barani 3	23	Ruda Prabhat s/o Ganesh hissa 2/8 kanaram s/o Prabhat hissa 1/8 Rameshwar Balu Phooka s/o Nathu hissa 1/8 Ramenhan s/o Heera hissa 1/16 Badri Narayan s/o Prabhu Mani beva Prabhu hissa 1/16 Chhatral s/o Shyosahay hissa 1/32 Gulla s/o Parla hissa 1/4 3335 yadav sa. Deh
				924/1687	Private	Barani 2	57	Jagdish prasad Ranawat s/o Sundarlal caste sharma hissa 1200/1686 Girdhi s/o Ganesh yadav Ni. Rapura hissa 130 337/1680 Madanlal s/o Rameshwar prasad sharma caste sharma hissa 340/87/1680 khatedar
11. Shahpura				3942	Private	Gair Mumkin Workshop	23213	Kray- Vikray shankar samiti shahpura initial No 1961/25-2-00 Ke dawara Khadra No 3942/1 Rakha 1.05 Kray-Vikray Samiti samiti shahpura Rahin the Jaipur central cooperative bank ltd. shahpura murthin ka ankan speekar.bva
				3943	Government	Gair Mumkin	73	P.W.D
				3944	Private	Barani A	19	Rameshwar prasad Marnal Shwidan Santosh s/o Bhairu Prabhat Beva Bhauri Marnal Shwidan Santosh Sarpatat mata Prabhat hissa 360/1440 Hanumai: s/o Omkar hissa 360/1440 Birdu s/o Dedu hissa 420/1440 Jat sa. Deh Koshamal s/o Nondaram hissa 75/1440 Bhagwan sahay s/o Nondaram hissa 75/1440 Laxminarayan s/o Nondaram hissa 75/1440 caste Gurjar Nwasi. Nurpur teh. Junwarangath khatedar
				3951	Private	Jaav 3	200	Nagarpalika shahpura
				3953	Private	Chahri 1 Jaav 1	25	Bhagwana s/o Ruda caste Jat
				3954	Private	Chahri 1 Jaav 1	18	Nagarpalika shahpura
				3955	Private	Chahri 1 Jaav 1	15	Bhagwana s/o Ruda hissa 252/960 jat Nagarpalika hissa 708/960 sa. Deh khatedar
				3968	Private	Chahri 1 Jaav 1	51	Nagarpalika shahpura
				3969	Private	Chahri 1 Jaav 1	38	Nagarpalika shahpura
				3970	Private	Nagarpalika Chahri 1	300	Nagarpalika shahpura
				3971	Private	Chahri A	54	M/s National Carpets Manufacturing Company Kalyanji Ka Rasta Jaipur Jariye Partner Dean Mohamad Ramjan s/o Mohamed Ramjan hissa 1700/3720 caste Musalman Nwasi. Deepak Mang Pasi No. 112 Jaipur. Mami Devi w/o Kanhayalal Phodi Devi w/o Makram Tara devi w/o Jodhai Prasad hissa 87/3720 Mami Devi w/o Kanhayalal agawal hissa 140/3720 caste Mahajan Nwasi. Rampura Gesta devi w/o Rajendra Kumar Gupta Nwasi. khon hissa 140/3720 Aachhi devi w/o Madanlal agawal Shyam ooboo shahpura hissa 3703/220 khatedar
				3968	Private	Chahri A Jaav A	34	Nagarpalika shahpura
				3999	Government	Chahri 1 Jaav 1	37	Nagarpalika shahpura
				4000	Government	Chahri 1 Abadi	10	Nagarpalika shahpura
				4001	Government	Chahri 1 Jaav 1	52	Nagarpalika shahpura
				4007	Government	Chahri 1 Jaav 1	34	Nagarpalika shahpura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4014	Government	Chait 1 Abadi	10	Nagarपालिका शाहपुरा
				4016	Gover. ment	Chait 1, Janv 1	28	Nagarपालिका शाहपुरा
				4017	Private	Benjar Dol	10	Muchend Prabhudayal Sardara Hanuman saba s/o Sadya Nasa 1/2 H. b. N. Suktha Sundar Prabhu Karmaya Beerje s/o Baldev Nasa 1/2 H. b. N. Case let sa. Den khaleider
				4023	Private	Chait 1, Janv 1	48	Muchend Prabhudayal Sardara Hanuman saba s/o Sadya Nasa 1/2 H. b. N. Suktha Sundar Prabhu Karmaya Beerje s/o Baldev Nasa 1/2 H. b. N. Case let sa. Den khaleider
				4024	Private	Benjar Dol	10	Muchend Prabhudayal Sardara Hanuman saba s/o Sadya Nasa 1/2 H. b. N. Suktha Sundar Prabhu Karmaya Beerje s/o Baldev Nasa 1/2 H. b. N. Case let sa. Den khaleider
				4026	Private	Chait 1, Janv 1	20	Nagarपालिका शाहपुरा
				4030	Private	Benjar Dol	10	Muchend Prabhudayal Sardara Hanuman saba s/o Sadya Nasa 1/2 H. b. N. Suktha Sundar Prabhu Karmaya Beerje s/o Baldev Nasa 1/2 H. b. N. Case let sa. Den khaleider
				4031	Government	Gair Mumbin	441	Swagchak
				4036	Government	Gair Mumbin	418	Swagchak
				4041	Private	Chait 2 Janv 2	173	Vivenda kumar s/o Chahu ram let sa. Dadya dist. Awer Nasa 176/785 Handishor Jagdishor s/o Muthhar Mod Nasalet. Awar Nasalet s/o. Shindashor (Shur) Nasa 1400/783 Mei. 1000 Veng Gai Patel Pump Abadi der Nasa 1/5 Mannen s/o Mangla Ramchandra Ramchandra Babula s/o Kajor Sori Bera Kajor Choti Bera Hardev Mahan Ramji s/o Hardev Bhagat s/o Kishan Nasa 3/5 Mohan s/o Kishan 905/1578 Swagchak Nasa 675/1578 Nasa 1/5 case let sa. den khaleider
				4042	Private	Chait 2	282	Vivenda kumar s/o Chahu ram let Nagalety Dier. Awer Nasa 176/785, Nandishor Jagdishor s/o Muthhar Mod Nasalet. Awar Nasalet s/o. Shindashor (Shur) Nasa 1400/783 Mei. 1000 Veng Gai Patel Pump Abadi der Nasa 1/5 Mannen s/o Mangla Ramchandra Ramchandra Babula s/o Kajor Sori Bera Kajor Choti Bera Hardev Mahan Ramji s/o Hardev Bhagat s/o Kishan Nasa 3/5 Mohan s/o Kishan 905/1578 Swagchak Nasa 675/1578 Nasa 1/5 case let sa. den khaleider
				4044	Private	Chait 2	10	Muchend Prabhudayal Sardara Hanuman saba s/o Sadya Nasa 1/2 H. b. N. Suktha Sundar Prabhu Karmaya Beerje s/o Baldev Nasa 1/2 H. b. N. Case let sa. Den khaleider
				4045	Private	Nagarपालिका Chait 2	300	Nagarपालिका शाहपुरा
				4046	Private	Chait 2 Janv 2	82	Muchend Prabhudayal Sardara Hanuman saba s/o Sadya Nasa 1/2 H. b. N. Suktha Sundar Prabhu Karmaya Beerje s/o Baldev Nasa 1/2 H. b. N. Case let sa. Den khaleider
				4060	Private	Benjar 1	91	Nagarपालिका शाहपुरा
				4061	Private	Benjar 1	80	Nagarपालिका शाहपुरा
				4155	Private	Janv 1 Benjar 2	116	Ghaseem Ramchandra Seetaram s/o Ganda Nasa 1/8 Ganda Nasa 1/8 Prabhu Girhari Mohan s/o Ganda Nasa 1/8 Mannen Badi s/o Peta Nasa 1/8 Kaku ram Sachi ram s/o Lachu Shindashor Shewen let khyl ram denkanen Seetaram Seetaram s/o Shindashor Bideri Bera s/o Kishan Nasa 85/300 case Gurjar Nagarपालिका शाहपुरा Nasa 275/300 der Nasa 1/8 Hardev Nasa s/o Bhagya Nasa 1/4 Lachand Jagdeesh s/o Sunder Dal Bal s/o Sunder Nasa 1/4 sa. den khaleider
				4170	Private	Chait 1 Janv 1	187	Ghaseem Ramchandra Seetaram s/o Ganda Nasa 1/8 Ganda Nasa 1/8 Prabhu Girhari Mohan s/o Ganda Nasa 1/8 Mannen Badi s/o Peta Nasa 1/8 Kaku ram Sachi ram s/o Lachu Shindashor Shewen let khyl ram denkanen Seetaram Seetaram s/o Shindashor Bideri Bera s/o Kishan Nasa 85/300 case Gurjar Nagarपालिका शाहपुरा Nasa 275/300 der Nasa 1/8 Hardev Nasa s/o Bhagya Nasa 1/4 Lachand Jagdeesh s/o Sunder Dal Bal s/o Sunder Nasa 1/4 sa. den khaleider
				4530	Private	Chait 1	286	Nagarपालिका शाहपुरा 4530/1, 4530/2 Doro hse Nagarपालिका ke nase Hal
				4531	Private	Chait 1	26	Nagarपालिका शाहपुरा
				4533	Private	Chait 1	307	Bode Bhagwath s/o Bhagya case let sa. Den khaleider
				4534	Private	Chait 2	283	Nagarपालिका शाहपुरा
				4546	Private	Chait 1 Janv 1	411	Nagarपालिका शाहपुरा
				4547	Private	Chait 1	218	Nagarपालिका शाहपुरा 316/600 Ganga s/o Chihu Nasa 480/300 case let
				4555	Private	Chait 1	16	Nagarपालिका शाहपुरा 316/600 Ganga s/o Chihu Nasa 480/300 case let
				4556	Private	Chait 1 Janv 1	117	Nagarपालिका शाहपुरा 316/600 Ganga s/o Chihu Nasa 480/300 case let
				4557	Private	Chait 1	180	Bhagya s/o Rude case let sa. Den khaleider

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				4258	Private	Barani 1	10	Ramesh s/o N. Chulal caste Mahajan sa Deh hissa 2007400 Radhasayam s/o Muri dhar caste Mahajan hissa 1392400 caste Mahajan Nagarpalika sa Nariwale shahpura 13812400 khatedar
				4646	Private	Barani 1	64	Narada Ganesh Gopal Arjuna s/o Doram caste jat hissa 991560 Arjunial s/o Sukhdev s/o Bhat Gopal s/o Rudram 31/1560 caste jat Lakhanla s/o Bhagatram caste Barani hissa 13501560 Nagarpalika shahpura hissa 801560 sa Deh khatedar
				4645	Private	Barani 3	66	Savitri Devi w/o Sh. vadya caste Soni hissa 209480 Nagarpalika shahpura hissa 271480 sa Deh khatedar
				40275704	Private	Barani 1	18	Nagarpalika shahpura
				40275630	Private	Chahi 1 Jav 1	23	Nagarpalika shahpura
				46475583	Private	Barani 3	174	Savitri Devi w/o Shivdayal caste Sunar sa Deh khatedar
						Total	5811	
				96	Private	Dehar 2	184	Navadevi w/o Phoolchand caste Balai Nwasi, Kihangahai hai Aasid New Deh B - 1205 New
				112	Private	Barani 2	141	Mayadevi w/o Phoolchand caste Balai NI Kahangahai hai Aasid New Deh B - 1205 New
						Total		Moti Nagar khatedar
				114	Private	Dehar 2	321	Bheerai Shriya s/o Vishveshwarai Shriya Karto Hindu Sanyukt Parivar KI Parharai, D. Mahendra Kumar Shriya Bhawarai Shriya 2 Adhyashya (Na balig) s/o Mahendra Kumar Shriya sa Shriya Bhawan Ramnagar Ajmer (Raj.) hai Shahpura hissa 12 Shimudayal s/o Debu ram caste Kumar sa shahpura hissa 1/2 khatedar
				121	Private	Chahi Dhaki	236	Nalhu Phoolchand Shyotrayan caste Kumar sa Shahpura khatedar
				122	Private	Chahi Dhaki	481	Prabhad Pachuram s/o Chhoturam caste Kumhar sa Shahpura khatedar
				123	Private	Chahi 1	80	Bhairu s/o Chandaram caste jat sa Deh khatedar rabin S B B J murthin
				134	Private	Barani Khanda	56	Bhura Sundara Kian Kaku s/o Paria Narayan s/o Bidu hissa 1/3 Bhaurial s/o chanda rabin S B B J hissa 2/3 murthin
				135	Private	Barani Khanda	59	Bhura Sundara Kian Kaku s/o Paria Narayan s/o Bidu hissa 1/3 Bhaurial s/o chanda rabin S B B J hissa 2/3 murthin
				136	Private	Barani 1	436	Bhanu s/o Chandaram caste jat sa Deh khatedar rabin S B B J murthin
				138	Private	Chahi 1 Jav 1	204	Sachuram s/o Badi Surendra Kumar s/o Gangasahay khema Beva Gangasahay hissa 1/2 Chhajuram Prabhudayal s/o Laduram Sanyo w/o Laduram hissa 1/2 caste jat sa Deh khatedar
				140	Private	Chahi 1	10	Sachuram s/o Badi Surendra Kumar s/o Gangasahay khema Beva Gangasahay hissa 1/2 Chhajuram Prabhudayal s/o Laduram Sanyo w/o Laduram hissa 1/2 caste jat sa Deh khatedar
				141	Private	Farani Awasal	200	Sachuram s/o Badi Surendra Kumar s/o Gangasahay khema Beva Gangasahay hissa 1/3 Sachuram s/o Badi Surendra Kumar s/o Gangasahay khema Beva Gangasahay hissa 1/4 khema Beva Gangasahay hissa 1/6 caste jat sa Deh khatedar s/o Jagdeesh prasad Jat NI
				156	Private	Barani 1	86	Jagda Mohanlal s/o Gangadhar sa Nibhar hissa 1/2
				202	Private	Chahi 2	175	Chanda s/o Bhagwana jat sa Deh khatedar
				204	Private	Chahi 2	21	Shairam s/o Suram caste jat sa Shahpura hissa 662040 Chanda s/o Bhagwana hissa 1877342040 caste Jat khathbu Goyal w/o Vedprakash Goyal hissa 96862040
				206	Private	Chahi 2 Jav 2 Barani Awasal	200	Lauren Shyog Simbu Nando s/o Bhagwan caste jat sa Deh khatedar
				207	Government	Chahi 2 Jav 2 Barani Awasal	130	Shimbhu s/o Bhagwana caste jat sa Deh khatedar
				214	Government	Gair Mumkin Rasta	27	Shimbhu s/o Bhagwana caste jat sa Deh khatedar
				215	Government	Gair Mumkin Rasta	174	Govt of Rajasthan
				216	Government	Gair Mumkin Rasta	108	Govt of Rajasthan
				217	Private	Barani	110	Nagarpalika shahpura
				241	Government	Gair Mumkin Pahad	10	Govt of Rajasthan
				248	Private	Gair Mumkin Pahad	2144	Prabhu Mangla s/o Narayan caste jat sa Deh khatedar
				250	Government	Changan	148	Govt of Rajasthan
				251	Government	Changan	1608	Parayan Vihang Bhauri Sarkar
				1141514	Government	Gair Mumkin	1820	R.M.I.D. Rajasthan
				2411535	Government	Gair Mumkin Pahad	373	Police Chauti Police Thana shahpura Dist. Jalpur
				2501534	Government	Changan	63	Parayan Vihang Bhauri Sarkar
						Total	1140	Changan
						Total	10425	
				1416	Private	Barani 3	15	Gimia Kurni Gupta w/o Ganga Bishan Gupta caste Mahajan Nwasi 4/12 east Panjabi Bag
				1417	Private	Barani 3	3	Bag New Deh B - 28 khatedar
						Total		Bimla Kurni Gupta w/o Ganga Bishan Gupta caste Mahajan NI 4/12 east Panjabi Bag
						Total		New Delhi 26 khatedar

[F.No. CGM/RO/RKS/12/2009/NH-83D/Kot]

PRABHAKAR, Dy. Secy.